

श्री गुरु वर पाश्र्चिनाथाय नम
उदा श्री जिनदत्त उगता गुरुभ्या नम
मुखागार हरिआनन्द कविन्द्र हमन्द्र उदय कान्ति सुरिभ्या नम

कान्ति सुलोचन सौरभ

सकलन करी

प प अज्वात्मगम निमग्ना प्र स्व श्री प्रमश्रीजी म मा की गिष्या
प प मयाभार्गी श्री तजश्रीजी म मा जी शिष्या प्रमिमाराणी
उद्धारिणी मा वीचया श्री रु गाचनात्री सुतवणाश्री

सस्करण - द्वितीय

मूल्य - सदुपयाग



प्रकाशक

श्री जिनदत्तसूरि ज्ञान भंडार, महावीर स्वामी जैन देरासर
विजय वल्लभ चाक पावधुनी,
वम्बई - ४०० ००३

पार्श्वमणि पार्श्वनाथाय नमः "



श्री. पार्श्वमणि जैन तीर्थ
पेढतुम्बलम् - आदोनी




दादाश्रीजिन कुशल सूरीश्वजी म सा

परमपूज्या पद्मदर्शिका गानमना श्रद्धेया
श्री सुलोचनाश्रीजी म मा.



जिनके जीवन में मृत्यु एवं समता साकार हुई है
जिनकी छाणी में प्रेम एवं करुणा छलक रही है
ऐसी महान साध्वीजी सुलोचनाश्रीजी के चरणों में
हृदय क कण कण से शत शत वन्दन हमारी है



पिछे पकित मे नॉवेसे छटे

पाट पर धिराजित

नीचे पकित मे दाये से

पू साध्वी म पियत्नेहाजना-श्रीजी म प्रियकल्पना-श्रीजी म
 प्रियवदना-श्रीजी म प्रियस्मिता-श्रीजी म प्रियदिव्याजना-श्रीजी म
 मध्यमे वगिमालानी उद्धारिका प पू श्री सुलोचना-श्रीजी म सा
 बाणे सुलक्षणा-श्रीजी म दाणे प्रीतीसुधा-श्रीजी म

प्रियभग्नजना-श्रीजी म प्रियरजना-श्रीजी म प्रीतिवगा-श्रीजी म
 प्रियलता-श्रीजी म प्रियसौम्यजना-श्रीजी म सा प्रियश्रद्धाजना-श्रीजी म सा

उपकारियों के उपकार कैसे भूलाय !

हे गुरुवर तेरे चरणों में
यह जीवन अर्पण करती हूँ
भवसागर नौका के नाविक
मैं तुम को वन्दन करती हूँ

हम अपने आप को परम मोभाग्यशाली मानते हैं कि परम श्रद्धेय युगप्रभावक आगम ज्योति आलोकिक प्रतिभा के धनि प. पू. स्व. आचार्य श्री जिन कान्तिसागर मुरिश्वरजी मसा का पावन वरदहस्त रहा। आप श्री की निरन्तर मत्प्रेरणासे हमारे जीवनरूपी उपवनमें यत्किञ्चित् सयमरूपी पुष्प खिले, उन पुष्पों का प्रेरणारूपी निर्मल जल देकर विकसित करनका साग श्रेय आप श्री को ही है क्योंकि यह सब आप श्री के ही शुभाशीर्वाद का सुन्दर फल है।

आप श्री के उपकारोकी कोई सीमा नहीं है। हम पर अनन्त उपकार है। अतः उन अनन्त उपकार की चिर स्मृति वश बनकर कान्ति मुलांचन सौरभ नाम की पुस्तिका सादर आपश्री के करकमलामें अर्पित कर हम कृत कृत्य बन रहे हैं।

हे अनन्त ज्ञान के ज्योति पुञ्ज
श्रद्धाजली अर्पित करती हूँ
भावा क अगणित पुष्पों में
सो सो बार वन्दन करती हूँ

चरण रज

सुलोचनाश्री, सुलक्षणाश्री

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
चैत्यवदन स्तुति	१ से ६६
स्तवन	६६ से १३३
सज्झाय	१३३ से १६१
स्तवन	१६२ से १९२
सज्झाय	१९२ से १९८



श्री चैत्यवन्दन - चौवीशी

श्री ऋषभदेवजिनेन्द्र-चैत्यवन्दनम् (9)

(शार्दूलविक्रीडित - छन्द)

सद्भक्त्या नतमोलिनिर्जरवरभ्राजिष्णुमौलिप्रभा-

समिश्राऽरूणदीप्तिशोभिचरणाम्भोजद्वय सर्वदा ।

सर्वज्ञ पुरुषोत्तम सुचरितो धर्मार्थिना प्राणिना,

भूयाद् भूरिविभूतये मुनिपति श्रीनाभिसूनुर्जिन ॥१॥

सद्वोधोपचिता सदैव दधता प्रोढ़प्रतापश्रियो,

येनाऽज्ञानतमोवितानमखिल विक्षिप्तमन्त क्षणम् ।

श्रीशत्रुजयपूर्वशैलशिखर भास्वानिवोद्भासयन्,

भव्याम्भोजहित, स एष जयतु श्रीमारूदेवप्रभु ॥२॥

यो विज्ञानमयो जगत्रयगुरुर्य सर्वलोका श्रिता

सिद्धिर्येन वृत्ता समस्तजनता यस्मै नति तन्वते ।

यस्मान्मोहमतिर्गता मतिभृता यस्यैव सेव्य वचो,

यस्मिन, विश्वगुणास्तमेव सुतरा वन्दे युगादीश्वरम् ॥३॥

(२)

श्री अजितनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (२)

(मालिनी - छन्दः)

सकलसुखसमृद्धिर्यस्य पादारविन्दे,

विलसति गुणरक्ता भक्तराजीव नित्यम् ।

त्रिभुवनजनमान्यः शान्तमुद्रामुद्राभिरामः

स जयति जिनराजस्तुङ्गतारङ्गतीर्थे ॥ १ ॥

प्रभवति किल भव्यो यस्य निर्वर्णनेन,

व्यपगतदुरितौघः प्राप्तमोदप्रपञ्चः ।

निजवलजितरागद्वेषविद्वेषिवर्गं,

तमजितवरगोत्रं तीर्थनाथं नमामि ॥ २ ॥

नरपतिजितशत्रोर्वशरत्नाकरेन्दुः,

सुरपति - यतिमुख्यैर्भक्तिर्दक्षैः समर्च्यः ।

दिनपतिरिव लोकेऽपास्तमोहान्धकारो,

जिनपतिरजितेशः पातु मां पुण्यमूर्तिः ॥ ३ ॥

श्री संभवनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (३)

(स्त्रग्वरा - छन्दः)

यद्भक्त्यासक्तचिताः प्रचुरतरभवभ्रान्तिमुक्ताम नुष्याः,

संजाता. साधुभावोल्लसितनिजगुणान्वेषिणः सद्य एव ।

स श्रीमान् संभवेशः प्रशमरसमयो विश्वविश्वोपकर्ता,

सद्भता दिव्यदीप्ति परमपद्रकृतं सेव्यतां भव्यलोका ; ॥१॥
 शुभलध्यानादकेनाज्ज्वलमतिशयितस्वच्छभावादभुतेन,
 स्वस्मादादृत्य वृत शिवपद निगम कमपङ्कप्रपञ्चम् ।
 नीरन्ध्र दूरायित्वा प्रकृतिमुपगतो निर्विकल्पस्वरूप
 सेक्यन्ताश्चध्वजोऽसा जगति जिनपतिर्वीतराग सदैव ॥२॥
 वाधो विद्योतिरत्नप्रकर इव परिभ्राजते सवकाले,
 यस्मिन्नि शेषदोषव्यपगमविशदे श्री जितारस्तनूजे ।
 दुष्प्रापो दुष्टसत्त्व स्फुटगुणनिकर शुद्धबुद्धिक्षमादि
 कल्याण श्रीनिवास स भवति वदताडभ्यचनीयान केषाम् ॥३॥

श्री अभिनन्दनजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (४)

(द्रुतविलम्बत छन्द)

विशदशारदसौमसमानन,
 कमलका मलचारुप्रिलाचन -
 शुचिगुण सुतरामभिनन्दना
 जय तुनिमलताञ्जितभूषण ॥१॥
 जगति कान्तहरीश्वरलाञ्छित
 क्रमसरारूह! मूरिकृपानिधे ।
 मम समीहितसिद्धि विधायक,
 त्वदपर कमपीहन तकये ॥२॥
 प्रवरसवर ! सवरभूपने
 स्तनय! नीतिविचक्षण! तपदम् ।
 शरणमस्तु जिनश! निरन्तर,
 रुचिरभक्तिसुयुक्तिकभृता मम ॥३॥

श्रीसुमतिनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (५)

(उपेन्द्रवज्जा - छन्दः)

सुवर्णवर्णो हरिणा सवर्णो,

मनोवनं मे सुमतिर्वलीयान् ।

गतस्ततो दुष्टकुदृष्टिराग - द्विपेन्द्र! नेव स्थितिरत्रकार्या

जिनेश्वरो मेघनरेन्द्र सूनु - धनोपमो गर्जति मानसे मे ।

अहो गुरुद्वेषहुताशन ! त्वा -

मसौ शमं नेष्यति सद्य एव

॥२॥

इतः सुदूरं ब्रज दुष्टबुद्धे !,

समं दुरात्मीयपरिच्छदेन ।

सुबुद्धिभर्ता सुमतिर्जिनेशो,

मनोरमः स्वान्तमितो मदियम्

॥३॥

श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (६)

(भुजङ्गप्रयात - छन्दः)

उदार प्रभामण्डलैर्भासमानः

कृतात्यन्तदुर्दान्तदोषापमानः ।

सुसीमाङ्गज ! श्रीपतिर्देवदेवः,

सदा मे मुदाभ्यर्चनीयस्त्वमेव

॥१॥

यदीयं मनः पङ्कजं नित्यमेव,

(५)

त्वयाडलकृत ध्येयरूपणदेवा ।

प्रधानस्वरूप तमेवातिपुण्य,

जगन्नाथ । जानामि लोके सुधन्यम् ॥२॥

अतोऽधीश । पद्मप्रभाडडनन्दधाम,

स्मरामि प्रकाम तवैवाङ्ग नाम ।

ननावाञ्छिताथप्रद योगिगम्य,

यथा । चक्रवाको रवेधाम रम्यम् ॥३॥

श्री सुपार्धनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (७)

(त्रोटक - छन्द)

जयवन्तमन्तगुणनिभृत,

पृथिवीसुतमद भृतस्यभृतम् ।

निजवीणविनिजितरुमवल,

सुरकोटिसमाश्रितधृत्कमलम् ॥ १ ॥

निरुपाधिकनिर्मलसाख्यनिधि,

परिवृजित विश्वदुग्न्तविधिम् ।

भववाग्निधि परम्पारमित,

परमोज्ज्वलचतन्दान्भिलितम् ॥ २ ॥

(६)

कलधांतसुवर्णशरीरधग्म्

• शुभपार्श्व सुपार्श्व जिनप्रवरम्

विनयावनतः प्रणमामि सदा,

हृदयोभवभृग्निरप्रमुदा

॥ ३ ॥

श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (८)

(वंशस्थ - छन्दः)

अनन्तकान्तिप्रकरणा चारुणा.

कलाधिपेनाश्रितमात्मसाम्यत. ।

जिनेन्द्र चन्द्रप्रभ । देवमुत्तमं,

भवन्तमेवात्महितं त्रिमात्रयं

॥ ३ ॥

उदारचारित्रनिधं जगत्प्रभां !,

तवाननःशंजविलोकनेन म ।

व्यथा ममस्तास्तमितोदितं सुखं,

यथा तमिस्र दिवमर्कतेजसा

॥ २ ॥

सदैव संभेवनतत्परं जने,

भवन्ति सर्वेऽपि मुग्धाः सुदृष्टयः ।

ममप्रलोके समचित्तवृत्तिना.

त्वयैव संजातमिता नमोऽस्तु ते

॥ ३ ॥

श्रीसुविधिनाथजिनेन्द्र - चैत्यवदनम् (९)

(वसन्ततिलक - छन्द)

विश्वाभिवन्ध मकराङ्कितपादपद्म-1,

सुग्रीवजात जिनपुङ्गव शान्तिसद्य । ।

भव्यात्मतारणपरोत्तमयानपात्र ।,

मा तारयस्व भववारिनिघोर्विस्थात् ॥१॥

नि शेषदोषविगमोद्भवमोक्षमार्गं,

भव्या श्रयन्ति भवदाश्रयतो मुनीन्द्र ।

ससेवित सुरमणिवहुधा जनानां,

किं नाम ना भवति कामितसिद्धिकारी ॥२॥

विज्ञ कृपारसनिधि । सुविध स्वप्नभू

मत्वा भवन्तमिति विज्ञपयामि तावत् ।

देवाधिदेव । तव दशनवल्लभोऽह,

शश्वद, भवामि भुवनेश । तथा विधेहि ॥३॥

श्रीशीतलनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (१०)

(शादू लविक्रीडित छन्द)

कल्याणाऽकुरवधन जलधर सवाङ्गिसपत्कर,

विश्वज्यापियश क्लापकलित क्वल्यलीलाश्रितम् ।

नन्दाकुक्षिसमुद्भव इदरथक्षोणीपतेनन्दन

(८)

श्रीमत्सूरतवन्दिरे जिनवरं वन्दे प्रभुं शीतलम् ॥१॥

विश्वज्ञानविशुद्धसिद्धिपदवीहेतुप्रबोधं दधद्,

भव्यानां वरभक्तिरक्तमनसां चेतः समुल्लासयन् ।

नित्यानन्दमयः प्रसिद्धसमयः सभूतसोख्याश्रयो,

दुष्टानिष्टतमः प्रणाशतरणिर्जीयाज्जिनः शीतलः ॥२॥

सद्भक्त्या त्रिदशेश्वरैः कृतनुतिर्भास्वद्गुणालंकृतिः ।

सत्कल्याणासमुद्यतिः शुभमतिः कल्याणकृतसंगतिः ।

श्री वत्साङ्गसमन्वितस्त्रिभुवनत्राणे' गृहीतव्रतो,

भुयाद् भक्तिभृतां सदेष्टवरदः श्रीशीतलस्तीर्थकृतः ॥३॥

श्री श्रेयांसनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (११)

(हरिणी छन्दः)

चिरपरिचिता गाढव्याप्ता सुबुद्धिपराड् मुखी,

निजबलपरिस्फूर्त्योदग्रा समग्रतया मम ।

व्यपगतवती दूरं दुष्टा स्वनिष्टकुदृष्टितः,

अपचितसहा सद्यो भूत्वा यदीयसुदृष्टितः ॥१॥

निरूपमसुखश्रेणी हेतुर्निराकृतदुर्दशा,

शुचितरगुणग्रामावासो निसर्गमहोज्ज्वला ।

हृदयकमले प्रादुर्भूता सुतत्त्वरुचिर्मम

(९)

विद लितभवभ्रान्तिर्यस्याप्यजस्त्रमनुस्मृते ॥२॥
उपकृतिमतिर्दाने दक्षो निरस्तजगद्वयथ

समुचितकृतिर्विज्ञानाशुप्रकोशितसत्पथ ।
नृपगणगुरोर्विष्णोर्वंशे प्रभाकरसन्निभ,
स भवतु मम श्रेयासेन प्रबोधसमृद्धये ॥३॥

श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (१२)

(रथोद्धता- छन्द)

पूर्णचन्द्रकमनीयदीधिति - भ्राजमानमुखमद्भुत श्रयिम् ।
शान्तदृष्टिमभिरामचेष्टित, शिष्टजन्तुपरिवेष्टित परम् ॥१॥
नष्टदुष्टमतिभिर्यमीश्वर, सस्मरद्भिरिह भूरिभिर्नृभि
क्षीणमोहसमयादनन्तरा, प्रापि सत्यपरमात्मरूपता ॥२॥
पार्थिवेशवसुपूज्यवेशमनि, प्राप्तपुण्यजनुष जगत्गत्प्रभुम् ।
वासुपूज्यपरमेष्ठिन सदा, के स्मरन्ति न हि त विपश्चित् ? ॥३॥

श्रीविमलनाथजिनेन्द्र-चैत्यवन्दनम् (१३)

(मन्दाक्रान्ता - छन्द)

ससारेऽस्मिन् महति महिमामेयमानन्दिरूप,
त्वा सवज्ञ सकलसुकृतिश्रेणिससेच्यमानम् ।
दृष्ट्वा सम्यग्विमलसदमज्ज्ञानधाम प्रधान,
सप्राप्तोऽह प्रशमसुखदा सभृतानन्दवीचिम् ॥१॥

ये तु स्वामिन! कुमतिपिहितस्फारसदबोधमृदाः

साम्याकारां प्रतिकृतिमपि प्रेक्ष्य तं विश्वपूज्याम् ।

द्वेषोद्भूतेः कलुषितमनोवृत्तयः स्युः प्रकामं,

मन्ये तेषां गतशुभदृशां का गतिर्भाविनीति ॥२॥

श्यामामूनो! प्रितदिनमनुस्मृत्य विज्ञानिवाक्यं.

हित्वानार्यं कुमतिवचनं ये भुवि प्राणभाज ।

पूर्णानन्दोल्लसितहृदयास्त्वां समाराधयन्ति,

श्लाघ्याचाराः प्रकृतिसुभगा सन्ति धन्यास्तएव ॥३॥

श्री अनन्तनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (१४)

(स्त्रगिवगी - छन्द)

यस्य भव्यात्मनो, दिव्यचेतोगृहे,

सर्वदा इ नन्त चिन्मणिर्घोतते ।

यान्ति दूरे स्वतस्तस्य दुष्टापदो,

विश्वविज्ञानवित्तं भवेदक्षयम् ॥१॥

यस्तु सर्वज्ञरूपं स्वरूपस्थितं,

वीक्ष्य सद्भावतः सिंहसेनात्मजम्

अद्भुता मोदसंदोहसंपूरितो,

मन्यते घन्यमात्मीयनेत्रद्वयम् ॥२॥

सोऽपवर्गानुगामिस्वभावोज्ज्वलां,

व्यूढ मिध्यात्वविद्रावणे तत्पराम्
 बन्धुरात्मानुभृतिप्रकाशोद्यता,
 शुद्धसम्यक्त्वसपत्तिमालम्बते ॥३॥ (युगम्मम)

श्रीधर्मनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (१ ५)

(कामक्रीडा - छन्द)

भास्वज्ज्ञान शुद्धात्मान धर्मेशान सद्भयान्,
 शक्त्या युक्त दोषोन्मुक्त तत्त्वासक्त सद्भक्तम् ।
 शश्वच्छान्त कीर्त्या कान्त ध्वस्तध्वान्त विश्राम ।

क्षिप्तावेश सत्यादेश श्री धर्मेश वन्दध्वम् ॥१॥

नि शेषाधप्रादुष्कता सिध्देर्भता सघर्ता,

दुभावाना दूरे हता दीनोद्धता सस्मता ।

सद्भक्तम्यो मुक्तदाता विश्वत्राता निर्माता,

स्तुत्यो भक्त्या वाचायुक्त्या चेतोवृत्या ध्येयात्मा ॥२॥

सम्यग्दृग्मि साक्षाद् दृष्टो मोहास्पृष्टो नाकृष्ट,

स्रोतो, ग्रामे सपज्ज्येष्ठ, शाधुश्रेष्ठ सत्प्रेष्ठ ।

श्रद्धायुक्तस्वान्तंजुष्टो नित्य तुष्टो निर्दुष्ट -

स्त्याज्यो नव श्रीवज्राङ्को नष्टातङ्कोनि शङ्क ॥३॥

(१२)

श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (१६)

(द्रवतविलम्बित - छन्दः)

विपुलनिर्मलकीर्तिभरान्वितो,
जयति निर्जरनाधनमस्कृत ।
लघुविनिर्जितमोहधराधिपो,
जगति यः प्रभुशान्तिजिनाधिपः ॥१॥

विहितशान्तसुधारसमज्जनम्,
निखिलदुर्जयदोषविवर्जितम् ।
परमपुण्यवतां भजनीयतां,
गतमनन्तगुणैः सहितं सताम् ॥२॥

तमचिरात्मजमीशमधीश्वरं,
भविकपद्म विबोधदिनेश्वरम् ।
महिमधाम भजामि जगत्त्रये
वरमनुत्तरसिद्धिसमृद्धये ॥३॥
(त्रिभिर्विशेष्यकम्,)

श्रीकुन्धुनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (१७)

(गीतपद्धति - छन्दः)

जय जय कुन्धुजिनोत्तम सत्तमतत्त्वनिधान !

धर्मिजनोज्ज्वलमानसमानसहंससमान ! ।

ज्ञानाच्छादकमुख्यमहोद्धतकर्मविमुक्त !

विषमविषयपरिभोगविरक्त शुभाशययुक्त । ॥१॥

जय जय विश्वजनीन मुनिव्रजमान्य । विशुद्ध -

चेतन चारुचरित्रपवित्रितलोक विबुद्ध।

निरूपममेरुमहीधरधीर ! निरन्तरमेव,

गर्वविवर्जित सर्वसुपर्वविनिर्मितसेव ॥२॥

जय जय सूरनरेश्वरनन्दन चन्दनकल्प ।

जिनेश विश्वविभावविनाशक वीतविकल्प ! ।

निर्मलकेवलबोधविलोकितलोकालोक !

प्रादुर्भूत महोदयनिर्वृ तिनित्यविशोक ! ॥३॥

श्रीअरनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (१८)

(रामगिरिगणेण गीयते)

दिव्यगुणधारक भव्यजनतारक,

दुरितमतिवारक सुकृतिकान्तम् ।

जितविषमसायक सर्वसुखदायक,

जगति जिननायक परमशान्तम् ॥१॥

स्वगुणपर्यायसमीलितनौमि त ,

विगतपरभावपरिणातिमखण्डम् ।

सर्वसंयोगविस्तारपारंगतं.

प्राप्तपरमात्मरूपं प्रचण्डम् ॥ दिव्यगुण ॥२॥

साधुदर्शनवृतं भाविकैः प्रस्तुतं,

प्रातिहार्याष्टिकोद्भासमानम् ।

सततमुक्तिप्रदं सर्वदा पूजितं,

शिवमहीसार्वभौमप्रधानम् ॥दि. ॥ (त्रिमिर्विशेषकम्)

श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (१९)

(गीतनीचाल)

कुम्भसमुद्भव व संमदाकर गुणवर !

हेमल्लिजिनोत्तमदेव ! जय जय विश्वपते ॥१॥

कृत्याकृत्यविवेकिता जिन समुचिता ।

हे त्वयि जागर्ति जिनेश ! जय जय विश्वपते ! ॥२॥

नित्यनन्द प्रकाशिका भ्रमनाशिका ।

हे तव, शुभदृष्टिरतीश ! जय जय विश्वपते ॥३॥

शुद्धिनिबन्धनसन्निधे सद्गुणनिधे ! ।

हे वर्जितसर्वविकार ! जय जय विश्वपते ॥४॥

जिननिरुपाधिकसंपदा शोभित सदा ।

हे निर्मलधर्मधुरीण ! जय ज विश्वपते ॥५॥

श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (२०)

(श्रन्यगोयपद्धति - रग)

उत्तमचेतन धर्मसमृद्ध जगत्पते? ।

नित्यानित्यपदाधनिचयविलसन्मते? ।

निज विक्रमजितमोहमहोद्भटभूपते ।

श्रीपद्यातनुजात सुजातहरिद्वयुते ।

॥१॥

श्रीमुनिसुव्रत सुवतदेशक ! सज्जना ,

कृतसद्गुरुशुभवाक्यसुधारसमज्जना ।

ये प्रणमन्ति भवन्तमनन्त सुखाश्रितम्

केवलमुज्ज्वलभाव मखण्डमनिन्दितम्

॥२॥

ते नि सशयमेव जगत्त्रयवन्दिता

सद्भावेन भवन्ति सुदृष्यनन्दिता ।

कृत्य स्वोचितमेव यत किल कारण

जनयति नात्मविरुद्धमिहासाधारणम्

॥३॥

(त्रिभिर्विशेषकम्)

श्रीनमिनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (२१)

(पञ्चचामर - छन्द)

नमीश निमलात्मरूप सत्यरूप ? शाश्वत,

परोध्वसिद्धिसौधमूर्ध्नि सत्त्वभावत स्थितम् ।

विधाय मानसाब्जकोशदेशमध्यवर्तिनं,
स्मरामि सर्वदा भवन्तमेव सर्वदर्शिनम् ॥१॥
प्रफुल्लक्रौञ्चलाञ्छन ! प्रभूततेजसोऽद्य ते,

दिवाकरस्य वा महेश्वराभिदर्शनेन मे ।

प्रमादवर्धिनी सुदुर्मतिर्निशेव दुर्भगा,

गता प्रणाशमाशुं हृत्कजे विनिद्रताऽभवत् ॥२॥

निरस्तदोषदुष्टकष्टकार्यमर्त्यसंस्तवो,

भवे भवे भवत्पदाम्बुजैकसेवकः प्रभो ! ।

भवेयमीदृशं भृशं मदीयचितचिन्तितं,

तव प्रसादतो भवत्ववन्ध्यमेव सत्वरम् ॥३॥

श्रीनेमिनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (२२)

(उपजाति - छन्दः)

विशद्धविज्ञानभृतां वरेण, शिवात्मजेन प्रशमाकरेण ।

येन प्रयासेन विनैव कामं, विजित्य विक्रान्तनरं प्रकामं ॥१॥

विहाय राज्यं चपलस्वभावं, राजीमतीराजकुमारिकां च ।

गत्वासलीलं गिरिनारशैलं, भैजे व्रतं केवलमुक्तियुक्तम् ॥२॥

निःशेषयोगीश्वरमौलिरत्नं, जितेन्द्रियत्वे विहितप्रयत्नम् ।

तमुत्तमानन्दनिधानमेकं, नमामि नेमिं विलसद्विवेकम् ॥३॥

(त्रिभिर्विशेषकम्)

श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (२३)

(पञ्चचामर - छन्द)

श्रयामित जिन सदा मुदा प्रमादवर्जित,
स्वकीयवाग्विलासतो जितोरुमेघगर्जितम् ।
जगत्प्रकामकामितप्रदानदक्षमक्षत,
पद दधानमुच्चकैरकैतवोपलक्षितम् ॥१॥

सतामवद्यभेदक प्रभूतसपदा पद,
चलक्षपक्षसगत जनेक्षणक्षणप्रदम् ।
सदैव यस्य दर्शन विशा विमर्दितैन्सा,
निहन्त्यशातजातमात्मभक्तिरक्तचेतसाम् ॥२॥

अवाप्य यत्प्रसादमादित पुरूश्रियो नरा,
भवन्ति मुक्तिगामिनस्तत प्रभाप्रभास्वरा ।
भजेयमाश्वसेनिदेवदेवमेव सत्पद,
तमुच्चमानसेन शुद्ध बोद्धवृद्धिलाभदम् ॥३॥

श्रीमहावीरजिनेन्द्र - चैत्यवन्दनम् (२४)

(पृथ्वी - छन्द)

वरेण्यगुणवारिधि परमनिर्वृत सर्वदा,
समस्तकमलानिधि सुरनरेन्द्रकोटिश्रित ।

जनातिसुखदायकोविगतकर्मवारोजिनः,

सुमुक्तजनसंगमस्त्वमसि वर्धमानप्रभो !

॥१॥

जिनेन्द्र ! भवतोऽद् द्भुतं मुखमुदारबिम्बस्थितं,

विकारपरिवर्जितं परमशान्तमुद्राङ्कितम् ।

निरीक्ष्य मुदितेक्षणः क्षणमितोऽस्मि यद्भावनां.

जिनेश जगदीश्वरोद् भवतु सैव मे सर्वदा

॥२॥

विवेकिजनवल्लभं भुवि दुरात्मनां दुर्लभं,

दुरन्तदुरितव्यथाभर निवारणे तत्परम् ।

तवाङ्ग पदपद्मयोर्युग मनिद्यवीरप्रभो !,

प्रभूतसुखसिद्धये मम चिराय संपद्यताम्

॥३॥

महाकवि - श्रीशोभनमुनिप्रणीत -

चतुर्विंशतिजिनेन्द्र - स्तुतयः ।

श्रीऋषभदेवजिनेन्द्र - स्तुतिः (१)

(शार्दूल विक्रीडित वृत्तम्)

भव्याम्भोजविबोधनैकतरणे विस्तारिकर्मावली -

रम्भासामज नाभिनन्दन ! महानष्टापदाभासुरैः ।

भक्त्यावन्दितपादपद्म विदुषां संपादय प्रोज्झिता -

रम्भासाम जनाभिनन्दन महानष्टापदाभासुरैः

॥१॥

ते च पान्तु जिनोत्तमा क्षतरूजो नाचिक्षिपुयन्मनो,
 दारा विभ्रमराचिता सुमनसो मन्दारवा राजिता ।
 यत्यादा च सुरोज्झिता सुरभयाचक्रु पतन्त्योऽम्बरा -
 दाराविभ्रमरोचिता सुमनसो मन्दारवाराजिता ॥२॥
 शान्ति वस्तुनुतान्मिधोऽनुगमनाद् यन्नेगमाद्ये र्जय -
 रक्षोभ जनऽहेतुला छित्तमदोदीर्णाङ्गजाल कृतम् ।
 तत् पूज्येजगता जिने प्रवचन दृष्यत्कुवाघावली -
 रक्षोभञ्जनहेतुलाञ्छित्तमदो दीर्णाङ्गजालकृतम् ॥३॥
 शीताशुत्विपि यत्र नित्यमदधद् गन्धाद्यधूली कणा
 नाली कसरलालसा समुदिताशु भ्रामरीभासिता ॥
 पायाद् व श्रुतदेवता निदधती तत्राब्जकान्ती क्रमो,
 नाली कसरलालसा समुदिता शुभ्रामरीभासिता ॥४॥

श्री अजितनाथजिनेन्द्र - स्तुति • । (२)

(पुष्पिताया - वृत्तम्)

तमजितमभिनोमि यो विराजद् -

वनघनमेरुपरागमस्तकान्तम्, ।

निजजननमहोत्सवेऽधितष्ठा -

वनघनमरूपरागमस्तकान्तम्

॥१॥

स्तुत जिननिवहं तमर्तितप्ता -

ध्वनदसुरामरवेण वस्तुवन्ति ।

यममरपतयः प्रगाय पार्श्व -

ध्वनदसुरामरवेणव स्तुवन्ति

॥२॥

प्रवितर वसतिं त्रिलोकवन्धो !,

गमनययोगततान्तिमेऽपदे हे ।

जिनमत विततापवर्गवीधी -

गमनययो ! गततान्ति मेऽपदेह

॥३॥

सितशकुनिगताशु मानसीद्धा ।

त्तततिमिरमदभा सुराजिताशम् ।

वितरतु दधती पविं क्षतोद्य -

त्तततिमिरं मदभासुराजिता शम्

॥४॥

श्रीसंभवनाथजिनेन्द्र - स्तुतिः (३)

(आर्यागीति - वृत्तम्)

निर्भिन्नशत्रुभवभय !, शं भवकान्तारतार तार ! ममारम् ।

वितर त्रातजगतत्रय !, शंभव ! कान्तारतारतारममारम्

॥१॥

आश्रयतु तव प्रणतं, विभया परमा रमारमानमदमरैः ।

स्तुत रहित जिनकदम्बक ! विभयापरमार मारमानमदमरैः

॥२॥

जिनराज्या रचित स्ता - दसमाननयानयानया यतमानम् ।

शिवशर्मणे मत दध-दसमाननयानयानया यतमानम् ॥३॥

शृङ्खलभृत् कनकनिभा, या तामसमानमानमानवमहिताम् ॥४॥

श्रीवज्रशृङ्खला कज - यातामसमानमानवमहिताम् ॥४॥

श्री अभिनन्दनजिनेन्द्र - स्तुति. (४)

(द्रुतविष्वित - वृत्तम्)

त्वमशुभान्यभिनन्दन नन्दिता -

सुरवधूनयन परमोदर ।

स्मरकरीन्द्रविदारणकेसरिन् !

सुरवधूनयन परमोऽदर

॥१॥

जिनवरा प्रयतध्वमितामया,

मम तमोहरणाय महारिणा ।

प्रदघता भुवि विश्वजनीनता -

ममतमोहरणा यमहारिणा

॥२॥

असुमता मृतिजात्यहिताय यो,

जिनवरागम नो भवमायतम् ।

प्रलघुता नय निमघिताद्धता -

जिनवरागमनाभवमाय तम्

॥३॥

विशिष्यशङ्खजुषा धनुषास्तसत् -

सुरभिया ततनुग्रमहारिणा ।

परिगतां विशदामिह रोहिणीं,

सुरभियाततनुं नम हारिणा

॥४॥

श्रीसुमतिनाथजिनेन्द्र - स्तुति : । (५)

(आर्यागीत - वृत्तम्)

मदमदनरहित नरहित, सुमते समुतेन कनकतारेतारे ! ।

दमदमपालय पालय, दरादरातिक्षतिक्षपातपात : !

॥१॥

विधुताराविधुताराः, सदा सदाना जिना जिताघाताघाः ।

तनुतापातनुतापा, हितमाहितमानवनवविभवा विभवाः

॥२॥

मतिमति जिनराजि नरा - हितेहिते रूचितरूचि तमोहेमोहे ।

मतमतनूनं नूनं, स्मारास्मराधीरधीरसुमतः सुमतः

॥३॥

नगदामानगदा मा महो महोराजिराजितरसा तरसा ।

घनघनकाली काली, बतावतादूनदूनसत्रासत्रा

॥४॥

श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्र - स्तुति: (६)

(ब्रसन्ततिलका - छन्दः)

पादद्वयी दलितपद्ममृदु प्रमोद -

मुन्मुद्रतामरसदामलतान्तपात्री ।

पाद्मप्रभी प्रविदधातु सतां वितीर्ण ?

मुन्मुद्रतामरसदा मलतान्तपात्री

॥१॥

सा मे मतिं वितनुताज्जिनपंक्तिरस्त -

मुद्रा गतामरसभासुरमध्यगाद्याम् ।

(२३)

रत्नाशुभिर्विदधती गगनान्तराल -

मुद्रागतामरसभासुरमध्यगाद्याम् ॥२॥

श्रान्तिच्छिद जिनवरागममाश्रयार्थ -

माराममानम लसन्तमसगमानाम् ।

घामाग्निम भवसरित्प तिसतुमस्त -

माराममानमलसतमस गमानाम् ॥३॥

गान्धारि वज्र मुसल जयत समीर -

पातालसत्फुवलयवलिनीलभ ते।

कीर्ति करप्रणयिनी तवय निरुद्ध -

पातालसत्फुवलया वलिनी तपेत ॥४॥

श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रनाथ - स्तुति । (७)

(मालिनी वृतम्)

कृतमति कृतयान्या जन्तुजात निरस्त

स्मरपरमदमापामानवाधायशस्तम् ।

भूधिरामपिद्यतत्य दित्तवृत्त सुपाश्वं,

स्मर परमदमापा मानवाधाय शस्तम् ॥१॥

इन्द्रु जिनेति हा गावर दित्तवृत्त

मदमगहिताया वाऽपिष्टा मानवानाम् ।

मदुगी दपना पनीजाना ध्यवर्तीत,

(२४)

सदमरसहिता या वोधिकामा नवानाम्

॥२॥

दिशदुपशमसौख्यं संयतानां सदैवो -

रू जिनमतमुदारं काममायामहारि ।

जननमरणरीणान् वासयत्सिद्धवासे -

ऽरूजि नमत मुदारं काममायामहारि

॥३॥

दधति रविसपत्नं रत्नमाभास्तभास्व -

ब्रवघनतरवारिवा रणारावरीणाम् ।

गतवति विकरत्यालीं महामानसीष्टा -

ब्रव घनतरवारि वारणारावरीणाम्

॥४॥

श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्र - स्तुति (८)

(मन्दाक्रान्ता - वृत्तम्)

तुभ्यं चन्द्रप्रभ जिन नमस्तामसोज्जृम्भितानां,

हानेकान्तानलसम दयावन्दि तायासमान ।

विद्वत्पड कृत्या प्रकटितपृथुस्पष्टदृष्टान्तहेतू -

हाने कान्तानलसमदया वन्दितायासमान

॥९॥

जीयाद्राजिर्जनितजननज्यानिहानिर्जिनानां,

सत्यागारं जयदमितरूक् सारविन्दावतारम् ।

भव्योद्भृत्या भुवि कृतवती यावहद्धर्मचक्रं,

सत्यागा रजयदमितरूक् सा रविं दावतारम् ॥२॥

सिद्धान्त स्ताद हितहतयेख्यापयद्य जिनेन्द्र

सद्राजीव स कविधिषणापादनेऽकोपमान ।

दक्ष साक्षाच्छ्वणचुलकैर्यं च मोदाद्विहाय

सद्राजी व सकविधिषणापादनेकोपमान ॥३॥

वज्राकुशयकुशकुलिशभृत्त्व विघत्स्व प्रयत्न,

स्वायत्यागे तनुमदवने हेमतारातिमत्ते ।

अध्यारूढे शशधरकर श्वेतभासि द्विपेन्द्रे,

स्वायत्यागेतनुमदवने हेमतारातिमते ॥४॥

श्री सुविधिनाथजिनेन्द्र - स्तुति (९)

(उपजाति - वृत्तम)

तवाभिवृद्धि सुविधिर्विधेयात्, स भासुरालीनतपादयावन् ।

यो योगिपक्त्या प्रणतो नभ सत्-सभासुरालीनतपादयावन् ॥१॥

या जन्तुजाताय हितानि राजी, सारा जिनानामलपद्ममालम् ।

दिश्यान्मुद पादयुग दधाना, सा राजिनानामल पद्ममालम् ॥२॥

जिनेन्द्र भर्ग प्रसभ गम्भीरा-शु भारती शस्यत्तमस्तवेन ।

निर्नाशयन्ती मम शर्म दिश्यात् शुभारतीशस्य तमस्तवेन ॥३॥

दिश्यात्तवाशु ज्वलनायुधाल्य - मध्या सिता क प्रवरालकस्य ॥

अस्तेन्दुरास्यस्य रूचोरूपृष्ठ - मध्यासिताकम्प्रवरालकस्य ॥४॥

श्रीशीतलनाथजिनेन्द्र - स्तुति (१०)

(द्रतविलम्बित - वृत्तम्)

जयति शीतलतीर्थकृत. सदा,

चलनतामरसं सदलं घनम् ।

नवकमम्बूरूहां पथि संस्पृशत्,

चलनतामरसंसद लंघनम्

॥१॥

स्मर जिनान् परिनुन्नजरारजो -

जननतानवतोदयमानतः ।

परमनिर्वृतिर्शकृतो यतो,

जन नतानवतोऽदयमानतः

॥२॥

जयति कल्पितकल्पतरूपमं,

मतमसारतरागमदारिणा ।

प्रथितमंत्र जिनेन मनीषिणा -

मतमसा रतरागमदारिणा

॥३॥

घनरूचिर्जयताद् भुवि मानवी,

गुरुतराविहतामरसंगता ।

कृतकरास्त्रवरे फलपत्रभा -

गुरुतराविहतामरसं गता

॥४॥

श्रीश्रेयासनाथजिनेन्द्र - स्तुति : । (११)

(हरिणी - वृत्तम्.)

कृन्मघनुषा यस्मादन्य न माहवश व्यधु ,

ऊमलसदृशा गीतारादा दलादपि तापितम् ।

प्रामततमा द्राक् श्रयास न चाहित यन्मन

ऊमलसदृशाङ्गी तारा यावला दयितापि तम्

॥१॥

स्त्रिनयततिर्जीवालीनामप्यारगवत्सला

कमदमहितामारादिष्टासमानवाराजया ।

नमदमृतपुष्पपत्न्या नृता तनातु मति ममा

कमदमहितामारादिष्टा समानवाराजया

॥२॥

पदलनिधिप्राप्त्यज्जन्तुद्रजापतपात ह ,

तनु मतिमता मशशाना मश नरमपदम् ।

ममबिलयतामहश्रापागमानतधूपति ,

तनुमति मता मशशाना मदानरमपदम्

॥३॥

पुत्रद्विजलाहारी घण्टे जी कृतवाधित -

प्ररुपतिमहा जालीमत्पादिचहृजालिदि ।

स्त्रिननुनतामघनामाना दधत्परीहता ,

प्ररुपति माताजाली मत्पादिच हजालिदि

॥४॥

श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्र - स्तुति : (१२)

(स्त्रग्धरा - वृत्तम्)

पूज्य श्रीवासुपूज्यावृजिन जिनपते नूतनादित्यकान्ते -

ऽमायासंसारवासावन वर तरसाली नवालानवाहो ! ।

आनम्रा त्रायतां श्रीप्रभव भवभयाद् विभ्रती भक्तिभाजा -

मायासं सारवासावनवरतरसालीनवाला नवाहो

॥१॥

पूतो यत्पादपांशुः शिरसिसुरततेराचरच्चूर्णशोभां,

या तापत्रासमाना प्रतिमदमवतीहारता राजयन्ती ।

कीर्तेः कान्त्या ततिः सा प्रविकिरतुतरां जैनराजी रजस्ते,

यातापत्रासमानाप्रतिमदमवती हारतारा जयन्ती

॥२॥

नित्यं हेतूपपत्ति प्रतिहतकुमतप्रोद्धतध्वान्तबन्धा -

पापायासाद्यमानामदन तव सुधासारहिद्या हितानि ।

वाणी निर्वाणमार्गप्रणयिपरिगतां तीर्थनाथ क्रियान्मे,

पापायासाद्यमानामदनत वसुधासार हिद्याहितानि

॥३॥

रक्षः क्षुद्रग्रहादिप्रतिहतिशमनी वाहितश्वेतभास्वत् -

सन्नालीका सदाप्ता परिकरमुदिता साक्षमाला भवन्तम्,

शुभ्रा श्रीशान्तिदेवी जगति जनयतात् कुण्डिका भाति यस्याः

सन्नालीकासदाप्ता परिकरमुदिता सा क्षमालाभवन्तम्

॥४॥

श्रीविमलनाथ जिनेन्द्र - स्तुति : । (१३)

(पृथ्वी - वृत्तम्)

- अपापदमल घन शमितमानमामो हित,
नतामरसभासुर विमलमालयामोदितम् ।
अपापदमलघन शमितमानमामोहित, ---
न तामरसभासुर विमलमालयामोदितम् ॥१॥
- सदानवसुराजिता असमरा जिना भीरदा,
क्रियासु रूचितासु ते सकलभा रतीरायता ।
सदानवसुराजिता - असमराजिनाभीरदा,
क्रियासुरूचितासुतेसकलभारतीरा यता ॥२॥
- सदा यतिगुरोरहो नमत मानवैरञ्चित,
मत वरदमेनसा रहितमायताभावत ।
सदायति गुरो रहो न मतमानवैर चित,
मत वरदमेन सारहितमायता भावत ॥३॥
- प्रभाजि तनुतामल परमचापला रोहीणी,
सुधावसुरभीमना मयि सभाक्षमालेहितम् ।
प्रभाजितनुतामल परमचापलारोहिणी,
सुधावसुरभीमनामयिसभा क्षमाले हितम् ॥४॥

श्री अनन्तनाथजिनेन्द्र - स्तुति : । (१४)

(द्रुतविलम्बित - वृत्तम)

सकलद्यौतसहासनमेरव-

स्तव दिशन्त्ववधिपेकजलप्लवा : ।

मतमनन्तजितः स्नपितोल्लसत् -

सकलद्यौतसहासनमेरव-

॥१॥

मम रतामरसेवित ते क्षण -

प्रद निहन्तु जिनेन्द्रकदम्बक

वरद पादयुगं गतमक्षता -

ममरतामरसे विततेक्षण

॥२॥

परमतापदमानसजन्मनः

प्रियपदं भवतो भवतोऽवतात् ।

जिनपतेर्मतमस्तजगत्त्रयी -

परमतापदमानसजन्मनः

॥३॥

रसितमुच्चतुरङ्गमनायकं,

दिशतु कांचनकान्तिरिताच्युता ।

धृतधनुः फलकासिशरा करै -

रसितमुच्चतुरं गमनाय कम्

॥४॥

श्रीधर्मनाथजिनेन्द्र - स्तुतिः ॥ (१५)

श्रीधर्मनाथजिनेन्द्र - स्तुतिः ॥ (१५)

(श्रुष्टुप-वृत्तम्)

नम श्रीधर्मनिष्कर्मोदयाय महितायते !

मर्त्यामरेन्द्रनागेन्दै - र्दयायमहिताय ते ॥१॥

॥०॥ जीयाज्जिनौघो ध्वान्तान्तं ततान लसमानया ।

भामण्डलत्विषा य स, ततानलसमानया ॥२॥

भारति द्राग्जिनेन्द्राणा मव-मवनौ रक्षतारिके ।

ससाराभोनिधावस्मा - नवनौरक्षतारिके ॥३॥

ककिस्था व क्रियाच्छक्ति - करा लाभानयाचिता

(०१) प्रज्ञप्तिनूतनाभोज - करालाभा नयाचिता ॥४॥

श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्र - स्तुति (१६)

(शार्दूलचिक्रीडित-वृत्तम्)

राजन्त्या नवपद्मरागरुचिरै पादैर्जिताष्टापदा -

देऽकोप द्रु तजातरूपविभया तन्वार्य धीर क्षमाम ।

विभ्रत्यामरसेव्यया जिनपते श्रीशान्तिनाथास्मरो -

द्रेकोपद्रुत जातरूप विभयातन्वार्यधी रक्ष माम् ॥१॥

ते जीयासुरविद्विषो जिनवृषा माला दधाना रजो -

राज्या मेदुरपारिजात सुमन संतानकान्ता चिता ।

कीर्त्या कुन्दसमत्विषेषदपि ये न प्राप्तलोकत्रयी

राज्या मेदुरपारिजातसुमनः संतानकान्ताञ्चिताः

॥२॥

जैनेन्द्रं मतमानोतु सततं सम्यग्दृशां सद्गुणा -

लीलाभं गमहारि भिन्नमदनं तापापहिद्वि यामरम् ।

दुर्निर्भेद निरन्तरान्तरमतोनिर्नाशि पर्युल्लस -

ल्लीलाभङ्गमहारिभिन्नमदनंतापापहिद्वियामरम्

॥३॥

दण्डच्छत्रकमण्डलूनि कलयन् स ब्रह्मशान्तिः क्रियात् -

सन्त्यज्यानि शमी क्षणेन शमिनो मुक्ताक्षमाली हितम् ।

तप्ताष्टापदपिण्डपिङ्गलरूचिर्योऽधारयन्मूढतां -

सन्त्यज्यानिशमीक्षणे न शमिनोमुक्ताक्षमालीहितम्

॥४॥

श्रीकुन्थुनाथजिनेन्द्र - स्तुति : (१७)

(मालीनी - वृत्तम्)

भवतु मम मनः श्रीकुन्थुनाथाय तस्मा -

यमतिशमितमोहायामितापाया हिद्यः ।

सकलभरतभर्ताभूज्जिनोऽप्यक्षत्तपाशा -

यमितशमितमोहायामितापायहिद्यः

॥१॥

सकलजिनपतिभ्यः पावनेभ्यो नमः स -

न्नयनरवरदेभ्यः सारवादस्तुतेभ्यः ।

समधिगतनुतिभ्यो देववृन्दादेगरीयो

नयनरवरदेभ्यः सारवादस्तु तेभ्यः

॥२॥

स्मरत विगतमुद्र जैनचन्द्र चकासत् -

कविपदगमभङ्ग हेतुदन्त कृतान्तम् ।

द्विरदमिव समुद्यद्दानमार्गं धुताद्यै -

कविपदगमभङ्ग हे तुदन्त कृतान्तम्

॥३॥

प्रचलद् विरोचितश्वारूपात्रे समुद्यत् -

सदसिफलकरामेऽभीमहासेऽरिभीते ।

सपदि पुरुषदत्ते ते भवन्तु प्रसादा ,

सदसि फलकरा मेऽभीमहासेरिभीते

॥४॥

श्रीअरनाथजिनेन्द्र - स्तुति. । (१८)

व्यमुचचक्रवर्तिलक्ष्मीमिह तृणमिव य क्षणोन त,

सन्नमदमरमानससारमनेकपराजितामरम् ।

द्रुतकलघौतकान्तमानमतानन्दितभूरिभक्तिभाक्

सनमदमरमानस सारमनेकपराजितामरम् -

॥१॥

स्तौति समन्तत स्म समवसरणभूमौ य सुरावलि

सकलकलाकलापकलितापमदामुसणकरमदापदम ।

त जिनराजविसरमुज्जासितजन्मजर नमाम्यह,

सकलकला कलापकलितापमदारूणकरमपामपापदम

॥२॥

भीममहाभवाब्धिभवभीतिविभेदि परास्तविस्फुरत्

परमतमोहमानमतनूनमल घनमघवतेऽहितम् ।

जिनपतिमतमपारमर्त्यामरनिर्वृतिशर्मकारण,

परमतमोहमानमत नूनमलघनमघवतेहितम्

॥३॥

यात्र विचित्रवर्णविनतात्मजपृष्ठमधिष्ठिता हुतात् -
समतनुभागविकृतधीरसमदवेरिव धामहारिभिः ।
तडिदिव भाति सान्ध्यघनमूर्धनि चक्रघरास्तु सा मुदे -
समतनुभा गवि कृतधीरसमदवैरिवधा महारिभिः ॥४॥

श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्र - स्तुति : । (१९)

(रूचिरा - वृत्तम्)

नुदंस्तनुं प्रवितर मल्लिनाथ मे,
प्रियंगुरोचिररूचिरोचितां वरम् ।
विडम्बयन् वररूचिमण्डलोज्ज्वलः,
प्रिये गुरोऽचिररूचिरोचिताम्बरम् ॥१॥
जवद्गतं जगदवतो वपुर्व्यथा -
कदम्बकैरवशतपत्रसं पदम् ।
जिनोत्तमान् स्तुत दधतः स्रजं स्फुरत् -
कदम्बकैरवशतपत्रसंपदम्
स संपदं दिशतु जिनोत्तमागमः
शमावहन्नतनुतमोहरोदिते ।
स चित्तभूः क्षत इह येन यस्तपः
शमावहन्नतनुत मोहरोदिते ॥३॥
द्विपं गतो हृदि रमतां दमश्रिया,
प्रभाति मे चकितहरिद्विपं नगे,

वृद्धाह्य कृतवसतिश्च यक्षराद, विपन्नगिणि

प्रभातिमचकितहरिद् विपन्नगे

॥४॥

श्री मुनिसुव्रतजिनेन्द्र - स्तुति : - (२०) -

(नर्दटक - वृत्तम्)

जिनमुनिसुव्रत समवताज्जनतावनत

॥१॥ समुदितमानवा धनमलो भवता भवत ।

अवनिविकीर्णमादिपत यस्य निरस्तमन

समुदितमानवा धनमलो भवतो भवत

॥१॥

प्रणमत त जिनव्रतमपार विसारिरजो

॥२॥ दलकमलानना महिमधामभया समरुक् ।

यमतितरा सुरेन्द्रवरयोषिदिलामिलनो

दलकमला ननाम हिमधामभया समरुक्

॥२॥

त्वमवनतान् जिनोत्तमकृतान्त भवाद्विदुषो

व सदनामासगमन याततमोदयित ।

शिवसुखसाधक स्वभिदधत् सुधियाचरण,

वसदनु मानस गमनयातत मोदयित

॥३॥

अधिगतगाधिका कनकरुक्लव गौयु चिता

कमलकराजि तामरसभास्यतुलोपकृतम् ।

मृगमदपत्रभङ्गतिलकैर्वदन दधती,

कमलकरा जितामरसभास्यतु लोपकृतम्

॥४॥

(३६)

श्रीनमिनाथजिनेन्द्र - स्तुतिः (२१)

(शिखरिणी - वृत्तम्)

स्फुर द्विद्युत्कान्ते प्रविकिर वितन्वन्तिसततं.

ममायासं चारों दितमद नमेऽघानि लपितः ।

नमद्भव्यश्रेणीभवभयभिदां ह्यधवचसा -

ममायासंचारो दितमदनमेघानिल पितः

१.१॥

नखांशुश्रेणीभिः कपिशितनमन्ना किमुकुटः ।

सदा नोदी नानामयमलमदारेरिततमः ।

प्रचक्रे विश्वं यः स जयति जिनाधीशनिवहः

सदानो दीनानामयमलमदारे रिततमः

॥२॥

जलव्यालव्याघ्रज्वलनगजसूग्बन्धनयुधो,

गुरुर्वाहोऽपातापद घनगरीयानसुमतः ।

कुतान्तस्त्रासीष्ट स्फुटविकटहेतुप्रमितिभा -

गुरुर्वाहोऽपाता पदघनगरी यानसुमतः

॥३॥

विपक्षव्यूहं वो दलयतु गदाक्षावलिधरा -

समा नालीकाली विशदचलना नालिकवरम् ।

समध्यासीनाम्भी भृतघननिभावम्भोधितनया -

समानाली कालीविशदचलनाना लिकबरम्

॥४॥

श्री नेमिनाथजिनेन्द्र - स्तुति (२२)

(शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्)

चिक्षेपोर्जितराजकरणमुखे यो लक्षसख्यक्षणा

दक्षामजनभासमानमहसराजीमतीतापदम् ।

तनेमिनमनम्रनिर्वृतिकरचक्रे यदूनाचयो,

दक्षामजनभासमानमहसराजीमतीतापदम्

॥१॥

प्राव्राजीज्जितराजकारज इव ज्यायोऽपि राज्यजघाद्,

याससारमहोदघावपिहिताशास्त्रीविहायोऽदितम्

यस्यासर्वत् एव सा हरतु नो राजीजिनानाभवा

याससारमहोदघावपिहिताशास्त्रीविहायोदितम्

॥२॥

कुर्वाणाणुपदार्थदर्शनवशाद्भास्वत्पमभायास्त्रपा

मानत्याजनकृत्तमोहरतमेशस्तादरिद्रोहिका ।

अक्षोभ्यातवभारतीजिनपतेप्रोन्मादिनावादिना,

मानत्याजनकृत्तमोहरतमेशस्तादरिद्रोहिका

॥३॥

हस्तालम्बितचूतलुम्बिलतिकायस्याजनोऽभ्यागमद्,

विश्ववसेवितताम्रपादपरतावाचारिपुत्रासकृत् ।

साभूतिचितनोतुनोऽर्जुनरुचिसिंहेऽधिरूढोल्लसद्

विश्वासेवितताम्रपादपरताम्बाचारिपुत्रासकृत्

॥४॥

श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र स्तुति : (२३)

(स्त्रग्धरा - वृत्तम्)

मालामालानबाहुर्दधदधदधरं यामुदारा मुदारा-

ल्लीनालीनामिहाली मधुरमधुरसां सूचितोमाचितो मा ।

पातात्पातात्स पाश्चैरुचिररूचिरदो देवराजीवराजी -

पत्रापत्रा यदीया तनुरतनुरवो नन्दको नोदको नो

॥१॥

राजी राजीववक्रा तरलतरलसत्केतुर झ्रुचुरङ्ग

व्यालव्यालग्नयोधाचितरचितरणे भीतिव्दद्यातिव्दद्या ।

सारा साराज्जिनानामलमलमलमतेर्वाधिका माधिकामा

दव्यादव्याधिकालान न जननजरात्रा समानासमाना

॥२॥

सद्योऽसद्योगभिद्धा गमलगमलया जैनराजीनराजी -

नूता नूतार्थधात्रीह ततहततमः पातकापातकामा ।

शास्त्री शास्त्री नराणां हृदयहृदयशोरोधिकावाधिका वा

देया देयान्मुदंते मनुजमनुं जरां त्याजयन्ती जयन्ती

॥३॥

याता या तारतेजाः सदसि सदसिभृत् कालकान्तालकान्ता

पारि पारिन्द्रराजं सुरवसुरवधूपूजितारं जितारम् ।

सान्नासान्नायतां त्वामविषमविषभृद्भूषणाभीषणा भी

हीनाहीनायपत्नी कुवलयवलयश्यामदेहामदेहा

॥४॥

श्रीमहावीर जिनेन्द्र - स्तुति • (२४)

(दण्डक - वृत्तम्)

नमदमरशिरारूहस्त्रस्तसामोदनिर्निद्रमन्दारमलारजोर

ज्जिताहे धरित्रीकृता

वन वरतमसगमोदारतारोदितानगनार्यावलीलापदेहे

क्षितामोहिताक्षो भवान् ।

मम वितरतु वीर निर्वाणशर्माणि जातवतारो धराधीश

सिद्धार्थधाम्नि क्षमालकृता ।

वनवरतमसगमोदारतारोदितानङ्गनार्याव लीलापद

हे क्षितामो हिताक्षो भवान् ॥१॥

समवसरणमत्र यस्या स्फुरत्कतुचक्रानकानेकपद्मेन्दु

रूक्चामरोत्सर्पिसालत्रयी -

सदवनमदशाकपृथ्वीक्षणप्रायशाभातपत्र प्रभागुर्वराराद,

परेताहितारोचितम् ।

प्रवितरतु समीहित साहता सहतिर्भक्तिभाजा भवाम्भा,

धिसप्रान्तभव्यावलीसविता

सदवनमदशाकपृथ्वीणत्रप्रा यशोभातपत्रप्रभागुर्वराराद

परेताहितारोचितम् ॥२॥

परमत्तिमिराग्रभानुप्रभा भूरिभगैगभीरा भृश विश्ववयै

निकाय्य वितीर्यात्तरा

महतिमति मत न्हित शस्यमानस्य वास सदातन्वी

तापदांद्दधानस्य सामानिन

जननमृतितरङ्गनिष्पारसंसारनीराकरान्तर्निमज्जज्जनोत्तार

नौर्मरती तीर्थकृत,

महति मतिमतेहितेशस्य मानस्य वा संसदातन्वती

तापदानं दधानस्य सामानिनः॥३॥

सरभसनतनाकिनारी जनोरोजपीटीलुठत्तारहारस्फुरद्रश्मि

सारक्रामाभोत्रहे,

परमवसुतराङ्गजा रावसन्नाशितारा तिभाराजिते

भासिनी हारतारा बलक्षेमदा ।

क्षणरूचिरूचिरोरूचञ्चत्सटासंकटोत्कृष्ट कण्ठो हे संस्थिते

भव्यलोकं त्वमम्बाभिविके ।

परभव सुतरां गजारावसन्ना शितारातिभा राजिते

भासिनीहारताराबलक्षेऽमदा ॥४॥

इति महाकवि श्री शोभन मुनिप्रणीता
चतुर्विंशतिजिनस्तुतिः ॥

पंचपरमेष्ठी गुण का, चैत्यवन्दन

वार गुण अरिहत देव प्रणमीजे भावे,	
सिद्ध आठ गुण समरता दु ख दोहग जावे	॥ १ ॥
आचारज गुण छत्रीस पचवीस उवज्झाय,	
सत्तावीस गुण साधुना जपता शिव सुख धाय	॥ २ ॥
अष्टोत्तर शत गुण मलीए इम समरो नवकार,	
धीर विमल पडित तणो नय प्रणमें नितसार	॥ ३ ॥

चौवीश जिन भव चैत्यवन्दन

प्रथम तीर्थकर तणा हुआ, भव तेर कहीजे,	
शांति तणा भव वार सार, नवभव नेम लहिजे	॥ १ ॥
दश भव पार्श्व जिणद का सत्तावीस श्री वीर,	
शेष तीर्थकर तिहु भवे, पाम्या भव जलतीर	॥ २ ॥
ज्याधी समकित फरसियु, त्याधी गणीए तेह,	
धीर विमल पडित तणो, ज्ञान विमल कहे एह	॥ ३ ॥

सामान्य चैत्यवन्दन

तुझ मूर्ती ने निरखवा, मुझ नयणा तरसे,	
तुज गुणगण न बोलवा रसना मुझ हरखे	॥ १ ॥
काया अति आनन्द मुज, तुम युग पद फरसे,	
तो सेवक तार्या विना कहो किम हवे सरशे	॥ २ ॥
एम जाणीने साहिवा ए नेक नजर मोहे जोय,	
ज्ञान विमल प्रभु नजर थी ते शु जे नवि होय	॥ ३ ॥

चौवीश जिन वर्ण का चैत्यवन्दन

पद्म प्रभुने वासुपूज्य दोयरातां कहिए,
 चन्द्र प्रभु ने सुविधि नाथ दो उज्ज्वल लहिये ॥ १ ॥
 मल्लिनाथ ने पार्श्वनाथ दो नीला निरख्या,
 मुनिसुव्रत ने नेमिनाथ दो अंजन सरिखा ॥ २ ॥
 सोले जिन कंचन समाए एवा जिन चौवीश,
 धीर विमल पंडित तणो ज्ञान विमल कहे शिष्य ॥ ३ ॥

श्री रिषभ जिन चैत्यवन्दन

आदि देव अलवेसरुं विनितानो राय,
 नाभिरायां कुल मंडणों मरु देवामाय ॥ १ ॥
 पांच सो धनुष नी देहडी प्रभुजी परम दयाल,
 चौराशी पूर्व नुं जस आयु विशाल ॥ २ ॥
 वृषभ लांछन जिनवृषभ धरु ए उत्तम गुणमणि खाण,
 तस दस पद्म सेवन घंकी लहिये अविचल ठाण ॥ ३ ॥

श्री शांतिनाथ जिन चैत्यवन्दन

शांति जिनवर सोलमां अचिरा सुत वन्दो,
 विश्वसेन कुल नभमणि भविजन सुख कन्दो ॥ १ ॥
 मृग लंछन जिन आरुखुं लाख वरस प्रमाण,
 हत्थिणापुर नयरी धणी, प्रभुजी गुण मणिखाण ॥ २ ॥
 चालिस धनुष नी देहडी ए, समचऊरस संठाण,
 वदन पद्म ज्युं चन्दलो दीठे परम कल्याण ॥ ३ ॥

श्री नेमिनाथ जिन चैत्यवन्दन

तोडी अडभव प्रीतडी छोडी-राजुल नार,
 पशुओं की रक्षा करी, धनधन, नेमिकुमार ॥ १ ॥
 देव दयालु दीपता ब्रह्मचारी अरिहत,
 शाख सुलक्षण श्यामतनु जयतु नेमि जयवत ॥ २ ॥
 सुख सागर भगवान, हरि पूज्य, परम-गुणधाम,
 गढ गिरनारे शिव गया निशदिन करू प्रणाम ॥ ३ ॥

चौवीश जिन चैत्यवन्दन

सिद्ध बुद्ध चौवीस जिन, ऋषभ अजित भगवान,
 सम्भव अभिनन्दन सुमति, पद्म सुपास महान् ॥ १ ॥
 चन्द्र प्रभु सुविधि शीतल, श्री-श्रेयास जिनेश,
 वासु पूज्य प्रभु विमल जिन, अनन्त धर्मविशेष ॥ २ ॥
 शान्तिकुन्धु अर मल्लि विभु, मुनि सुव्रत नमिनेम
 पार्श्ववीर हरि, पूज्यए, नित चन्दू धरप्रेम ॥ ३ ॥

चौवीश जिन लच्छन का चैत्यवन्दन

वृषभ लच्छन ऋषभ देव अजित लच्छन हाथी,
 सम्भव लच्छन घोडलो, शिवपुर नौ साथी ॥ १ ॥
 अभिनन्दन लच्छन कपि क्रांच लच्छन सुमति,
 पद्मलच्छन पद्मप्रभु विश्व देवा सुमति ॥ २ ॥
 सुपार्श्वलच्छन साथीयों चन्द्र प्रभु लच्छन चन्द्र,
 मगर लच्छन सुविधि प्रभु श्रीवच्छ शीतल जिणद ॥ ३ ॥

लंछन खड्ग श्रेयांस ने वासुपूज्य ने महिष, सुवर लंछन प्रभु विमल देव भवियां ते नमोशीश	॥ ४ ॥
सिंचाणोजिन अनन्त ने वज्र लंछन श्री धर्म, शान्ति लंछन मृगलो राखे धर्मनो मर्म	॥ ५ ॥
कुँधुनाथ जिन बोकडो अर जिन नन्दावर्त, मल्लिकुंभ वखाणिए सुव्रत कच्छप विख्यात	॥ ६ ॥
नमि जिन ने निलोकमल, पामीए पंकज माहि, शंख लंछन प्रभु नेमजी दीसे उंचे आहीं	॥ ७ ॥
पार्श्वनाथजी ने चरण सर्प नील वरण शोभित, सिंह लंछन कंचन तनुं वर्द्धमान विख्यात	॥ ८ ॥
एणी परे लंछन चिंतवीए ओलखीए जिनराय, ज्ञान विमल प्रभु सेवतां लक्ष्मी रतन सूरिराय	॥ ९ ॥

श्री महावीर स्वामी का चैत्यवन्दन

सिद्धारथ सुत वन्दिए त्रिशलानों जायो, क्षत्रिय कुंडमां अवतर्यो सुरनर पति गायो	॥ १ ॥
मृगपति लंछन पाऊँले सात हाथनी काय, बहोंतेर बरसनुं आउंखु वीर जिनेश्वर राय	॥ २ ॥
खिमा विजय जिनराजनाए उत्तम गुण अवदात, सात बोलथी वर्णव्यो पदम विजय विख्यात	॥ ३ ॥

श्री पार्श्वनाथ जिन चैत्यवन्दन

आश पूरे प्रभु पासजी, तोडे भवना पास, वामा माता जनमिया, अहि लंछन जास	॥ १ ॥
---	-------

अश्वसेन सुत सुख करू, नव हाथनी काय,
 काशी देश वाणारशी, पुण्ये प्रभु आय ॥ २ ॥
 एक सौ वरसनु आरूखुए पाली पासकुमार,
 पद्म कहे मुगते गया, नमता सुख निरधार ॥ ३ ॥

रोहणी का चैत्यवन्दन

वासुपूज्य जिनवर नमु, बारमा जिन शिरताज ।
 रोहिणी तप आराधन, सारेवाछित काज ॥ १ ॥
 चौविहार उपवास करी, पूजक पूजी देव ।
 दोय सहस गुणनो करी, त्रिकरण थिर करो सेव ॥ २ ॥
 सत्तावीस लोगस तणो, काउसगग दिलधार ।
 खमासमण देई भावथी, प्रदक्षिणा सुविचार ॥ ३ ॥
 स्वस्तिक करी फल ढौइये, पूजा विविध प्रकार ।
 जिन कृपाचन्द्र सूरि सेवता, पामे भवनोपार ॥ ४ ॥

श्री पार्श्वनाथ चैत्यवन्दन

ॐ नम पार्श्वनाथय, विश्वचितामणीयते ।
 हीं धरणेन्द्रवैरोटया - पद्मादेवीयुताय ते ॥ १ ॥
 शान्तिपुष्टिमहापुष्टि - धृतिकीर्ति विधायिने ।
 ॐ हीं दुष्टव्याल वैताल - सर्वाधिव्याधिनाशिने ॥ २ ॥
 जया जिताख्या विजयाख्या पराजितायान्वित ।
 दिशा पालैग्रहैर्यक्षैर्विद्यादेवीभिरन्वित ॥ ३ ॥
 ॐ हीं असियाउसाय नमस्तत्र त्रैलोक्यनाथताम्
 चतु षष्टिसुरेन्द्रास्ते भासन्ते छत्रचामरै ॥ ४ ॥
 श्री शखेश्वर मडन ? पार्श्वजिन प्रणतकल्पतरुकल्प ।
 चुरयदुष्ट विघ्नघात पूरय में वाछित नाथ ॥ ५ ॥

पर्युषण का चैत्यवन्दन

पर्युषण संसार में, पर्व शिरोमणी सार ।

तामे श्री जिनराज को पूजो दोय प्रकार ॥ १ ॥

पूजा करते पूज्य गुण, प्रगटत है निर्धार ।

आतम हो या परमात्मा, पावे पद अविकार ॥ २ ॥

जिन प्रतिमा जिन सम, गिने पूजे जो निशंक ।

हरिसागर गंभीर वह जग में हो अकलंक ॥ ३ ॥

पर्युषण का चैत्यवन्दन

पर्व पर्युषण आविया पूजोजिन चौवीश,

शासन जेहनो दीपतो, जयवन्तो जगदीश ॥ १ ॥

अष्टमदीप को जाणिये, नंदीश्वर शुभ नाम,

देव देवी नाटक करे, करे प्रभु गुणग्राम ॥ २ ॥

अट्टाई महोत्सव सुर करे, पूजेनित प्रभुमेव,

श्री जिन चरित्र सूरितणों माणक करे नितसेव ॥ ३ ॥

“श्री नवपद चैत्यवन्दन”

जो धुरि सिरि अरिहन्त मूल, दढंपीढ पइडिओ ।

सिद्धि सूरि उवज्झाय, साहु चिहुँ साहगरिडिओ ॥ १ ॥

दंसण नाण चरित्र तवहिं पडिसाहे सुन्दरू ।

तत्तवखर सरवग लद्धि. गुरुपय दल डंबरू ॥ २ ॥

दिसिवाल जक्ख जक्खिणी पमुह-सुर-कुसुमेहिं अलंकियऊ ।

सो सिद्धचक्क गुरू कप्पतरू - अम्ह मनवंछिय दियऊ ॥ ३ ॥

श्री नवपद चैत्यवन्दन

वारे गुण अरिहतना, तेम सिद्धना आठ ।

छत्रीस गुण आचार्यना, ज्ञान तणा भडार ॥ १ ॥

पच्चीस गुण उपाध्याय ना साधु सत्तावीश,

श्याम वर्ण तनु शोभता, जिनशासन ना ईश ॥ २ ॥

ज्ञान नमु एकावने दर्शन ना सडसठ ।

सितेर गुण चारित्र ना, तपना वारते जिह्व ॥ ३ ॥

एम नवपद युक्ते करि, त्रण शत अष्ट गुणथाय ।

पुजे जे भवि भावशु, तेहना पातिक जाय ॥ ४ ॥

पूज्या मयणा सुन्दरी, तेम नरपति श्री पाल ।

पुण्ये मुक्ति सुख लह्या वरत्या मगल मलि ॥ ५ ॥

दिवाली का चैत्यवन्दन

श्री सिद्धार्थ नृप कुलतिलो त्रिशला जस मात ।

हरि लछन तनु साथ हाथ महिमा विख्यात ॥ १ ॥

तीस वरस गृहवास छडी लिया समय भार ।

वार वरस, छद्मस्थना लही केवल सार ॥ २ ॥

तीस वरस एम सवि मलिए बहोतेर आयुप्रमाण ।

दिवाली दिन शिव गया कहे नयते गुण-खार्ण ॥ ३ ॥

“वीस स्थानक चैत्यवन्दन”

पहले पद अरिहत नमु वीजे सर्व सिद्ध ।

त्रीजे प्रवचन मन धरो आचारज प्रसिद्ध ॥ १ ॥

नमो धेराणं पंचमें पाठक गुण छठे ।

नमो लोए सच्च साहूणं जे छे गुण गरिठे ॥ २ ॥

नमो नाणस्स आठ में दर्शन पद ध्यावो ।

विनय करो गुणवन्तनो चारित्र मन भावो ॥ ३ ॥

नमो वंभवय धारिणं तेरमें किरियाणं ।

नमो तवस्स चौदमे गोयम नमो जिणाणं ॥ ४ ॥

चारित्र नाण सुअस्स ए नमोतित्थस जाणी ।

जिन उत्तम पद पदम ने नमता होय सुख खाणी ॥ ५ ॥

चैत्यवन्दन

जय जय श्री अरिहंत देव, द्वादश गुणधारी ।

जय जय सिद्ध महाराज, शत्रुगण हणिया भारी ॥ १ ॥

जय जय सूरि उवज्झाय पंचवीस गुणधारी ।

जय जय साधु शान्त दान्त भविजन हितकारी ॥ २ ॥

दंसण ज्ञान चरण नमो तप सेवो निरधारी ।

माणकचंद प्रणमें सदा वन्दो नरनारी ॥ ३ ॥

वरसीतप का चैत्यवन्दन

निज पूर्वकिए सब कर्म महा-बलवान विरोधि पराजय को ।

प्रभु आदि अचंचल भाव भरे ।

तप वार्षिक हर्षित हो करते ॥ १ ॥

प्रभु का तप तेज अहो कितना परकोनिजको सुखदायक था ।

कृत कर्म कटे सब भर्म मिटे ।

परमात्मता गुण भी प्रकटे ॥ २ ॥

धन भाग्य किए जिनने प्रभु के शुभ दर्शन, दर्शन पावन हो ।
सुख सागर वें भगवान बने ।

हरि पूज्य हुए जय हो जय हो

॥ ३ ॥

श्री ऋषभनाथ स्तुति

एकम की

वृषभ लछन कचन काया अदभुत रूप,

मरूदेवा नन्दन जगवन्दन जग भूप ।

नृप नाभि कुलाम्बर अम्बर मणि अनुरूप,

नित वन्दु भावे निजगुण दाव अनूप

॥ १ ॥

कर्मों की काली घटा अनादि काल,

आतम सूरज के आडी आडी कराल ।

वर ध्यान पवन से विघटे प्रगटे ज्योति,

सिद्धात्तम वदू जगे चेतना सोती

॥ २ ॥

नैगम आदिक नय-निर्भय भाव विशेष

प्रतिवादि भयकर निज आगम सदेश ।

सुनकर आराधू साधू आत्म प्रदेश,

स्वाधीन सुखों का स्वामी बनू हमेश

॥ ३ ॥

जिन शासन पावन सुख सागर भगवान,

हरि पूजित जगमेंकल्याण गुण परधान ।

आराधक जनकी आधि व्याधि उपाधि,

बारे चकेश्वरी देवे परम समाधि

॥ ४ ॥

श्रीमधर स्तुति

बीज की

मन सुद्ध वदो भावे भवियण, श्री सीमधर राया जी ।

पाँचसे धनुष प्रमाण विराजित, कंचन वरणी काया जी ।
 श्रंयास नरपति सत्यकि नंदन वृषभ लंछन सुख दाया जी ।
 विजय वली पुखलावई विचरे, सेवेसुर नर पाया जी । १ ।
 काल अतीत जे जिनवर हुवा, होस्ये जेह अनंता जी ।
 संप्रति काले पंच विदेहे, वरते वीस विख्याता जी ।
 अतिशय वन्त अनन्त गुणाकार, जगबंधव जगत्राता जी ।
 ध्यायक ध्येय स्वरूप जे ध्यावे, पावे शिव सुख साताजी । २ ।
 अरधे श्री अरिहंत प्रकाशी, सूत्र गणधर आणि जी ।
 मोह मिध्यात्व तिमिर भर नाशन, अभिनव सूर समाणी जी ।
 भवोदधि तरणी, मोक्ष निशरणी नय निक्षेप सोहाणी जी ।
 ए जिन वाणी अमिय समाणी, आराधो भवि प्राणी जी । ३ ।
 शासन देवी सुरनर सेवि, श्री पंचांगुली माई जी ।
 विघन विदारणी सम्पति कारणी, सेवक जन सुखदाई जी ।
 त्रिभुवन मोहनी अंतर जामणी, जग जस ज्योति सवाई जी ।
 सानिधकारी संघ ने होय जो, श्री जिन हर्ष सुहाई जी ॥ ४ ॥

आदिनाथ तीजकी स्तुति

आदि जिनवर राया, जास सोवन्नकाया ।
 मरूदेवी माया, धोरी लंछन पाया ॥
 जगत स्थिति निपाया, शुद्ध चारित्र पाया ।
 केवल सिरि राया, मोक्ष नगरे सिधाय ॥ १ ॥
 सवि जिन सुखकारी, मोह मिध्या निवारी ।
 दुर्गति दुःख भारी, शोक सन्ताप वारी ॥
 श्रेणिक क्षपक सूधारी, केवलानन्त धारी ।
 नमीये नर नारी, जेह विश्वोपकारी ॥ २ ॥

समवरण वेठा, लागेछे जिनजी-मीठा ।
 करे गण पर्ईट्टा, इन्द्र चन्द्रादि दिदठा ॥
 द्वादशांगी वरिदठा, गुथता टाले रिदठा ।
 भविजन होय हिदठा देखिय पुण्ये गरिदठा ॥ ३ ॥
 सुर समकित्त वन्ता, जेह रिद्धे महता ।
 जेह सज्जन सन्ता, टालिये मुझ चिन्ता ॥
 जिनवर सेवता विघ्न चारे दुरता ।
 जिन उत्तम धुणता पद्यने सुख दिता ॥ ४ ॥

पार्श्व स्तुति चौथकी

शखेश्वर पार्श्व पुजिये,
 नर भव नो लावो लीजिये ॥
 मन वाछित पूरण सुरतरू,
 जय चामा सुत अलवेसरू ॥ १ ॥
 दोय राता जिनवर अतिभला,
 दोय धोला जिनवर गुण नीला ॥
 दोया नीलो दोय शामल कहा,
 सालेजिन कचन वरण लहा ॥ २ ॥
 आगम ते जिनवर भाखियो,
 गणधर ते हिचडे राखियो ॥
 तेहनो रस जे चाखियो, ते हुवो शिवसुख साखियो ॥ ३ ॥
 धरणीधर राय पद्यावति
 प्रभु पास तणा गुण गावती,
 श्री सघना सकट चूरती ॥
 नय विमलना वाछित पूरती ॥ ४ ॥

पंचमी की स्तुति

निज तत्त्वप्रकाशक, तारक भव्य समाज
अतिशय गुणधारक, वीतराग जिनराज
पंचम गतिगामी, पंचम ज्ञान प्रकाश
तीरथ पति पंचम, वन्दु भावोल्लास ॥ १ ॥

अड्डकोडी उपर, छप्पन लाख विचार
सताणु सहस्रवर, जिन मंदिर शतचार
उर्ध्व अध तिर्यग, तीनों लोक मझार
सवि तीरथ प्रणमो, पावो भवजल पार ॥ २ ॥

अनुयोगावश्यक, नन्दी सूत्र प्रधान
मतिश्रुत अवधि मन, पर्यव केवल ज्ञान
चउ मूक स्वरूपी, भाषक श्री श्रुतज्ञान
निजपर उपकारक सेवो चतुर सुज्ञान ॥ ३ ॥

सिद्धायिका देवी, जिन शासन रखवाल
सहु संघना संकट, दूर करो तत्काल
सुखसागर सुवरण, कोमल पद परधान
शुभ ज्ञान सहायक, पावन दे वरधान ॥ ४ ॥

छठ की श्री महावीर स्वामी स्तुती

महावीर जिनेश्वर प्रणमं वारम्वार,
सर्वज्ञ निरंजन करुणारस भंडार ।
जगनाथ दिवाकर सुख हितकर जान,
जो भविजन सेवे, पावे केवल ज्ञान ॥ १ ॥

तीर्थकर शंकर सकल विश्व आधार,
अगणित गुण वरिया आत्म ज्ञान उदार ।
शिवपद जग उत्तम आनन्द अनुभव सार,
पद पंकज सेवा सुख सम्पति दातार ॥ २ ॥

श्रुत ज्ञान जगत में करता बहु उपकार,
सिरताज ब्रह्माण्या अनुयोग द्वार मझार ।
अमृत रस पीयो जिन आगम सुखकन्द,
जो नित प्रति घ्यावे पावे परमानन्द

॥ ३ ॥

जिन आणा भीठी प्रेम घरी चित्त लाय,
निज गुरु प्रसादे दुःख दुर्गति मिट जाय ।
आनन्द मनरगे भवसागर तिर जाय
श्रुत देवी सानिध निज करणी दुलसाय

॥ ४ ॥

श्री शातिनाथ की स्तुति

सातम की

श्री शाति जिनेश्वर परम शाति दातार,
यह जीव अनादि कारण पाकर चार ।

कर्मा केवश में रहे सदैव अशान्त,

शान्ति प्रभु सेवत होवे परम प्रशान्त

॥ १ ॥

मिथ्यात्व अविरति कपाय योग सयोग,

यह जीव हमेशा रहा करम फल भोग ।

सम्यग् दर्शन युक्त ज्ञान चारित्र सम्बन्ध,

शिव पद को साधे बन्दू सिद्ध अवध

॥ २ ॥

ये चारों हेतु जिन आगम में देखे,

त्यागे जन धन पावे पुण्य सुरेख ।

गुरुदेव दया से अथवा भाव नि सर्ग,

बोधि उत्तरोत्तर जयतु ज्योति अपवर्ग

॥ ३ ॥

निष्कारण बन्धु सुख सिन्धु भगवान

श्री जिन हरि, पूजित शासन दिव्य विमान ।

चढते भविजन झट पावें पद कल्याण
सुर सेवा सारें सहज सिद्ध उत्थान

॥ ४ ॥

श्री आठम की स्तुति

आठम दिन वंदो, आठम जिन भगवान ।

चन्दा प्रभु स्वामी, देवे अनुपम ज्ञान ।

अज्ञान मिटादे, आठ करम दे तोड

आत्म परमात्म हो, त्रिभुवन सिर मोड

॥ १ ॥

आठे दिन आठों, प्रवचन माता सार ।

आराधक जन को, भव सागर दे तार ।

मद आठ मिटाकर, सुन्दर शिव सोपान ।

चढ गये नमुं नित, सिद्ध परम गुणवान

॥ २ ॥

आत्म गुण आठो, आठम दिन आराध ।

सुख पाये है जन, जग में अच्या बाध ।

जिन आगम गावे, गुरू मुख से इकतार

सवि नय निर्भय हो, सुनिये जय जयकार

॥ ३ ॥

जिन वाणी सुन्दर, शासन देवीमाय

आठमतप करते, सेवोभाव अमाय

दुःख मिट जावेगा, सुख सागर भगवान ।

हरि कविन्द्र कीर्तित पद पावो कल्याण

॥ ४ ॥

नवमी की स्तुति

राजुल वरनारी, रूप थी रतिहारी,

तेहना परिहारी, बाल थी ब्रह्मचारी ।

पशुआ ऊगारी, हुआ चरित्र धारी,

केवल श्री सारी, पामिया घाती वारी

॥ १ ॥

व्रण ज्ञान सयुता, मात नी कुँखे हुता,
 जन में पुर हुता, आँवी सेवा करता।
 अनुक्रमे व्रत करता, पाँच सभिति धरता,
 महियल विचरता, केवल श्री वरता ॥ २ ॥
 सवि सुरवर आवे, भावना चितलावे,
 त्रिगडु सोहावे, देव छन्दो बनावे।
 सिहासन ठावे, स्वामी ना गुण गावे,
 तिहा, जिनवर आवे, तत्त्ववाणी सुनावे ॥ ३ ॥
 शासन सुरिसारी, अम्बिका नाम धारी,
 जे समकित नरनारी, पाप-सन्ताप वारी।
 प्रभु सेवाकारी, जाप जपीये सवारी,
 सघ दुरित निवारी पद्मने जेह प्यारी ॥ ४ ॥

दशम की स्तुति

ॐ ही श्री अहँ, स्वामी पास जिणद।
 जगमें जयकारी प्रभुवर वामा नन्द।
 शुभ नील वर्ण तन, सोहें लाछन नाग।
 उठी प्रभाते, ध्याऊ में धन भाग ॥ १ ॥
 घन घाती चारू, करम करे चकचूर।
 प्रगटावे पावन, केवल आत्म नूर।
 चौतीशय महागुण, अतिशय मय जेवत।
 त्रिकरण शुद्धि से ध्याऊ नित अरिहत ॥ २ ॥
 अमृत सम वाणीगुण पैंतीस उदार।
 सत भगी सुन्दर, भापे प्रभु अविहार।

(५६)

वर समव सरण में बारह पर्षदा बीच ।

भविजन सुन भावे, धोवे कर्म मल कीच
सुविहित खरतर विधि. आराधक जेह ।

॥ ३ ॥

संघ रक्ष प्रभु पारस, सेवक सुर गण गेह ।
नागाधीप देवी, पद्म प्रमुख विशेष ।

हरि कवीन्द्र वरणीत, चरो दुख अशेष

॥ ४ ॥

ग्यारस की स्तुति

अरनाथ जिनेसर दीक्षा नमी जिन ज्ञान ।

श्रीमल्लि जन्म व्रत केवल ज्ञान प्रधान ।

इग्यारस मिगसर सुदि उत्तम अवधार ।

ए पंच कल्याणक समरीजे जयकार

॥ १ ॥

इग्यारे अनुपम एक अधिक गुणधार ।

इग्यारे बारे प्रतिमा देशक धार ।

इग्यारे दुगणा दोय अधिक जिन राय ।

मन सुधे सेव्या सब संकट मिट जाय

॥ २ ॥

जियां वरस इग्यारे कीजे व्रत उपवास ।

वलि गुणनो गुणिये विधि सेती सुविलास ।

जिन आगमवाणी जाणी जगत प्रधान ।

एक चित आराधो साधो सिद्ध विधान

॥ ३ ॥

सुर असुर भुवणवण सम्यग्दरसन वंत ।

जिनचंद्र सुसेवक वैयावच्च करंत ।

श्री संघ सकल में आराधक बहु जाण ।

जिनशासनदेवी देव करो कल्याण

॥ ४ ॥

बारस की स्तुति

- श्री वासुपूज्य नरेश्वर नन्दा जया माता आनन्द चदा,
 सब जीवो सुखकन्दा, श्री वासुपूज्य जिनेश्वर चन्दो,
 भव भव सञ्चित पाप निकन्दो आत्म गुण आनन्दो ॥ १ ॥
- ऋषभादिक चोवीश जिनन्दा सेवा करे नित्य सकल सूरिदा
 मन धरि हरख आनन्दा, तास चरण सेवे मन सुद्धा,
 शिव सुख कारण सविण लुद्धा, निरमल सरसा दुद्धा ॥ २ ॥
- रोहिणी प्रमुख तपस्या सारीजे भाषित जिनवर गणधारी
 भविक करो हितकारी, एहवा आगम जे चित्तधारे,
 श्री जिन वाणी पढे पढावे तेह अक्षय सुख पावे ॥ ३ ॥
- श्री जिन शासन सानिध्यकारी दूरधी मगल दुरित निवारी,
 सेवोशुभ आचारी, कल्याणकारी जिन नें सेवो,
 सुरनर पुजित शासन देवो विघ्न हरो नित्त मेवो ॥ ४ ॥

तेरस की स्तुति

- कल्लाण कद पढम जिणिद
 सति तओ नेमि - जिण मुणिद ।
 पास पयास सु - गुणिकक ठाण,
 भत्तीइ वन्दे सिरि - वद्धमाण ॥ १ ॥
- अपार - ससार समुह पार,
 पत्ता सिव दित्तु सु - इक्क - सार ।
 सच्चे जिणिदा सुर - विद - चदा
 कल्लाण - वल्लीण विसाल कदा ॥ २ ॥

निव्वाण - मग्गे वर - जाण कप्पं,
 पणासिया - सेस - कुवाइ दप्पं ।
 मयं जिणाणं सरणं वुहाणं,
 नमामि निच्चं ति - जग - पाहाणं ॥ ३ ॥
 कुंदिंदु - गोक्खिर - तुसार वन्ना,
 सरोज - हत्था कमले निसण्णा ।
 वाईसिरी पुत्थय -वग्ग - हत्था,
 सुहाय सा अम्ह सया पसत्था ॥ ४ ॥

तेरस की स्तुति

यदंघ्रि नमनादेव, देहिनः संति सुस्थिताः ।
 तस्मै नमोस्तु वीराय, सर्व विघ्न विघातिने ॥ १ ॥
 सुरपति नतचरण युगान् नाभेयजिनादि जिनपतिन्नौमि ।
 यद्वचन पालनपरा जलाञ्जलिं ददतु दुःखेभ्यः ॥ २ ॥
 वदंति वृन्दागणाग्रतो जिनाः, सदर्थतो यद्रचयंति सूत्रतः ।
 गणाधिपास्तीर्थसमर्थनक्षणे, तदंगिनामस्तु मतं वि मुक्तये ॥ ३ ॥
 शक्रः सुरासुर वरैस्संह देवताभिः, सर्वज्ञ शासन सुखाय समुद्यताभिः
 श्री वर्द्धमान जिनदत्त मत प्रवृत्तान ।
 भव्यान् जनानन्नवतु नित्यममङ्गलेभ्यः ॥ ४ ॥

चौदस की स्तुति

द्रेँ द्रेँकि धपमप धुधुमि धों धों ध्रसकि धर धप धोरवं
 द्रों द्रोंकि दों दों द्राग्डिदि द्राग्डिदिकी द्रमकि द्ररणरण द्रेँणवं ।

इयाङ्गि इँकि इँ इँ इण्ण रण रण-निजकि निज जनरजन ।
सुरशैल शिखरे भवतु सुखद पार्श्व जिन पति मज्जन ॥ १ ॥

कटरंगिनी धोंगिनी किटति गिगुडदा धुधुकि धुटनट पाटवम्
गुण गुणण गुणगण, रणकि णें णें, गुणण गुण गण गोरवम् ।
इङ्गि इँ कि इँ इँ, इण्ण रण रण, निजकि निजजन सज्जना ॥
कलयति कमला-कलित कलमल, मुकलमीश-महेजिना ॥ २ ॥

ठकि ठँकि ठें ठें ठहिक ठहिक, ठहि पट्टास्ताइयते,
तल लोंकि लों लों त्रँषि त्रँषिनी डेषि डेषिनी वाद्यते ।
ऊँ ऊँ कि ऊँ ऊँ थोगि थोगिनि धोंगि धोंगिनि कलरवे ।
जिनमत मतत-महिम तनुता-नमति सुरनर मुच्छवे ॥ ३ ॥

खुदावि खुदा, खुखुइदि खुदा, खुखुइदि दों दों अवरे ।
चाचपट चचपट, रणकि णें णें, इण्ण डें डे डबरे ।
तिहा सरगंमपधुनि, निधप मगरस, ससस सससुर-सेविता ।
जिन नाटयरगे कुशल मुनिश दिशतु शासन देवता ॥ ४ ॥

स्तुति

स्नातस्या प्रतिमस्य मेरुशिखरे शच्या विभो शैशवे ।
रूपालोकन विस्मयाहतरस भ्रान्त्या भ्रमच्चक्षुषा ।
उन्मृष्ट नयनप्रभोधवलित क्षीरोदकाशकया ।
वक्त्र यस्य पुन पुन स जयति श्री वर्द्धमानो जिन ॥ १ ॥
हसासाहत पद्मरेणुक कपिश श्रीरार्ण पिशक्षीरार्णवाम्भो भृते ।
कुम्भैरप्सरसा पयोधरभरप्रस्पर्धिभि काञ्चनै ।
यथा मदाररत्नशैलशिखरे जन्माभिषेक कृत ।
सर्वे सर्वसुरासुरेश्वर गणै तेषा नतोडह क्रमान् ॥ २ ॥

अर्हद्वकत्र प्रसूतं गणधररचितं द्वादशांगं विशाल ।

चित्रं बह्वर्थर्थयुक्तं मुनिगण वृषभैर्धारितं बुद्धिमद्भिः ॥

मोक्षाग्रद्वारभूतं व्रतचरणफलं ज्ञेयभावप्रदीप ।

भक्त्या नित्यं प्रपद्ये श्रुतमहमखिलं सर्वलोकैकसारम् ॥ ३ ॥

निष्पंकव्योमनीलद्युति मलसदृश बालचन्द्राभदंष्ट्रं

मत्तं घंटारवेण प्रसृतमदजलं पूरयन्तं समन्तात् ।

आरूढो दिव्यनागं विचरति गगने कामदः कामरूपी ।

यक्षः सर्वानुभूतिर्दिशतु मम सदा सर्वकार्येषुसिद्धिम् ॥ ४ ॥

अमावस्या की स्तुती

सिद्धारथ त्राता जगत विख्याता त्रिशला देवीमाय

जिहां जग गुरु जनम्या सब दुःखविरम्या महावीर जिनराय

प्रभु लेई दीक्षा करीहित शिक्षा देइ संवच्छरी दान

सहुकरम खपेवा शिव सुख लेवा किधो तप सुभ ध्यान 19।

वर केवल पामी अन्तर जामी वदीकाती सुभ दिस

अमावस जाते पिच्छली राते मुगति गयां जगदीश

वली गौतम गणधर मोटा मुनिवर पाम्या पंचम ज्ञान

थया तत्व प्रकाशी शिव विलासी यहुंच्या मुक्ति निदान 12।

सुरपति संचरिया रतन उद्धरिया रात थई तिहांकाली

जन दिवा किधा कारज सीधा निशा थई उजवाली

सहुलोके हरखी निजरे निरखी पर्व कियो दिवाली

वली भोजन भगते निज निज शक्ते जिमें सेव सुंवाली 13।

सिद्धायिका देवी विध्न हरेवी वंच्छित दे निरधारी

करे संघ ने साता जिम जग माता एहवी शक्ति अपारी

जिन गुण इम गावे शिव सुख पावे सुण जो भविजन प्राणी

जिन चन्द जतीसर महामुनिसर जंपे एहवी वाणी 14।

स्तुति

वीर देव नित्य वन्दे	॥ १ ॥
जैना पादा युष्मान् पान्तु	॥ २ ॥
जैन वाक्य भूयात् भूत्यै	॥ ३ ॥
सिद्धायिका देवी दद्यात् सौख्यम्	॥ ४ ॥

स्तुति

बीस स्थानक सेवो भावधरि नितसेव	॥ १ ॥
अरिहत सकल ए आराधे पदएव	॥ २ ॥
जैनागम पाण गणधर वाणी सेव	॥ ३ ॥
शासनदेवी सहाये माणक आनन्द मेव	॥ ४ ॥

स्तुति

बीस स्थानक नित्य वदे	॥ १ ॥
जिन वचन सत्य मन्ये	॥ २ ॥
द्रव्य भाव अहस्तोष्ये	॥ ३ ॥
सिद्धा ध्यान सुख भूयात्	॥ ४ ॥

पुनम की स्तुति

श्री शत्रुजय तीरथ सार, गिरिवर मा जेम मेरू उदार,	
ठाकुर राम अपार, भत्र माहे नवकारज जाणु ।	
तारामा जेम चन्द्र वखाणु जल धर जलमा जाणु,	
पखी मा जेम उत्तम हस कुल माँ हे जेम ऋपभ नो वश ।	
नाभि तणो ए अस क्षमावत माँ श्री अरिहत,	
तप शुरा मुनिवर महत शत्रुजयगिरि गुणवन्त	॥ १ ॥

ऋषभ अजित सम्भव अभिनन्दा सुमितनाथमुख पुनम चन्दा
 पद्म प्रभु सुखकन्दा श्री सुपार्श्व चन्द्र प्रभु सुविधि
 शीतल श्रेयांस सेवो वहुं बुद्धि वासु पूज्य मति शुद्धि
 विमल अनन्त धर्म जिन शान्ति कुन्धु अरमल्लि नमुं ए काँति
 मुनि सुव्रत शुद्ध पंति नमि नेम पास वीर जगदीश
 नेम विना ए जिन तेवीश सिद्धी गिरी आव्या ईश ॥ २ ॥
 भरतराय जिन साथे वोले स्वामी शत्रुंजय गिरि गुण तोले
 जिननुं वचनअमोले ऋषभ कहे सुणों भरतजी राय
 छरी पॉलतां जे नर जाय पातिक भूको धाय
 पशु पंखी जे ईण गिरी आवे भवत्रीजे ते सिद्धज धावे
 अजरामर पद पावे जिनमत मे शत्रुं जो वखाण्यो
 तेमे आगम दिल माहें आण्यो सुणतां सुख उर ठाण्यो ॥ ३ ॥
 संघ पति भरत नरेश्वर आवे सोवन तणां प्रसाद करावे
 मणिमय मूरति ठावे नाभिराया मरू देवी माता
 ब्राह्मी सुन्दरी बहेन विख्याता मूर्ति नवाणुं भ्राता
 गोमुख यक्ष चक्केसरी देवी शत्रुंजय सार करे नित्य मेवी
 तप गच्छ उपर हेवी श्री विजय सेन सुरीश्वर राया
 श्री विजय दैवसुरि प्रणमी पाया ऋषभदास गुण गाया ॥ ४ ॥

स्तुति

वीस स्थानक तप जयवन्तम्	॥ १ ॥
आराधित अगणित भगवन्तम्	॥ २ ॥
ज्ञाता सूत्रे भाषित तत्त्वम्	॥ ३ ॥
रक्षति सुरगण संघ महन्तम्	॥ ४ ॥

स्तुति

ऋषभ देव नित करू सेव	॥ १ ॥
चोवीसे स्वामी जिनेश्वर नामी	॥ २ ॥
श्री जिनवाणी सुनो भवि प्राणी	॥ ३ ॥
चक्केसरी माई प्रेम रस ध्याई	॥ ४ ॥

पजुषण की स्तुति

वरस दिवसमा आषाढ चोमासो, तेहमा वली भादरवो मासो । आठ दिवस अतिखासो, पर्व पजुषण करो उल्लास । अड्डाई धरनो करो उपवास, पोसह लीजे गुरू पास । बडा कल्पनों छट्ट करीजे तेह तणो वखाण सुणीजे । चौदे सुपना वचीजे, पडवेने दिन जन्मवचाय । ओच्छव महोच्छव मगल गवाय, श्री वीर जिनेश्वर राय ॥ १ ॥ विज दिने दीक्षा अधिकार साझ समय निवारण विचार । श्री वीर तणो परिवार तीज दिने श्री पार्श्व विख्यात । वलि नेमिश्वर नो अवदात वली नव भवनी वात । चोवीशे जिन अन्तरं तेवीश आदि जिनेश्वर श्री जगदीश । तास वखाण सुणिश धवल मगल गीत गहुली करीये । वलि प्रभावना नित अनुसरीये अट्टम तप जय वरिये ॥ २ ॥ आठ दिवस लगे अमर पलावो तेह तणो पडह बजडावो । ध्यान धरम मन भावो सबत्सरि दिन सार कहेवाय । सघ चतुर्विध भेलो धाय बारसो सूत्र सुणाय । थिरावलीने समाचारी पटावली प्रमाद निवारी । साभलजो नरनारी आगम सुत्र ने प्रणमीश । कल्पसूत्रशु प्रेम धरीश शास्त्र सर्वे सुणीश ॥ ३ ॥	
---	--

(६४)

सत्तर भेदी जिन पूजा रचावोनाटक केरा खेल मचावो ।
विधिसु स्नात्र भणावो आडम्बर शुं देहरे जईयें ।
संवच्छरी पडिक्कमणुं करियें संघ सर्व नें खमिए ।
पारणे सामी वच्छल कीजे यथा शक्तिए दानज दीजे ।
पुण्य भण्डार भरीजे श्री विजय क्षेमसूरी गणघार ।
जशवन्त सागर गुरू उदार जिनेन्द्र सागर जयकार ॥ ४ ॥

स्तुति

पर्व पर्युषण आयासार, धर्म नगर ना उघड्यां द्वार ।
जिन पूजानो लाभ अपार, भविजन भरजो पूण्य भंडार ॥ १ ॥
पडह वजावो जीव अमार, अठाइ उच्छव जिन द्वार ।
तीन भुवन नां देव जुहार, भक्ति करी उत्तरो भवपार ॥ २ ॥
उच्छव करतां इकवीस वार, कल्प सूणी ने करो निरधार ।
अष्ट भवन्तर में नर नार निश्चय जावे मुक्ति मझार ॥ ३ ॥
ठवणा पाठक अष्टम द्वार, स्वामी वत्सल हिवडे हार ।
शासन देवी समरुं सार, क्षमा रतन नां विधन निवार ॥ ४ ॥

श्री सिद्धचक्र स्तुति

जिन शासन वांछित, पूरण देव रसाल ।
भावे भवि भणिये, सिद्धचक्र गुणमाल ।
त्रिहुं काले एहनी, पूजा करे उजमाल ।
ते अजर अमर पद सुख पामे सुविशाल ॥ १ ॥
अरिहंत सिद्ध वंदो, आचारज उवज्झाय ।
मुनि-दरिसण-नाण, चरण-तप ए समुदाय ।
ए नवपद समुहित, सिद्धचक्र सुखदाय ।
ए ध्याने भविनां भव कोटि दुख जाय ॥ २ ॥

आसौ चैतरमा सुद सातमथी सार ।

पुनम लगी कीजे, नव आयबिल निरधार ।

दोय सहस गुणणु, पद सम साडाचार ।

एकाशी आयबिल तप आगम अनुसार

॥ ३ ॥

श्री सिद्धचक्र ने सेवक, श्री विमलेश्वर देव ।

श्री पालतणी परे सुख पूरे स्वयमेव ।

दु ख दोहग नावे, जे करे एहनी सेव ।

श्री सुमति सुगुरूनो, राम कहे नित्यमेव

॥ ४ ॥

स्तुति

मम वन्दन हो सिद्ध चक्र पद,

मन वाच्छित दे शिवराज पदम् ।

सहु मत्र नमें पढ मत्र पदम्,

शुभ ध्यान नमे शुभ ध्येय पदम्

॥ १ ॥

अरिहत पद दोय सिद्ध पद,

तिय सुरि पद चउज्झायपदम् ।

सहु साहु दरसन ज्ञान चरम,

तप करम दल क्षय होय अरम्

॥ २ ॥

अहो भव्यजनों नव आविल करो

तनु रोग हरो कहे शास्त्र खरो, ।

तुम ध्यान धरो बहुमान करो,

भवपार करो शिवराज चरो

॥ ३ ॥

गच्छ खरत्तर में सुख पूर्ण लियो,

विमलेश्वर व्रत मेंसाज दियो ।

जय हो जय हो मुज प्राण प्रियो,

कहे खेम सागर आराम लियो

॥ ४ ॥

बीस स्थानक स्तुति

निरमल आतम भाव प्रकाशक कारक क्षायिक भावीजी ।
 जिन पद वर्धक कर्म निकन्दक बीस धानक भवी सेवीजी ।
 जिनवर सहजे स्थानक से वे एक अनेक भव ती जे जी ।
 आराधन ते साधन भावे, मन वांछित सब सीझे जी ॥१॥
 अरिहंत सिद्ध प्रवचन आचारज, स्थविर बहुश्रुत तपसीजी ।
 श्रुत दरसण विनयी आवश्यक, शील क्रिया तपवासीजी ।
 गणधर वैयावच्च सुसमाधी, ज्ञान ग्रहण श्रुत भगतीजी ।
 प्रवचन ए विंशती पद भाषक, जिन नमिए सहु जुगतीजी ॥२॥
 अट्टमतप उपवास आंबिल तप, एकासण निज सगतीजी ।
 करिए ओलि षट मास भीतर, आराधन बहु भकतेजी ।
 आरम्भटाली पोषध धारी दोग सहस जप गणिएजी ।
 काउसग्ग कारी दौष निवारी, देव पूजन श्रुत करिएजी ॥३॥
 शासन रक्षक समकित धारी, जे सहसुर सुखकन्दाजी ।
 सानिधकर ज्योते तप करता, वधते भाव अनन्दाजी ।
 श्री जिन लाभ सूरीश्वर शाखा, श्री कुशलेन्दु गणिंदाजी ।
 तस पद सेवक मंगल पतिगणि, जंपे श्री बाल चन्दाजी ॥४॥

१५ तिथि स्तवन संग्रह

एकम-स्तवन

(तर्ज-मेतारज मुनिवर धन धनहुम अवतार)
 केवल एक अनंत से जी, राजित ज्ञान महंत
 एकम महिमा प्रभु भणेजी, वर्द्धमान भगवंत
 भविक जिन आराधो धर भाव
 प्रकटे परम प्रभाव ॥ भवि.) टेर ॥

- एकम आत्म आपणो जी, एकाकी अविचार
परमात्म गुण से भयो जी, ध्याता हो भव पार ॥ १ ॥
- एक अनात्म जाणिये जी, बहिरात्म परिणाम
पुद्गल आदिक जो तजे जी, पावे निजगुण धाम ॥ २ ॥
- एक दड हिंसा तणोजी, दण्डित आत्म ताम
एक अदड जो आचरे जी, पसरे सुख अविराम ॥ २ ॥
- एक क्रिया करता थका जी जीव लहे भव रोग
एक अकिरिया साधता जी, भव भय भाव वियोग ॥ ४ ॥
- एक लोक षड् द्रव्य से जी, पूरण शाश्वत रूप
लोक शिखर सिद्धि गती जी, सिद्ध अगम गुण भूप ॥ ५ ॥
- एक अलोक अनत में जी, केवल एक आकाश
केवल ज्ञान धकी प्रभु जी, देखे पुनीत प्रकाश ॥ ६ ॥
- एक धरम सत रूप हे जी, वस्तु स्वभाव विशेष
भेद ओर उस धर्म के जी, साधक साधन शेष ॥ ७ ॥
- धर्म भाव विपरीत हे जी, एक अधर्म विचार
पर परिणति छोडे वही जी, पावे भवजल पार ॥ ८ ॥
- एक पुण्य एक पाप हे जी, एक बध करे भेद
आप अमूच्छित भाव से जी, चरते ज्ञानी अखेद ॥ ९ ॥
- बन्धन टूटे जीव के जी, मोक्ष सहज तब होय
मोक्ष एकता भाव में जी, तात्त्विक भेद न कोय ॥ १० ॥
- छोडे आश्रय एक को जी, धारेसवर एक
एक वेदना निर्जरा जी, बोध करे सिविवेक ॥ ११ ॥
- समवायागे भाखियो जी, एक विषय अधिकार
एकम दिन अवलवता जी, न रहे कर्म विकार ॥ १२ ॥

(६८)

कुंधुं प्रभु निर्वाण को जी, कल्याणक दिन एक
वद वैशाखे पूजियां जी, आप कल्याणक गेह ॥ १३ ॥
सुख सागर भगवान है जी, जिन हरी पूज्य प्रधान
सेवो सुखमेवा लहोजी, दिव्य 'कविन्द्र' मतिमान ॥१४॥

श्री ऋषभ जिन स्तवन एकम का स्तवन

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे,
ओर न चाहुं रे कंत ॥
रीझयो साहेब संग न परिहरे रे,
भांगे सादि अनन्त ऋषभ ॥ १ ॥
प्रीत सगाई रे जगमां सहु करे रे,
प्रीत सगाई न कोय ।
प्रीत सगाई रे निरूपाधिक कही रे ॥
सोपाधिक धन खोय ॥ ऋषभ ॥ २ ॥
कोई कंतकारण काष्ठ भक्षण करे रे,
मिलसुकंत नें धाय ।
ए मेलो नचि कहिये संभवे रे,
मेलो ठाम न ठाम ॥ ऋषभ ॥ ३ ॥
कोइ पतिरंजन अतिघणो तप करे रे,
पतिरंजन तन ताप ॥
ए पतिरंजन में नविं चित्त धर्यु रे,
रंजन धातु मिलाप ॥ ऋषभ ॥ ४ ॥
कोई कहे लीलारे अलख अलख तणी रे,
लख पूरे मन आस ॥

दोष रहित ने लीला नवि घटे रे,
 लीला दोष विलास । ऋषभ ॥ ५ ॥
 चितप्रसन्ने रे पूजन फल कह्यु रे,
 पूजा अखडित एह ॥
 कपटरहित थइ आत्म अरपणा रे,
 'आनन्द' घन पद रहे ॥ ऋषभ ॥ ६ ॥

श्री सीमधर जी का स्तवन

बीज का स्तवन

मनहुतो मारा मोकला, माराव्हालाजी ॥ टेरे ॥
 शशधर साधे सदेश जइन, कयजो म्हारा व्हालाजी
 भरत न भवत न तारवा, म्हारा, एकवार आवोनें आदश ॥ जाई ॥१॥
 प्रभुजी वसे पुष्कलावती, म्हारा, महा विदह क्षेत्र मझार ॥ जाई ॥
 पुरी राज पुडरिगिरि म्हारा, जिहाँ प्रभुनो अवतार ॥ जाई ॥२॥
 श्री श्री मन्दिर साहिवा, म्हारा, विचरता वीतराम ॥ जाइ ॥
 पडिवाधे बहु प्राणिने म्हारा, तनो पाम कुण ताण ॥ जाई ॥३॥
 मनजाण उडी मिलु म्हारा, पण पोताने नहीं पाख ॥ जाइ ॥
 भगवन्त तुम जोवा भणी 'म्हारा अलजो घरछ व आख ॥ जाई ॥४॥
 दुर्गम मोटा डुगरा म्हारा, नदी नालानो नही पार ॥ जाइ ॥
 घाटी नी आटी घणी म्हारा, अटवीपथ आपार ॥ जाई ॥५॥
 काड सोनय काशीदु म्हारा, करनारो नहीं कोई ॥ जाई ॥
 कागलियो केम मोकलु म्हारा, हाश ता नित्य नवली होय ॥ जाई ॥६॥
 लखु जज लेख मा म्हारा, लाखो गम अभिलाप ॥ जाई ॥
 तेम लजामा त लयो म्हारा, मुझ मन पुरे छे आश ॥ जाई ॥७॥

लोका लोक स्वरूपनो म्हारा, जगमां तमे छो जाण ॥ जाई ॥
जाण आगे सु जणावीये म्हारा ॥ आखर अमे अजाण ॥ जाई ॥८॥
'वाचक उदयनी' विनती म्हारा, शशधर कहां रे संदेश ॥ जाई ॥
मानी लेजो चन्दना म्हारा, वसतां दुर विदेश ॥ जाई ॥९॥

बीज का स्तवन

(राग-गोपीचन्द)

महावीर जिनन्दा, नमन करू रे सच्चे भाव से ॥ टेरे ॥
बीज दिवस सुन्दर जिनराया, श्री मुख से फरमावे ।
जे नर सुद्ध मन से आराधे परमानन्द पद पावेजी ॥ १ ॥
बीज दिनें उत्तम कल्याणक, पंच हुये श्री कार
चर्द्धमान शासन जिनराया, बोले आनन्द कार जी ॥२॥
सुमति नाथ अरनाथ के रे, च्यवन कल्याणक जान
वासुपूज्य शीतल जिनन्द रे, पाये केलव ज्ञान जी ॥ ३ ॥
शीतल मुक्ति पद पायो, बीज दिवस सुखकार
अतीत अनागत गिनते भविजन, फल अनन्त अपारजी
वीर प्रभु नैधर्म दिखाया, श्रावक और अणगार
धर्म शुक्ल दोय ध्यान निरन्तर, ध्यावो जय जयकार जी ॥५॥
बीज दिवस के चन्द्रोदय से, दर्शन करे संसार ।
चढती कलादिन दिन बधे भवि, बीज दिवस जग सार जी ॥६॥
दो महिने लघु से आराधो, जाव जीव उत्कृष्ट ।
दोय वर्ष दोय मास से भवि बीज करो शुभ दृष्टि जी ॥७॥
बीज दिवस के तप करने से, नष्ट होय दोय बंध ।
रागे द्वेष शत्रु हटे रे, मिट जावे भव फन्द जी ॥ ८ ॥
चौविहार उपवास करी ने, आराधे शुभ पर्व ।
मन वांछित सबही फले भवि, पावे सुखनिधि सर्वजी ॥९॥

धन शासन जिनराज कारे, जग जीवन आधार ।
 चर्द्धमान जिनराज को जी, वन्दु वारम्बार जी ॥ १० ॥
 सुख सागर भगवान हो, त्रैलोक्य नाथ हितकार ।
 'आनन्द रत्नाकर' कहे जी, बीज दिवस मनुहार जी ॥ ११ ॥

‘तीज’ आदिश्वर का स्तवन

(तर्ज-भीन्सासर स्वामी अन्तर जामी)

आदिश्वर स्वामी त्रिभुवन नामी अभिगामी अवतार
 पचम गति गामी निजगुण घामी, आरामी अविकार ॥ टेर ॥
 हे प्रभु कर्म से पीडित हु मे, कर्म बढे विकराल
 आप अकर्मक भाव के नायक, मेरी करो प्रतिपाल ॥ आदि ॥ १ ॥
 घातीअघाती चार चार है, है उनका विस्तार
 आतम केगुण आठ उर्नी पर, ये करते अधिकार रे ॥ आदि ॥ २ ॥
 मिध्यावादिक हेतु सहित, जो किरिया होती खास
 उससे आतम पडता पदगल रूपी कर्म केपास रे ॥ आदि ॥ ३ ॥
 शुभ किरिया है पुण्य का कारण, कचन वेडी समान
 पाप अशुभ है तोष की वेडी, दुस्रह दुख निदान रे ॥ आदि ॥ ४ ॥
 जीव अनादि कर्म अनादि उषय अनादि सयोग
 कनकोपल मे पावक जैसे, स्वामी साधो वियोगरे ॥ आदि ॥ ५ ॥
 प्रभु गुण जैसे मुझ मैं पी है, सत्तागत गुण आठ
 व्यक्त करो कृपया प्रभु मेरे, जैसे हुतासन काठरे ॥ आदि ॥ ६ ॥
 विघ्न घनाघन कर्म वली को, बषाधिक तप धार
 आतम ध्यान सुपावन पचने, आप किया परिहार ॥ आदि ॥ ७ ॥
 बध उदय अदीरणा सत्तागत, नम कर्म अनेक
 उर पर विजय करू मैं कहे, यह दो नाथ वियेकर रे ॥ आदि ॥ ८ ॥

गुण ठाणों की महिमा भारी, फरमाई जगनाथ
 उत्तरोत्तर मैं भी चढ. पाऊँ, जो पकड़ो मुझ हाथ रे ॥ आदि ॥ ९ ॥
 कर्मप्रवर्तक होकर स्वामी, हुए अकर्मक आप
 यह तप त्याग तपोबल, बुद्धि, दे दो हे मां बाप ॥ आदि ॥ १० ॥
 सुखसागर भगवान परम 'हरि, पूज्य दया कर देव
 पाऊँ अकर्मक तुम पद दर्शन तो नित साधु सेव रे ॥ आदि ॥ ११ ॥

तीज का स्तवन

(तर्ज - तुम्ही मेरे मन्दिर.....)

ऋषभ जिणन्दा अरजी स्वीकारो अरजी स्वीकारो भवपार उतारो
 मरूदेवा नन्दन अरजी स्वीकारो ॥ टेर ॥
 गिरीवर महिमा जग मांहे गाजे, प्रथम तीर्थकर तिहां विराजे
 तिहां विराजे भव दुःख भांजे रे ॥ १ ॥
 पूर्व नवाणु वार ए गिरीवर, समोसर्या आयी प्रथम जिनेश्वर
 प्रथम तीर्थकर बन्या तिहाँ मुक्ती धर रे ॥ २ ॥
 रायण पगला अनुपम सोहे, दर्शन धी भवि मन मोहे
 भवि मन मोहे त्रिभुवन मा सोहे रे ॥ ३ ॥
 पुण्डरिक पमुहा ए मुनिवर, इण गिरी आव्याप्रथम गणधर
 प्रथम गणधर बन्या ए अणगार रें ॥ ४ ॥
 अष्टा पद गिरी मोक्ष जावे, उलट कर्म ने सहज खपावे
 सहज खपावे, शिव सुख पावे ॥ ५ ॥
 भरत राय जिन संग कडावे, सोवन मय जिन विम्ब भरावे
 विम्ब भरावे, जिन गुण गावे रें ॥ ६ ॥
 कांकरे कांकरे सिद्ध अनन्ता, प्रीत लगी तिहां सहज वरन्ता
 सहज वरन्ता कर्म खपावे रे ॥ ७ ॥

ए गिरिवरना गुण जो गावे, भव भवनो सब दुख मिटावे
 दुख मिटावे अचल पद पावे रे ॥ ८ ॥
 मुझ मनडा प्रभु अचल स्वभावी, कधनी कहु छु अन्तर्यामी
 अन्तर्यामी शिव गति गामी ॥ ९ ॥
 सिद्ध गिरि नागुण जो गावे, उदय रतनप्रभु महासुखपावे
 महा सुख पावे, ज्योति जगावे रे ॥ १० ॥

चतुर्थी स्तवन

“पार्श्व नाथ स्तवन”

शखेश्वर साहिव देवा, आपोने शिव ना मेवा
 आपोने शिव ना मेवा ।

घर वास तजी, प्रभु पार्श्व भजी, तमे मुक्ती पुरी महमान धशो
 जिन दामोदर वाणी शिवङ्कर, सुण आपाढी श्रावक चित्त हस्यो
 प्रतिमा ते भरावे पार्श्व नाम धरावे । आपोने (१)
 भाव हैये धरी पुष्प अचन करी, गीत गाता पारसनु नाम स्मरी
 गमेनही ससार एनलागे असार, धुन पारस नाधनी चित्तधरी
 स्वगवास धयो वैमानिक भयो । आपोने (२)
 उपयोग मूक प्रतिमान चूक, लाव स्वर्ग पूजे खूब प्रेम धरी
 सुय चन्द्र विमान त्या शाभ भगवान, दवा पार्श्व प्रतिमानी सवा कर
 पाताले पण पधार्या, देवा ना दुख निवार्या । आपोने (३)
 युद्ध जाम्यु महा, यदु सैन्य तिहा जरासघ झुझे रणवीर वनी
 जरा विद्या वही, यदु सैन्य मही, कृष्ण मुजाणो हवे कोण धणी
 नेमीश्वर चाल्या वीरा, इरो ना कोई जरा । आपोने (४)
 पार्श्व प्रतिमा लावो स्नात्र जल छाटो जरा टलशे पलकमा सैन्यतणी
 कृष्ण अड्डम करे, प्रेम पद्या धरे, लावी आपे प्रतिमा पार्श्व तणी
 पूजीने पार्श्वनाथ, वन्या यादव सनाथ । आपोने (५)

कृष्ण शंख नादे सहु लोक गाजे, गाम शंखेश्वर त्यांही वसे
 चैत्य सोहे अनुप, आवे केइ य भूप, पूजे पार्श्व प्रतिमा पाप खसे
 अनुपम झाक झमाल, प्रतिमा तेज अपार । आपोने (६)
 चित निर्मल रहे, देव दानव चाहे, शिवराज मले जे पार्श्व भजे
 ज्ञान दीपक जले, अज्ञान टले, जे वीजा देवोने दूर तजे
 भजीलो पारस नाथ, रहोना कोई अनाथ । आपोने (७)
 प्रेम भानु उधीत, धयो भव्य विनोद, गीत आनन्दना गवडाई रह्या
 'भद्रगुप्त कहे' पार्श्व सेवा चहे, तेना दुख सदाय दूर गया
 शंखेश्वर पार्श्वनाथ, करजो भव मा साथ । आपोने (८)

चतुर्थी पार्श्वनाथ जिन स्त्वन

सहज गुण आदरो, स्वामी सुख सागरो
 ज्ञान वैरागरो प्रभु सवायो, शुद्धता एकता तीक्ष्णता भावधी
 मोह रिपु जीति, जय पडह वायो ॥ १ ॥
 वस्तु निजभाव अविभास निकलंकता, परिणति वृतिता करी अभेदे
 भाव तादात्म्यता शक्ति उल्लासधी, संतती योगनेतुं उछेदे ॥ २ ॥
 दोष गुण वस्तुनी लखीय यथार्थता, लही उदासीनता उपरभावे
 ध्वंस तज्जन्यता भाव कर्तापणुं, परम प्रभु तुं रम्यो निज स्वभावे ॥ ३ ॥
 शुभ अशुभ भाव, अविभास तहकीकता
 शुभ अशुभ भाव, तिहां प्रभु नकीधुं
 शुद्ध परिणामता वीर्य कर्ता थइ, परम अक्रियता अमृत पीधुं ॥ ४ ॥
 शुद्धता प्रभु तणी आत्म भावे रमे, परम परमात्मता तास थाए
 मिश्रभावे अछे त्रिगुणनी भिन्नता, त्रिगुण एकत्व तुज चरण आए ॥ ५ ॥
 उपशम रस भरी सर्व जन शंकरी, मूर्ति जिनराजनी आज भेटी
 कारणें कार्य निष्पति श्रद्धान छे. तेणे भव भ्रमणनी भीड मेटी ॥ ६ ॥

नगर खभायत पार्श्व प्रभु दरशने, विकसते हर्ष उत्सोह वाध्यो
हेतु एकत्वता रमण परिणामधी, सिद्धि साधक पणो आज साध्यो॥७॥
आज कृतपुण्य दीह माहरो धयो, आज नर जन्म मेंसफल भाव्यो
'देव चन्द्र' स्वामि त्रेविशमो वदियो,
भक्ति भर चित्त तुज गुण रमाव्यो ॥ ८ ॥

पंचमी का स्तवन-

(तर्ज - जब तुम्ही घहे परदेश)

प्रभु सुमति रे सुमति आपो प्यारा

मुझ प्राण तणा आधारा

॥ ११ ॥

प्रभु कोइक दिन नी वेला रे, ससारया रमिया भेला रे

खातापीता रमताहरता फरता, सुख दुखनी वातो करता ॥१॥

मूळ प्रीति निगोदे कीधीरे

मित्राई अनादि नी प्रसिद्धी रे

चार गति नारे सगपण करि बहु भमिया

वेहु सुख दुख साथे खमिया प्रभु

२

पुण्य योगे मनुष्य अवतार रे

पापी कीधा विषय विकार रे

धन कामिनीरे सार गणी मलकाया

११

बहु प्यारी गणी ए काया

प्रभु

३

पाप कीधा अपरम्पार रे

मरी गया नरक मजार रे

क्षेत्र वेद रे भोगवी त्या बहु घोर

करी दुख धी शोर बकौर

प्रभु

४

पाप कर्म त्यां घणा खपावी रे
त्या घी मनुष्य गति मा आवी रे
करी चोरी रे कुड कपड ने जारी
थई तिर्यच सहा दुख भारी

प्रभु..... ५

भुख तरस ताप ने टाढ रे
करी अज्ञानेवहु पाप रे
अति ध्याने रे मरी नरक मांजार रे
जई पाम्यादुःख अपार

प्रभु..... ६

वेउ जणा वहु भव भटकाया रे
पुष्ट योगे मनुष्य भव आया रे
काल लब्धे रे जेन धर्म ते पाया
करी कर्म नाश शिव जाया

प्रभु..... ७

तमे कर्मरहित थया स्वामी रे
हुँ तो सेवक पणे शिवगामी रे
केवी मित्राई तोडी शिवपद लीधुं
मोदुं कपट ए स्वामी ए कीधुं

प्रभु..... ८

मोदुं कपट ए कर्म नुं जाणुं रे
. एमां कोई नो दोष न आणुं रे
कर्म आडुं रे आवे त्यां कोण सगाई
शीकरवी संसारे सगाई

प्रभु..... ९

वलतु सुमति प्रभु बोले रे
 थयु होय जो मारी तोले रे
 साचोमार्ग रे मुक्ति पुरी नो स्वीकारो
 खरोमित्र होय जो म्हारो

प्रभु

१०

प्रभु सुमति मित्र सीख धरशु रे
 करी कर्म नाश शिव वरशु रे
 कासद्रारे मडण्ल सुमति नाथ
 बुद्धि सागर करजो सनाथ

प्रभु

११

पचमी तप बृहत्स्तवनच

प्रणमुँ श्री गुरु पाय, निर्मल ज्ञान उपाय	
पचमी तप भणुँ ए, जन्म सफल गिणु ए	॥ १ ॥
चउवीसमो जिनचन्द, केवल ज्ञान दिणन्द	
त्रिगडे गहगह्यो ए, भवियण ने कह्यो ए	॥ १ ॥
ज्ञान बडो ससार, ज्ञान मुगति दातार	
ज्ञान दीवो कह्यो ए साँचो सदहो ए	॥ २ ॥
ज्ञान लोचन सु विलास, लोकालोक प्रकाश	
ज्ञान विनापशु ए, नर जाणें किशुँ ए	॥ ३ ॥
अधिक आराधक जाण, भगवती सूत्र प्रमाण	
ज्ञानी सर्वतु ए, किरिया देशतु ए	॥ ४ ॥
ज्ञानी सासो सास, करम करेजे नाश	
नारकी ने सही ए, क्रोड वर्ष कहीए	॥ ५ ॥
ज्ञान तणो अधिकार, बोल्या सूत्र मझार	
किरिया छेसही ए, पिण पाछे कहि ए	॥ ६ ॥

किरिया सहित जो ज्ञान हुवे तो अति परधान

सोनो ने सुरो ए, संख दुधे भर्यो ए

॥ ७ ॥

महानिशीथ मझार, पंचमी अक्षर सार

भगवन्त भाँखियो ए, गणधर साखियो ए

॥ ८ ॥

ढाल-दूसरी

(देशी - कलहरानी)

पंचमी तप विधि सांभलो, जिम पामो भव पारो रे

श्री अरिहंत इम उपदिशे, भवियण नें हितकारो रे ॥टेर॥१॥

मिगसर माह फागुण भला, जेठ आसाढ वेसाखो रे .

इण षट मासे लीजिये, शुभ दिन सद्गुरू साखोरे ॥२॥

देवजुहारी देहरे, गीतारथ गुरू वन्दी रे

पोथी पूजो ज्ञाननी, शक्ति हुवे तो नन्दी रे ॥ ३ ॥

बेकर जोडी भावसु, गुरू मुख करो उपवासो रे

पंचमी पडिकमणुं करो, पढो पण्डित गुरू पासो रे ॥ ४ ॥

जिण दिण पंचमी तप करो, तिण दिन आरभं टालो रे

पंचमी स्तवन थुई करो, ब्रह्मचारिज पण पालो रे ॥५॥

पांच मास लघु पंचमी, जाव जीव उत्कृष्टी रे

पांच वरस पांच मासनी पंचमीकरो शुभ द्रष्टी रे ॥ ६ ॥

चौथे करो एकासणो, पंचमी करो उपवासोरे

पारणेवलिय एकासणो, करमन अधिक उल्लासो ॥७॥

ढाल तीसरी

(देशी - उल्लालानी)

हिवे भवियण रे, पंचमी उजमणो सुणो,

घर सारू रेवारू, धन खरचो गणो,

ए अवसर रे, आवन्ताँ बलि दोहिलो,
 पुण्य जोगेरे, धन पामताँ सोहिलो, -
 सोहिलो बलिय धन पामन्ताँ, पिण धर्म काज किहा बलि
 पचमी दिन गुरु पास आवी, कीजिये काउसग रली
 त्रण ज्ञान दरिण चरण टीकी, देइ पुस्तक पूजिये,
 थापना पहिली पूज केसर, सुगुरु सेवा कीजिये ॥ १ ॥

सिद्धान्तनी रे, पाँच परति वीटाडगणा,
 पाँच पूठारे भखमल सूत प्रमुख तणाँ,
 पाँच डोरारेलेखण पाँच मजीसणाँ,
 वासकूपा रेकाँबी चारू वरतणाँ,

वरतणाँ चारू बलिय कँवली, पाँच झिलमिल अति भली,
 थापनाचारिज पाँच ठवणी, मुहपति पड पाटली,
 पट सूत्र पाटीपच कोथली, पच नवकर बालियाँ
 इणि परे श्रावक करे पचमी, उजमणु उजबालियाँ ॥ २ ॥

बलि देहरे रे, स्नात्र महोत्सव कीजिये,
 घर सारू रे, दान बलि तिहाँ दीजिये ।
 प्रतिमा ने रे, आगलि ढोवणुढोईये
 पूजाना रे, जे जे उपकरण जोइये ॥

जोइये उपकरणदेव पूजा, काच कलश भृङ्गागर ए
 आरती भगल थाल दीवो, धूपधानुसार ए
 घनसार केशर अगर सूखड, अगलुहणु दीस ए
 पच पच सघली वस्तुढोवो, सगतिसु पचवीस ए ॥ ३ ॥
 पाचमीता रे, साहमीसर्व जीमाडिये
 राती जोगे रे, गीत रसाल गवाडिये ।

इण करणी रे, करतां ज्ञान आराधिये
 ज्ञान दरिसणे रे, उत्तम मारग साधिये ॥
 साधिये मारग एह करणी, ज्ञान लहिये निर्मलो
 सुरलोकने नरलोक मांहे, ज्ञानवन्त ते आगलो
 अनुक्रमेकेवल ज्ञान पामी, शाश्वता सुख ते लहे
 जे करे पंचमी तप अखंडित, वीर जिनवर इम कहे ॥ ४ ॥

कलश .

इम पञ्चमी तप फल प्ररूपक, वर्द्धमान जिनेश्वरो
 मै थुण्यो श्री अरिहंत भगवंत, अतुल बल अलवेसरो ।
 जयवंत श्री जिनचन्द्र सूरिज, सकलचन्द्र नमंसियो
 वाचन चारिज “समय सुन्दर” भक्ति भावे प्रशंसियो ॥ ५ ॥

छठु का स्तवन

(तर्ज - भीनासर स्वामी)

भद्रेश्वर स्वामी त्रिभुवन नामी, तारो हो वीर जिणन्द
 अब मोहे तारो हो वीर जिणंद ॥ टेरे ॥
 कच्छ देश मे सब तीर्थों में, तीर्थ राज कहेवाय
 भद्रेश्वर हे नाम शुभंकर वीर प्रभु चित्त भाय रे 9
 प्राचीन तीर्थमनोहर सुन्दर, महिमा वर्णिन न जाय
 बावन देवन जिनवर राजे, इन्द्र भुवन शरमाय रे 2
 बीच मे शासन नायक शोभे, दिव्य देवालय माय
 दर्शन कर दिल हर्ष भराया, आनन्द रंग उछलाय रे 3
 हृदय हमारा निवास तुम्हारा, लुटेरे घुस न आय
 जो न करे प्रभु यत्न भुवन का, यश कीर्ति सब जायरे 4

शान्त क्षमादि सुगुण तुम्हारे, स्वान्त सदन जो विराजे	
सर्व त्याग की उत्कृष्ट भावना, गझारवी करी गाजे रे	५
सुद्ध साध्य जो तुम को जागे, साधन वीरता भागे	
नेक नजर जो तुम्हारी होवे, कर्म रिपु तस भागे रे	६
जो जन वर पद्मगल को त्यागी, आत्म दरश वह पावे	
अविचल परमानन्द पद पावे, शिवरमणी वर जाये रे	७
एक न्यून साडे चोवीशे, वेंशाख वदी गुरूवार	
द्वादशी के दिन प्रभु गुण गाया, वरत्या जय जय काररे	८
सुख सागर भगवान सुशोभित, त्रिलोक्य नाथ हमारे	
आनन्द रत्नाकर प्रभु वदो, वर्धमान सुखकार रे	९

छठ का स्तवन

श्री महावीर जिन स्तवन

(कडखानी देगी)

तार हो तार प्रभु, मुज सेवक भणी	
जगतमा एटलु सुजश ली जे ॥	
दास अवगुण भयो जाणी, पोता तणो ।	
दया निधि दीन पर दया कीजे	१
राग द्वेषे भयो, मोह वैरी नडयो	
लोकनी रीतमाघणु ए रातो ॥	
क्रोध वश धमधम्यो, शुद्ध गुण नवि रम्यो	
भम्यो भवमाहे हु विषय मातो	२
आदर्यो आचरण लोक उपचार धी	
शास्त्र अभ्यास पण काइ ना कीघो ।	

शुद्ध श्रद्धान वली आत्म अवलंब विनु तेहवो कार्य तेणो को न सीधो ३
स्व मी दर्शन समो, निमित्त लही निर्मलो जो उपादान ए शुचि न थाशे ॥ दोष को वस्तुनो अहवा उद्यम तणो स्वामी सेवा सही निकट लासे ४
स्वामी गुण ओलखी, स्वामी नेंजे भजे दर्शन शुद्धता तेह पामे ॥ ज्ञान चारित्र तप वीर्य उल्लास थी कर्म जीपी वसे मुक्ति धामे ५
जगत वत्सल महावीर, जिनवर सुणी चित्त प्रभु चरण नेंशरण वास्यो ॥ तार जो बापजी विरूद्ध निज राखवा दास नी सेवनारखें जोशी ६
विनती मानजो शक्ति ए आपजो भाव स्याद्वादता शुद्ध भासे साधि साधक दशा, सिद्धता अनुभवे 'देवचन्द्र' विमल प्रभुता प्रकाशे ७

सप्तमी स्तवन

(तर्ज - भीनासर स्वामी अंतरजामी तारो पारसनाथ) जिनराज हमारेहै रखवाले, भय भंजन भगवान सातमसुखकारे पद अविकारे, सेवा शिव सोपान रे	॥ टेर ॥
सातम दिन आराधियेंरे, जिन कल्याणक सात कल्याणक प्रकटे सदा रे, भागे दूर असात रे ९

श्री अनन्त श्रावण वदी रे, पावन सुद वैशाख	
धर्मनाथ जिनराज जी रे, दिव्य धर्म तरुशाख रे	२
भादो वद शान्ति प्रभु रे, जग शान्ति दातार	
च्यवन कल्याणक तीन वेरे, वर्तावेँ जयकार रे	३
फागुणवद सातम दिने रे, चन्दा प्रभु भगवान	
चार कर्म को छेद के रे, पाये केवल ज्ञान रे	४
श्री सुपार्श्व फागुण वदी रे, पाये पद निर्वाण	
चन्दा प्रभु भादो वदी रे, पहुँचे सिद्धि स्थान रे	५
श्री अनन्त जिनराजजी रे, वद सातम आषाड	
शिव पावे भवमूल को रे, जड से देवे उखाड रे	६
सात भयो से आतमा रे पीडित चितित मीत	
सेवा श्री जिनराज की रे, दे निर्भय परतीत रे	७
समुदघात सब सात है रे, कर्म विकार विशेष	
परमात्म भजते मितेरे, न रहे लेश क्लेश रे	८
सुखसागर भगवान है रे, निर्विकार निरूपात	
ध्याता ध्याने ध्येय की रे, पावे परम समाध रे	९
जिनहरि पूज्य महागुणी रे, स्वय बुद्ध सिरताज	
दिव्य 'कवीन्द्र' सदा नमो रे, निजघर अविचल राज रे	१०

सप्तमी स्तवन

श्री शान्तिनाथ जिन स्तवन

(तर्ज- भैरवी भीमपलाशी)

शान्ति जिनेसर साहब चन्दा, अनुभव रसनो कन्दो र
मुखने मटकलाचन लटक, माहा सुरार वृन्दो रे शान्ति

- आँवे मँजरी कोयल टहुकें, मेंघघटा जिम मोरो रे
 तेम जिनवरने देखीहरखूं, वलि जिमचन्द चकोरो रे शान्ति।
- जिन प्रतिमा श्री जिनवर भाँखी, सूत्र घणा छे साखी रे ।
- सुर नर मुनिवर वन्दन पूजा, कर्ता 'शिव' अभिलापीरे शान्ति २
 'रायप्पसेणी' प्रतिमा पूजी, 'सूरियाम' समकित धारी रे
 'जीवाभिगमे प्रतिमा पूजी, 'विजयदेव अधिकारी रे शान्ति ३
 जिनवर चैत्य विना नवि वन्दू, आणन्दजी एमवोले रे ।
- सातमे अंगे समकित मुले, अवर नही तस तोले रे शान्ति ४
 ज्ञाता सुत्रे 'दौपदी' पूजा, करती शिवसुख माँगे रे ।
- राय सिद्धारथ प्रतिमापूजी, कल्प सूत्र माहे रागे रे शान्ति ५
 विद्याचरण मुनिवर वन्दी, प्रतिमा पांचमे अंगे रे ।
- जंघाचारण मुनिवर वन्दी, जिनपडिमा मन रंगे रे शान्ति ६
 आर्य सुहस्तीसूरि 'उपदेशे' साचो 'संपत्ति राय' रे
 सवा क्रोड जिन विंव भराच्याँ घन घन! एवनी माय रेशान्ति ७
 मोकली प्रतिमा 'अभयकुमारे', देखी 'आर्द्रकुमार' रे ।
- जातिस्मरणे समकित पामी, वरियो 'शिववधु' सार रे शान्ति ८
 इत्यादिक बहु पाठ कह्या छे. सूत्र माँहे सुखकारी रे
 सूत्र तणो एक वरण उत्थापे, तं कह्यो वहुल संसारी रेशान्ति ९
 ते माटे जिन आणा धारी, कुमति-कदाग्रह निवारी रे ।
- भक्ति तणा फल 'उत्तराध्ययने', वोध वीज सुखकारी रे शान्ति १०
 एक भवेदोय पदवी पाय्या, सोलमा श्री जिनराय रे ।
- मुझ मन मंदिरिये पधराओ. धवल मंगल गवराय रेशान्ति ११
 जिन उत्तमपद रूप अनूपम, कीर्ति कमलानीशाला रे ।
- 'जिन विजय' कहे प्रभुजीनी भक्ति, करतां मंगल माला रेशान्ति १२

अष्टमी स्तवन

(तर्ज - झट जावो चन्दन हार लावो)

भवि भावे आठम दिन आवे, जिनद गुण गाते है ।

कट जाते करम आठ यातें, परम पद पाते है ॥ १ ॥

फाणुण सुद सभव प्रभु, भादो वदी सुपास ।

ध्यवन कल्याणक में यहा, फैला परम प्रकाश ।

जगत सुख पाते है ॥ १ ॥

माघ सुदी जन्मे अजित, ऋषभ चैत वद पाख ।

कुमति हरण सुमति करण, सुमति सुद वेशाख ।

सुमति लय लाते है ॥ २ ॥

ज्येष्ठ वदी आठम दिने, मुनि सुव्रत भगवान ।

वद श्रावण नमि नाथजी, जन्मेपुण्य प्रधान ।

विजय जय पाते है ॥ ३ ॥

चैत वदी आठम दिने, दीक्षा आदिनाथ ।

पटकाया के जीव के, रक्षक दिनानाथ ।

शरणसब पाते है ॥ ४ ॥

सुद आठम वैसाख में, अभिनन्दन निर्वाण ।

सुद आपाठ नेमि सुदी, श्रावण पार्श्व महान ।

मुगति में जाते है ॥ ५ ॥

आठ महामद छोडके, प्रवचन माता आठ

धारण कर जिनवर भजे, पावे निज गुण ठाठ

गुणी गुण गाते है ॥ ६ ॥

वीतराग प्रभु ध्यान को, नित करते निष्काम

प्रकटे अपने आप ही आठ सिद्धि अभिराम

महोदय पाते है ॥ ७ ॥

द्रव्य भाव दो भेद से, पूजा आठ प्रकार
करते भविजन पूज्यपद, पाते पुण्य भंडार

अशिव मिट जाते हैं ॥ ८ ॥

जीव दया जिन पूजते, स्वयं सिद्ध हो जाय
काल लब्धि कारण मिले, करम आठ कट जाय

अभय पद पाते है ॥ ९ ॥

सुख सागर भगवान वर, बोधिदान दातार
जिन हरि पूज्येश्वर नमूं, ज्योतिर्मय जयकार

और नहींभाते हैं ॥ १० ॥

आठम दिन आराधना, परमात्म पद योग
सकल समाराधक वरे, सहज सिद्ध सुख भोग

'कवीन्द्र' यश गाते है ॥ ११ ॥

अष्टमी का स्तवन

(तर्ज - उड. उड. रे...)

देखो देखो रे २ मारा चन्द्र प्रभुजी

आत्म ध्यान लगाऊं रे

निशादिन तारा गुण हुं गाऊ, शुभ भावना मनमाहुँ लाउं

दूरमति दूर हटाऊ रे १

प्रभु तुज चरणों हुं छु आव्यो, भक्ति भावना फूल हु लावियो

भाव धरी चरण चढाऊ रे २

मूर्ति प्रभुनी छे वितरागी, अमने लागे छे अनुरागी

उपसम रस नित पिऊ ३

नयनो मा प्रभु अमीरस झलके, मुखडु देखी मारोमन हरखे

दर्शन कर कर्म खपाउ रे ४

पुष्ये प्रतापे दर्शन पाया, लक्ष्मणा माता रा प्रभु हे लाडला	
गुणा तारा नित गाऊ रे	५
करुणा सागर नाथ हमारा, डुब रही हे नाच मझधारा	
तारो प्रभु तारण हारा रे	६
प्रतिमा सुन्दर आनन्द दाई, नमन करेहम शीश झुकाई	
चन्द्र प्रभुजी केचरणों मे	७
मुखडो देखी मारो मन हरखे, नयन मारा प्रभुजी नेनिरखे	
भक्त जन मिल गावाला	८
मोह माया में हु छु फसियों, विषय भोगमा हु छु रमियो	
केवी रीते सुख पाऊ रे	९
'आत्म कमल' की महिमा भारी 'सुरि लक्ष्मण' जग उपकारी	
बोलो जयजय कारा रे	१०

नवमी का स्तवन

(तर्ज - छोटे से बलमा मोरे आगना मे)

दिन नवमी जिनराज, ध्याने नवनिधि आवें ।	
खोट रहे नहीं लेश, परमात्म पद पावे	॥ टेरे ॥
श्री सुविधि भगवान, फागुणवद नवमी में ।	
च्यवन कल्याणक सार, सुखमय सहज उपावे	॥ १ ॥
वासुपूज्य जग पूज्य, जेठ सुदी नवमी में ।	
च्यवते सुर सुख भोग, दुख सब दूर गमावे	॥ २ ॥
कुधुनाथ जिननाथ, श्रावण वद नवमी में ।	
करते च्यवन सानन्द, पूरव पुण्य प्रभावे	॥ ३ ॥
अजित अजित गुणधाम माघ सुदी नवमी में ।	
दीक्षा कल्याणक भाव, सुरवर जय जय गावें	॥ ४ ॥

(८८)

- सुमति सुमति दातार, नवमी सुद वैसाखे ।
आषाढ वद नमिनाथ, संयम जीवन ठावे ॥ ५ ॥
- सोलम शान्तिनाथ, पौष सुदी नवमी में ।
पावें केवल ज्ञान, घाती कर्म खपावे ॥ ६ ॥
- चैत सुदी पख नामे, शैलेशी वर ध्याने ।
श्री पंचम भगवान, पंचम शिव गति पावे ॥ ७ ॥
- श्री सुव्रत स्वयं बुद्ध जेठ वदी नवमी में ।
करते करम दल अंत, ज्योति मे ज्योति समावे ॥ ८ ॥
- नवमें नाथ दयाल, भादो सुद नवमी में ।
सिद्धि वधु सिरताज परमानन्द मनावे ॥ ९ ॥
- नव वाड सुद्धेशील पालेनिज गुणगावे
करम भरम जंजाल, जड से जीव मिटावे ॥ १० ॥
- सुखसागर भगवान, जिन हरि पूज्य प्रभु की
सेवा कवीन्द्र सुखकार अनुपम जग जरा छावे ॥ ११ ॥

नवमी का स्तवन

- षट दरसण जिन अंग भणिजे, व्यासषडंग जो साधेरे
नमि जिनवरनाचरण उपासक, षट दरशन आराधे रे १
- जिन सुर पादप पाय बखाणु, सांख्य जोग दोय भेदेरे
आतम सत्ता विवरण करता लहो दुगअंग अखेदेरे २
- भेद अभेद सुगत मीमांसक, जिनवर दोय कर भारी रे
लोका लोक अवलंबन भजिये, गुरूगम थी अवधारी रे ३
- लोकायतिक कूख जिनवरनी, अंश विचारी को कीजे रे
तत्व विचार सुधारस धारा, गुरू गम विण किम पीजे रे... ४

- जैन जिनेश्वर वर उत्तम अग अतरग बहिरगे रे
 अक्षरन्यास घरा आराधक, आराधे घरी सगरे ५
- जिवनरमा सघला दर्शने छे, दरशण जिनवर भजनारे
 सागरमा सघली तटिनी सही, तटि नामा सागर भजनारे ६
- जिन स्वरूपथई जिन आराधे, ते सही जिनवर होवे रे
 भृगी ईलीकाने चटकावे, ते भृगी जग जोवे रे ७
- चूर्णि भाष्य सूत्र निर्युक्ति, वृत्ति परम्परा अनुभवे रे
 समय पुरुषना अग कहा ए, जे छेदे ते दुर भव्य ८
- मुद्रा बीज धारणा अक्षर, न्यास अरथ विनियोगे रे
 जे ध्यावे ते नवि वचीजे, क्रिया अवचक भोगे रे ९
- श्रुतअनुसार विचारी बोलु, सुगुर तथाविघ न मिले रे
 किरिया करी नविसाधिसकीयें, ए विषवाद चित सघलेरे १०
- ते माटे उभा करेजोडी, जिनवर आगल कहीये रे
 समय चरण सेवा शुद्ध दें जो, जिम 'आनन्द घन' लही एरे ११

दशमी का स्तवन

- लाखिणो सोहावे जिनजी, फूलडानो गले हार
 आणीने सुहावे जिनजी, अगिया रचाव
- भारा पार्श्वजी हो लाल गोडी पार्श्व जी हो लालसकट छुडावो स्वामी
 विघ्न निवार हो हो २
- पद्यणी चाली पूजवाने धरी सोलह सणगार
 पाये धमके घूघरी, उरणो रणकार ॥ मोरा ॥ १ ॥
- मेघमाली देवता ए कीधो घनघोर
 गाजेरे गगने विजली, पाणी वरये जोर
- हो हो पाणी वरये जोर ॥ मोरा ॥ २ ॥

- गोडी पार्श्व पूजे, जिम होय रंग रोल
देखी मूर्ति पार्श्वजीनी, जाणे मोहन वेल
हो हो जाणे मोहन वेल ॥ मोरा ॥ ३ ॥
- ध्यान थकी नवी चूक्या, प्रभु पार्श्व जिनन्द
देही कष्ट निचारवाने, आव्या छे धरणेन्द्र
हो आव्या छे धरणेन्द्र ॥ मोरा ॥ ४ ॥
- उमक उमक चालती ने, घुघरीये घमकार
ताता थई ताल वाजे, देवता नी चाल
हो हो देवता नी चाल ॥ मोरा ॥ ५ ॥
- केशरचन्दन घसी घनाने, कस्तुरी घन सार
जे नर पूजे भावसे, ते उतारे भव पार
हो हो ते उतारे भव पार ॥ मोरा ॥ ६ ॥
- तुं ही मारो साहिवां ने, तु ही जीवन प्राण
तु ने माने देवता ने, तु ही प्राण आधार
हो हो तु ही प्राण आधार ॥ मोरा ॥ ७ ॥
- पण्डित माहे शिरोमणिने, कनक विमल गुरू हीर
चरण कमल सेवे सदा रे, 'केशर कवि' अणधीर ॥मोरा॥८॥

दशमी का स्तवन

(तर्ज - आदर जीव क्षमागुण आदर)

- शीतल जिन पति प्रभुता प्रभुनी, मुजथी कहि न जाय जी
अनंतता निर्मलता पूरणता, ज्ञान विना न जणाय जी ..१
- चरम जलधी जल मिणे अंजली, गति झिंपे अति वाय जी
सर्व आकाश उलंघेचरणे, पण प्रभुता न गणाय जी ..२

- सर्व द्रव्य प्रदेश अनन्ता, तेहथी गुण पर्याय जी
 तास वर्ग थी अनतु गुण प्रभु, केवल ज्ञान कहाय जी ३
 केवल दर्शन एम अनतु, ग्रहे सामान्य स्वभाव जी
 स्वपर अनतथी चरण अनन्तु स्मरण सवर भाव जी ४
 द्रव्यक्षेत्रने काल भाव गुण, राजनीति ए चार जी
 त्रास बिना जड चेतन प्रभुनी, कोई न लोपे कार जी ५
 शुद्धाशय स्थिर प्रभु उपयोगे, जे समरे तुझ नाम जी
 अव्याबाध अनती पामे, परम अमृत सुख धाम जी ६
 आणा ईश्वरतार्थ नियता, निर्वाछकता रूपजी
 भावस्वाधीन ते अव्यय रीते, एम अनन्त गुण भूपजी ७
 अव्याबाध सुख निर्मल तेतो, कारण ज्ञाने न जणाय जी
 तेहज एहनो जाणग भोक्ता, जे तुम समगुण राय जी ८
 एम अनन्त दानादिक निजगुण, वचनातीत पडुर जी
 वासन भासन भावे दुर्लभ, प्राप्ति तो अति दूरजी ९
 सकल प्रत्यक्षपणे त्रिभुवन गुरू, जाणु तुज गुण ग्राम जी
 बीजु काई न मागु स्वामी, एहिज छे मुझ कामजी १०
 एम अनन्त प्रभुता सरदहता, अरचे जे प्रभु रूपजी
 "देवचन्द्र" प्रभुता ते पामे, परमानन्द स्वरूपजी ११

एकादशी का स्तवन

(तर्ज - जिन मत का डका आलम मे)

ग्यारस अनुपम रस की नदिया

जिन भक्ति सुधा भर लाती है

जीवन से पापों की वदिया

अति दूर बहा ले जाती है

॥ टेर ॥

आत्म परदेशों में पावन

सुकृत सद्गुण वर खेती को

पैदा करती रस को भरती

मंजुल महिमा दिखलाती है

॥ १ ॥

आधि व्याधि संतापो को, हरति कल्याणक लहरो से

परमात्मपुण्य महोदय की, कमनीय कला प्रकटाती है

॥२॥

मिगसर सुद मल्लि जनम जयो, अजरामर पद सुविकास भयो

जग सुख प्रकाश बढ़ाने से, ग्यारस गरिमा मन भाती है

॥३॥

मिगसर सुद अरजिन मल्लि प्रभु, वद पौष में पारसनाथ विभु

दुख हर दीक्षा लेते ग्यारस, सुखकर शिक्षा सिखलाती है

॥४॥

फागुण वद मेंआदीश्वर जिन, सुद पौष अजित जय जय कारी

सुद चैत सुमतिसुमति दाता, केवल वर ग्यारस लाती है

॥५॥

केवल पाये अर मल्लि प्रभु, इकवीसमें श्री नमि जिनराजा

मिगसर सुद ग्यारस पर्वोत्तम, पदवी जिन मुखसेपाती है

॥६॥

पांचभरत पांच ऐरावत, में पांच पांच कल्याणकयों

पच्चास कल्याणक लीलासे, मिगसर सुद्ध ग्यारस भाति है

॥७॥

डेढ सौ कल्याणक मिगसर सुद, तीनोंकालोकी गिनतीसे

यो अनन्त कल्याणक अनन्त कालसे, ग्यारस पाती जाती है

॥८॥

आराधन भविजन करते है, निज पुष्य भंडारा भरते है

ग्यारस सुख सागर की सीमा, सुख सुषमा से सरसाती है

॥९॥

आबाल ब्रह्मचारी नेमि, हिर पूज्य जिनेश्वर फरमावें

यह ग्यारस मौन सहित साधे, भव भय कोदूर भगाती है

॥१०॥

ग्यारह प्रतिमा घारी ग्यारह, अंगो के पाठी ग्यारस के

आराधक की गुणकीर्तिकथा, 'सुकवीन्द्र' कला दरसाती है

॥११॥

ग्यारस का स्तवन श्री मल्लिजिन स्तवन

- सेवक किम अवगणिये हो, मल्लिजिन, ए अब शोभा सारी
अवर जेहने आदर अतिदीये, तेहने मूल निवारी हो ॥ मल्लि १ ॥
- ज्ञान सुरूप अनादि तमारू, ते लीधु तमे ताणी
जुआ अज्ञान दशा रीसावी, जाता काण न आणी ॥मल्लि २ ॥
- निद्रा सुपन जागर उजागरता, तुरिय अवस्था आवी
निद्रा सुपन दशा रीसाणी, जाणी न नाथ मानवी हो ॥मल्लि-३ ॥
- समकित साथे सगाई कीधी, सपरिवारसु गाढी
मिध्यामति अपराधण जाणी, घरथी बाहिर काढी ॥मल्लि-४ ॥
- हास्य अरति रति शोक दुगछा, भय पामर करसाली
नोकपाय श्रेणीराज चढता, श्वान तणी गति झाली हो ॥मल्लि ५ ॥
- रागद्वय अविरतिनी परिणति, चरण मोहना योधा
वीतराग परिणति परणमता, उठी नाठा बाधा हा ॥मल्लि ६ ॥
- बदोदय कामा परिणामा, काम्यकर सहु त्यागी
निध्यामी करूणासागर, अनन्त चतुष्कपद पागी हा ॥मल्लि ७ ॥
- दानविघन वारीसहु जनने, अभय दान पद दाता ।
लाभविघन जग विघन निवारक, परम लाभरस माताहो ॥मल्लि ८ ॥
- वीर्य विघन पडित वीर्ये हणी, पूरण पदवी यागी
भोगोपभाग दोय विघन निवारी, पूरण भोगसु भोगी हा ॥मल्लि ९ ॥
- ए अट्टारदूषण वर्जित तनु, मुनिजन वृन्दे गाया
अविरतिरूपक दोषनिरूपण, निरदूषण मन भाया हा ॥मल्लि १० ॥
- इणविघ परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गाव
दीनयधुनी महार नजरधी, 'आनन्द घनपद पाव हो ॥मल्लि ११ ॥

बारस का स्तवन

(तर्ज - सिद्धारथ रो राज दुलारो)

वासुपुज्य जिन अन्तर्यामी हु प्रणमु सिरनामी रे मारा अन्तर्यामी
त्रिकरण योगे ध्यानतमारू, करता भवभय वारू रे मारा अन्तर्यामी
चोत्रीस अतिशय शोभातारी, तुमची जाऊ बलिहारी रे
ध्यान विनाने शक्ति प्रमाणे, सुरपति गुण वखाणे रे ॥

सुरपति गुण वखाणे हो प्रभुजी हु प्रणभु.... १

देशना देता तखत विराजे, जल धरणी पर गाजे रे
वाणी सुधारस गुण मणि खाणी, भावधरी सुणे प्राणी रे ॥हु प्रणमु-२॥
दुविध धर्म दया निधि, भाखे तु जुगते रे

भेद रहित प्रभु निरखो मुझने, तो शोभा छे तुमने ॥हुप्रणु-२॥

मुद्रा सुन्दर दिपे ताहरी, मोह्या अमर नरनारी रे,
साहिब समता रसनोदरियो, मार्दव गुण नोभरियो ॥हु प्रणमु-४॥

सहजानन्दी साहिब साचो, जिनदोय हीरो जाचो रे,

परमात्मा प्रभु ध्याने ध्यावुं, अक्षरलीला पावो रे ॥हु प्रणमु-५॥

रक्त वर्ण दिपे तनु क्रांती, जोवाहवे भव भावे रे,

उत्तम विजय विवेकनों शिष्य, रतन विजय सुजगीश रे ॥हु प्रणमु-६॥

बारस का स्तवन

(तर्ज - पंथिडो निहालु रे बीजा जिन तणो रे)

पूजना तोकीजेरे बारमा जिनतणी रे, जसु प्रगटयो पूज्य स्वभाव
परकृत पूजा रेजे ईच्छे नही रे, साधक कारज दाव ॥पू. १॥

द्रव्यथी पूजारे कारण भावनोरे, भाव प्रशस्त ने शुद्ध

परम इष्ट वल्लभ त्रिभुवन धणीरे, वासुपूज्य स्वयं बुद्ध ॥पू. २॥

अतिशय महिमारे अति उपगारतार, निर्मल प्रभु गुण राग	
सुरमणि सुरघट सुरतरु तुच्छतैरे, जिन रागी महा भाग	॥पू ३॥
दर्शन ज्ञानादिक गुणआत्मनार, प्रभु प्रभुतालय लीन	
शुद्ध स्वरूपी रूपे तन्मयीरे, तसु आस्वादन पीन	॥पू ४॥
शुद्ध तत्व रसरगी चेतनारे, पामे आत्म स्वभाव	
आत्मालबी निजगुण साधतौरे, प्रगटे पूज्य स्वभाव	॥पू ५॥
आप अकर्ता सेवाधी हुवे रे सेवक पूरण सिद्धि	
निज धन न दिए पण आभित लहे रे, अक्षय अक्षर ऋद्धि	॥पू ६॥
जिनवर पूजारेतेनिज पूजनारे, प्रगटे अन्वय शक्ति	
परमानन्द विलासी अनुभवैरे, 'देवचन्द्र' पद व्यक्ति	॥पू ७॥

बारस का स्तवन

(तर्ज - शंत्रुजानो वासीप्यारो लागे मोरा राजिन्दा)

बारस दिन जिन पूजो भविरसिया पूजो भवि रसिया पूजो भवि	॥टेरा॥
द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव में, क्षय उपशम वर भाव फरसिया	पू १
जिन कल्याणक जगकल्याणक, आराधक गुण सहज विकसिया	पू २
सुद वैसाख विमल वद काती, नेमि च्यवन कल्याण सरसिया	पू ३
पद्यप्रभु वद काति सुपारस, जेठ सुदी जगजीव हरसिया	पू ४
पौष वदी चन्दाप्रभु शीतल, माघवदी सुख सहज वरसिया	पू ५
श्री श्रेयांस फागुण वदी बारस, जन्मकल्याणक पुण्य विलसिया	पू ६
माघसुदी अभिनन्दन शीतल, माघवदी निज आत्महुलसिया	पू ७
मुनिसुव्रत सुद बारस फागुन, दीक्षा दिव्य कल्याण दरसिया	पू ८
कार्तिक सुद बारस अतिसुखकर, श्रीअर जिनवर मोहविनसिया	पू ९

फागुनसुद वारस मुनिसुव्रत ज्ञान, कल्याणक कर्म करसिया	पू. १०
फागुनसुद मल्ली पारंगत, सुखसागर शिवनगर निवसिया	पू. ११
वारस भिक्षु प्रतिमा साधक, वारह अङ्ग सज्ज्ञाय सुरसिया	पू. १२
वारह नाम विराजत सिद्धि, सिद्धरूप भगवंत गुण लसिया	पू. १३
'जिनहरि' पूज्य दयामय सेवा, मेवा पा भविजन मनहसिया	पू. १४
जिनपद आराधक जन कीरति, सुमति 'कवीन्द्र' करेँ घसमसिया	पू. १५

आमावस्या का स्तवन

दोहा

वर्द्धमान महावीर को, शत् शत् मस्तक मोड ।

जब तक शशी सूरज वसे, वन्दन करूँ कर जोड ॥१॥

(तर्ज - छोटे से बालमा मेरे आँगन में गिल्ली खेले)

महावीर स्वामीजैसे वीर, जग में और नहीं है,

धीर-वीर गंभीर, जग में और नहीं है।

तप तपते महावीर, जग में और नहीं है,

कर्म काटन बडवीर जग में और नहीं है ॥टेर॥

मध्यान्हे चढयो सूर, भगवन गोचरी जावे,

घर घर याचना आहार, फिर भी वे नहीं पावे ॥१ महा॥

लियो अभिग्रह धार, हो सम्राट की कन्या १,

अविवाहित२ सदाचार३, निरपराधिनी४ हो धन्या ॥२ महा॥

हाथों में हो हथकडियाँ५ पाँवों में हो बेडी६

सिरके६ मुन्डे हो बाल, कच्छ८ लपेटी केडी ॥३ महा॥

तीन दिवस दिन रात९, हो वह भुखी बैठी१०

बाकुलाउडद का लैय११ भावेभावना सेठी ॥४ महा॥

- एक पैर देहलीवार, १२ एक भीतर को जानों
 आँखो मे '१३' आँसुधार, महा अभिग्रह जानो ॥५ महा॥
 चदना जो रही वाट, कोई अतिथि आवे
 आय गये महावीर, जिनके पूण्य सवार्ये ॥६ महा ॥
 अभिग्रह पूरण जान, किन्तु एक नही है
 लौट गये महावीर, फिर भी खेद नही है ॥७ महा ॥
 रोरही चन्दन बाल, प्रभु क्यो पाछा फिरिया
 आवो पधारो भगवन, सूप उडद से भरिया ॥८ महा ॥
 ज्ञानी ज्ञान से जान, आय गये है द्वारे
 चन्दना हो गयी धन्य, बहरे तारण हारे ॥९ महा ॥
 साढा बारह क्रोड, सोनैयों की वर्षा
 निर्वाण शताब्दी की भीड, देखी-"कान्ति"हर्षा ॥१० महा ॥
 "जिन हरि सागर सूरि" जिनके शरण में आया
 "पावापुरी" महावीर, "कान्ति सागर गुण गाया ॥११ महा॥

अमावस्या - स्तवन

- वीर सुणो मोरी वीनती, कर जोडी हो कहू मननी वात
 बालकनी परे वीनवू, मोरास्वामी हो तुम त्रिभुवन तात, वीर ॥टेरा॥
 तुम दरसण विन हू भय्यो, भवमाहे हो स्वामी समुद्र मझार ।
 दुख अनन्ता मै सह्या, ते कहता हो किम आवे पार, वीर ॥१॥
 पर उपकारी तू प्रभु, दुख भाजे हो जग दीनदयाल
 तिणतारे चरणेहुँ आवियो, स्वामी मुझनें हो निज नयण निहाली
 वीर ॥ २ ॥
 अपराधी पिण उद्धर्या, ते कीधीहो करुणा मोरा स्वाम
 हू तो परम भक्त ताहरो, तेणे तारो हो नही ढीलनो काम वीर ॥३॥

- शूलपाणि प्रतिबूझंय्या, जिण कीधा हो तुजनेउपसर्ग
 डंक दियो चण्डकोसिये, ते दीधो हो तसु आठमो सर्ग, वीर ॥४॥
- गोशालो गुण हीबडो, जेणे बोल्या हो तोरा अवरणवाद
 ते बलतो तेंराखीयो, शीतलेश्या हो मूकी सुप्रसाद वीर ॥५॥
- ए कुण छे इन्द्रजालियो, इम कहिता हो आयोतुम तीर
 ते गौतम ने ते कियो, पोतानो हो प्रभुतानोचजीर, वीर ॥६॥
- वचन उत्थाप्या ताहरा, जे झगड्यो हो तुझ साथ जमाल
 तेहने पिण पनरे भवे, शिव गामी हो कीधो ते कृपाल, वीर ॥७॥
- एमतो रिषिजे रम्यो, जलमांहे हो बांधीमाटीनी पाल
 तिरती मूकी काचली, तेतार्यो हो तेहने तत्काल, वीर ॥८॥
- मेघकुवर रिषी दूहव्यो, चित चूको हो चारित्र धी अपार
 एकावतारी तेहने, ते कीधोहो करूणा भंडार वीर ॥९॥
- बार बरस वेश्या घरे, रह्यो मूकी हो संयमनो भार
 नंदीषेण पिण ऊधर्यो, सुरपदवी हो दीधी अतिसार वीर ॥१०॥
- पंच महाव्रत परिहरी, गृहवासे हो वसियो वरस चौवीस
 ते पिण आद्रकुमारने, तेतारयोहो तोरी एह जगीश वीर वीर ॥११॥
- राय श्रेणिक राणी चेलणा, रूप देखी हो चित चुका जेह
 समवसरणसाधु साधवी, ते कीधा हो आराधिक तेहवीर ॥१२॥
- विरति नहींनहीं आखडी, नही पोसोहो नही आदरी दीख
 ते पिण श्रेणिक रायने, ते कीधो हो स्वामी आप सरीक ॥१३॥
- इम अनेक ते उधर्यो, कहूँ तोरा हो केता अवदात
 सार करो हवे माहरी, मनमांहे, हो आणोमोरडी बात, वीर ॥१४॥
- सूधो संजम नवि पले, नवि तेहवो हो तुझ दरसण नाण
 पिण आधार छेएटलो, एक तारो हो घरुं निश्चल ध्यान वीर ॥१५॥

मेह महितल वरसता, नवि जोव हा सम विपमी ठाम
 गिरूआ सहिजेगुण करे, स्वामी सारो हो मोरा वाच्छितकामवीर ॥१६॥
 तुम नामे सुख सपदा, तुमनामेहोदुख जाव दूर
 तुम नामे वाच्छित फले, तुम नामहा मुझ आणन्द पूर, वीर ॥१७॥

कलश

इम नगर जेसलमेर मडण, तीर्थकर चौवीसमो
 शासनाधीसर सिंह लछन, सेवता सुरतरु समो ॥
 जिनचन्द त्रिशला मात नन्दन, 'सकलचन्द' कलानिलो
 वाचनाचारज "समय सुन्दर" सधुण्यो त्रिभुवन तिलो ॥१८॥

पूर्णिमा स्तवन

(मै वन की चिडिया वन के वन डोलू रे)

घन आज पूर्णिमा पावन जिन जय बालू रे
 जिनदव प्रितिष्ठित निज मन मदिर खालू र ॥ १८ ॥
 प्रभु हृदय सिहासन राजें, जहाँ अनहद बाजा बाजें
 एकान्त भाव परमात्म दाव, सुख सागर जिन जय बालू र ॥ १९ ॥
 पूनम दिन पुण्य प्रभाते, जिन कल्याणक जन गाते
 कट जाय फद आनन्दकद, जयकारी जिन जय बालू र ॥ २० ॥
 आसोज की पूनम भारी, च्यवते सुविधि सुखकारी
 होत अशोक तीनो ही लोक, हितकारी जिन जय बालू रे ॥ २१ ॥
 श्रावण पूनम सुव्रत जिन, च्यवते जानो वह घनदिन ।
 फैला प्रकाश, शुभ गुणविकास, कारक श्रीजिन जय बालू रे ॥ २२ ॥
 मिगसर पूनम जिन सभव, दीक्षा ले चहते भव दव ।
 श्री वीतराग निज गुण पराग, विस्तारक जिन जय बालू र ॥ २३ ॥

(१००)

- प्रभु धर्म पोष पूनम मे, कर करम घात जीवन में ।
केवल विलास अनुपम उज्जास, फेलाते जिन जय वोलूं रे ॥६॥
आराधक जन अभिरामी, सुख भोगेसुगति गामी ।
पूनम विवेक आदर्श एक, उपकारी जिन जय वोलूं रे ॥७॥
पूनम दिन महीना पूरण, जिन दर्शन आशा पूरण ।
तज राग रोष जीवन अदोष कर, प्रभुवर जिन जय वोलूं रे ॥८॥
पूनम सिद्धाचल वन्दन, कर्मो का करे निकंदन ।
साधु अनंत शिवपद लसंत, पायेनित जिन जय वोलूं रे ॥९॥
श्री जिनहरि पूज्य दयालु, आराधूं आज्ञा पालूं ।
देवाधिदेव मन शुद्ध सेव, निर्भय हो जिन जय वोलूं रे ॥१०॥
रवि शशि ज्योति से बढकर, पाऊ में ज्योति विशद वर ।
सुमति 'कवीन्द्र' गावे अतन्द्र, परमेश्वर जिन जय वोलूं रे ॥११॥

सिद्धाचलना स्तवन

चालो चालो ने जईये सोरठ देशमा रे,
ज्यां पुण्डरिक गिरी प्रख्यात,
नमो नेह धरी गिरिराजने रे, ए तरण तारण तीर्थ जाणिए रे,
गिरी महिमा अपरम्पार ॥ नमो ॥ १

साखी

अनन्त मुनिवर ए गिरि, वरिया शिववधु नार,
वलि अनन्ता अहिंसा, कने पामशो भवनोपार,
नव संदेह एमां अंश रे, जेनी शास्त्रमां छे घणी साख ॥ नमो ॥ २

साखी

अठार कोडाकोडी सागरू नाभि राय कुलचन्द,
प्रथम धर्म चलावतां मरूदेवानो नन्द,

(१०१)

लाख त्याशी पूरब घरमा रही रे,
प्रभु देता वरसी दान

॥ नमो ॥ ३

साखी

राज भलावी भरते ने, लेवे सजुम भार,
वरसी तपनु कर्युं पारणु, श्री श्रेयास कुमार
लेवो शेरडी रस प्रभु सुजतो रे
रूडी अक्षय तीज मनोहार

॥ नमो ॥ ४

साखी

प्रथम जिनेश्वर आव्या पूर्व नवाणुवार,
रायण हेठे समसर्या, किधो गिरिविस्तार,
सुणी भरत सघलई आचतारे,
तीर्थ फरसीने करता उद्धार

॥ नमो ॥ ५

साखी

चैत्री पूनम ने दिने, पाँच क्रोड मुनिसार,
पुण्डरिक गणधर ए गिरि झाल्लो शिववधु हाथ,
एथी पुण्डरिक गिरि नाम स्थापियो रे,
इहा तीथपति श्री आदिनाथ

॥ नमो ॥ ६

साखी

प्रथम प्रभुजीरा पोतरा, द्राविड ने वारिखिल्ल,
सिद्धाचल सिद्धिवर्या कार्तिक पूनम दिन,
प्रभु शान्ति अजित दाय जणा रे,
आची चातुर्मास तीहा कीध

॥ नमो ॥ ७

साखी

फागुण सुदनी दशमें, नमि विनमी वे जोड,
अणसण करीने शिव वर्या साथे मुनि वे क्रोड,

(१०२)

सिद्धथया पच्चीश अणगारथी रे,
पाञ्चे पाण्डव ए गिरिराज

॥ मनो ॥ ८

साखी

नमि पुत्री चौसठ कही करती आतम ठाम,
चैत्र वदनी चौदशे, पामी अविचल धाम,
राम, भरत मुनि त्रण कोड शुं रे,
कर्म कापी पाम्या शिवराज

॥ नमो ॥ ९

साखी

फागुण उजली तेरशे श्याम प्रद्युम्न कहेवाय,
साडी आठ क्रोड मुनिवरू शत्रुंजय शिवपुर जाय,
छेल्ला नारद एकाणु लाखथी रे,
गिरि उपर वर्या शिवनार

॥ नमो ॥ १०

साखी

गई चोविशी ना प्रभु बीजा निर्वाणी नाथ
कदम्ब गणधर क्रोडशु भरत मुक्ति में जाय
तेने कदम्ब गिरि बोलता रे,
जेना नाम थी नव नीध थाय

॥ नमो ॥ ११

साखी

एम असंख्य मुनिवरू ए तीर्थ मोझार
सिध्याने वलि सिद्धसे महिमा अपरम्पार
भाखे दान दया पन्यासनो रे
शिष्य सौभाग्य विमल सुखकार

॥ नमो ॥ १२

नन्दीश्वर द्वीप का स्तवन

- नन्दीसर वावत्र जिनालय, शाश्वता चौमुख सोहे रे ।
 वृषभानन चन्द्रानन वारिपेण, वर्द्धमान मन मोहे रे, न ॥८॥
 आठमा द्वीप नन्दीसर अदभुत, बलयाकार विराजे रे
 तेहने मध्ये चिहु दिशि शोभित, अञ्जनगिरिवर छाजे रे, न ॥९॥
 जोयण सहस्र चौरासी ऊचा, उचपणे अभिरामा रे
 मूल पृथुल सहस्र दश जोयण, उर्वरा सहस्र इक श्यामा रे न ॥१०॥
 ते उपर प्रासाद प्रभूना, अति उतग उदारा रे ।
 साधु जघा विधाचारण, वान्दे विविध प्रकारा रे न ॥११॥
 चैत्ये चैत्ये एक सा चौबीस, विम्ब सख्या सवि दाखी रे
 ध्यावासवा भविजन । भक्त शुद्ध आगम करि साखी रे न ॥१२॥
 ऊचपण सह जायण बहुतर, साजायण आयामा रे
 पिहुलपण पच्चास जायणना, प्रभु प्रासाद सुठामा रे न ॥१३॥
 धनुष पांचस आयत प्रभुनी, विविध रतन मय काया रे
 जिन कल्याणक उच्छव करवा, सुरपति भगत आया रे न ॥१४॥
 अजन अजन चिहु गिरी उपर, चौमुख वावि विशाला रे
 वावि वावि विच इक इक परवत, राजत रडगरसाला रे न ॥१५॥
 चौसठ सहस्र जायण उत्तङ्ग, दश सहस्र सम पिहुला रे
 चिहु दिशि साल साह दधिमुखगिरि, तिहाँ प्रासाद सुविमला रेन ॥१६॥
 वावि वावि न अन्तर विदिशे, रतिकर परवत रूडारे
 दाय दाय सख्या जगदीश, कहा नही ए कूडा रे न ॥१७॥
 जायण सहस्र मान दश ऊचा, दस, सहस्र विस्तारा रे
 झल्लरी सम सठाण जगतगुरू, निश्चय ए निराधार रे न ॥१८॥

ते उपर प्रासाद सतोरण, अंजन गिरि परिमाणे रे	
जिन प्रतिमानी संख्या तेहिज, श्री जिनराज बखाणे रे	नं. ॥११॥
इम प्रासाद प्रभूना बावन, नन्दीसरवर द्वीपे रे	
द्रव्य भावविधिपूजा करतां, मोह महाभड जीपे रे	नं. ॥१२॥
प्रवचन सार उद्धार प्रकरणे, जीवाभिगमे जाणो रे	
इम अधिकार छे ग्रन्थ अनेके, इहाँ शंका मत आणो रे	नं. ॥१३॥
जिम सुरपति विरचे तिहाँ पूजा, ते अनुभव इहाँ ल्यावो रे	
ध्यावो जिम पावोपरमातम 'जैनचन्द्र' गुण गावे रे	नं. ॥१४॥

तीर्थ वन्दना स्तवन

(तर्ज - महावीर तारा...)

भरत क्षेत्र मेंभविजन प्राणी तीर्थ है सर्व श्रेष्ठ रे	
कर्म निकाचित तोडो बन्धु, यात्रा करो शुद्ध भाव रे	॥ टेर ॥
सिद्धगिरि महा पर्वतपर, आदिश्वर भगवानजी	
सर्व तीर्थ का राजा है, वह सिद्ध हुये अनन्तजी	
करो यात्रा कंचन गिरीकी, पाप सभी पलाय रे..... भरत १	
सम्पेत शिखर तीर्थ है प्यारा, पार्श्वनाथ भगवान जी	
बीस तीर्थकर मोक्ष सिधाये, महिमा अपरम्पार जी	
बीस टुंको की छविनिराली, दर्शन कर सुख पाय रे..... भरत २	
सौरठ देश मे गिरनार तीर्थ, नेमिनाथ भगवानजी	
पशुओ का बंधन है तोडा, छोडी राजुलनार जी	
सयंम लेकर कर्म खपाये, पायाहै शिवधाम रे भरत ३	
चम्पापुरीनगरी है सुहानी, वासुपूज्य भगवान जी	
दर्शन कर दिल झुम उठा है, प्रतिमा है मनुहारी जी	

- यश सौरभ निजका फैलाहै, सूर्य चन्द्र सम तेज र भरत ४
 हस्तिनापुर नगर अनुपम, शान्ति नाथ भगवान जी
 चक्रवर्ती तीर्थकर पदवी, पाई है एक साथ जी
 मरकी रोग मिटाया प्रभुजी, शान्ति जग फैलाय रे भरत ५
 कछ दशमें भद्रेश्वर तीर्थ, मदिर देव विमान जी
 जीवित विष्व महावीर प्रभुका, देख दिल हर्षाय जी
 जैसे फूलों में सुवास सुगन्धित, वैसा ही तीर्थ महानजी भरत ६
 पावापुरी क जलमंदिर में, महावीर भगवान जी
 उसी घरा पर निर्वाण पाय, गौतम केवल ज्ञानजी
 चन्दन बाला अर्जुनमाली, तारिया नर और नार जी भरत ७
 प्रथम तीर्थकर अष्टापद पर, मुक्ति महल मेंजाय जी
 सुरज किरण हाथ मेंकर, चढिया गौतम स्वामी जी
 रावण नें तीर्थकर गौत्र, प्रभु भक्ति स पाय जी भरत ८
 जिन शासन क शुभ उपवन में, फूल खिले अनन्त जी
 कान्ति सुरि कह तु वितरागी, करुणा क भडार जी
 प्रम सुलाचन प्रभु चरणा में, सदा मस्तक नमाय जी भरत ९

दीपावली का स्तवन

- मेरे दिल में विरह केआसु बह गये
 गौतम बोलेवीर क्यो रूठ गये ॥ ८ ॥
 हृदय मदिर में बसाया था प्रभु
 न जाने मुझको प्रभु क्यो छोड गये ॥ ९ ॥
 तीस वर्ष की आयु में सयम धार लिया
 तप वैराग्य ध्यान में मन लगा गये ॥ १० ॥

अंतिमचौमासा पावापुरी प्रभुने किया	
सोलह प्रहर की दिव्य देशना दे गये	॥ ३ ॥
कार्तिक अमावस स्वाति नक्षत्र रातको	
प्रभु मोक्ष नगरी में सिधा गये	॥ ४ ॥
कोलाहल देवो का चारो ओर मचा	
सब के मुख पर दुख केबादल छा गये	॥ ५ ॥
आज तुम बिन भारत सुना हो गया	
विरह वेदनाके झरने बह गये	॥ ६ ॥
प्रभु मुझे क्यो दूर अंतिम में किया	
मेरे दिल के अरमान तोड गये	॥ ७ ॥
महावीर का अस्तित्व विलीन हो गया	
दिव्य जीवन प्रेरणा स्रोत बन गया	॥ ८ ॥
गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया	
ज्ञान दीपक जग में जगा गये	॥ ९ ॥
केवल ज्ञान केप्रकाश में वीर को देख लिया	
अब तो दर्शन शाश्वत हो गये	॥ १० ॥
आज आत्मा में असंख्य दीप जल गये	
कान्ति सुरि केप्राण पुलकित हो गये	॥ ११ ॥
प्रभु चरणो में जीवन समर्पित कर दिया	
'प्रेम सुलोचना' प्रभु भक्ति में लग गये	॥ १२ ॥

दिपावली का स्तवन

आई आई जन मन भाई आज दिवाली आई रे
वीर प्रभु निर्वाण जयन्ति जय वरताई रे ।

- तीस बरस घर वासी, स्वामी बारे बरस अणगारी रे
 तीस बरस केवल पद भोगी वीर प्रभु जयकारी रे २
- बयालिसवी चौमासी प्रभुवर पावापुर में ठाई रे
 हस्तिपाल नृप जीर्णशाला, की शोभा सवाई रे ३
- निज अनन्य पद सेवी गणधर गौतम गुण भडारी रे
 विप्रदेव शर्मा प्रितबोधन हित भेजे अधिकारी रे ४
- सोलह पहर तक दिव्य देशना वाणी सुधा बरसाई रे
 बडभागी भविजन सिद्धि सहज उपाई रे । ५
- काति आमावस स्वाति नक्षत्र शैलेशी निद्धारी रे
 पूनर भवि निर्वाण धाम में स्थिति स्वीकारी रे ६
- निर्वाणोत्सव कारण कलकल करता सुरवर आवे रे
 काली निशा में उनकीज्योति जगत में छावे रे ७
- लौट रहे गौतम स्वामी सुन खेद हृदय में धारे रे
 हा हा प्रभु सिधाये मुझको तजकर किसके सहारे रे ८
- साथ ले चलते भार न होता तग मैं नहीं करता रे
 अत समय यो दूर कियादिल धीर न धरता रे ९
- दुनियादारी का भी हा हा ख्याल प्रभु नहीं किना रे
 मनकी बात करू अब किससे मैं हु दीना रे । १०
- सुरता पलटी गुरू गौतम की केवल ज्ञान उपावे रे
 वीर प्रभु के पटधर घर घर जय मंगल बरतावे रे । ११
- सुखसागर भगवान परमहरि पूज्य महोदय शाली रे
 लौकिक लोकोत्तर प्रभु ध्याऊ धन्य दिवाली रे १२

स्तवन

(देशी - नयनो में आकार बसना पारस वेकरार हे । तर्ज)
मेरा एक ध्यान है श्री चौवीसो भगवानो का ही एक ध्यान है
श्री ऋषभ अजित जिन नामी
संभव अभिनन्दन स्वामी
सुमति पद्म सुपास है, चन्दा प्रभु वंदो भावे, मेरा. ॥मेरा॥ १ ॥
सुविधि शीतल श्रेयासां
वासुपूज्य विमल अवंतसा
अनन्त धर्म नाथ है, शान्ति ॐ शान्ति..... ॥मेरा॥ २ ॥
कुथु अर मल्लिनाथा
मुनिसुव्रत शिवपुर साधा
नमि अरिष्ट नेम है, पारस पावन रसधारी ॥मेरा॥ ३ ॥
शासन पतिगुण गंभीरा
श्री वर्द्धमान महावीरा
प्राणाधार सार है तीर्थकर तारण हार ॥मेरा॥ ४ ॥
वृष गज घोडा कपि जानो
है क्रोंच कमल परमाणो
स्वस्तिक, स्वस्तिकार है, आगम के अनुसार ॥मेरा॥ ५ ॥
हे चन्द्र मकर श्री वत्सा
खड्गी महिष प्रशस्ता
बराह स्येन वज्र है, मृग छाग नन्द्यावर्त ॥मेरा॥ ६ ॥
घट कूर्म नील कज शंखा
फणिसिंह सुलांछन चंगा

अतिकष्ट जेशलमेर में आया, मन में हर्ष भराया
जिनवर दर्शन कर सुख पाया, आनन्द आनन्द छाया जी ॥जे.॥५॥
कोट किला पर जिनवर मंदिर, देव भुवन अनुसार
देखत देखत मन हर्षायो, रचना है अति सार जी ॥जे.॥६॥
वीर प्रभु आदिश्वर भेटया, संभव जिन सुखकारी
पार्श्व सुपार्श्व चिन्तमणि भेटया, मंदिर सात अति भारी जी ॥जे.॥७॥
विच विच विंम्व अनेक विराजे, हारोहार प्रभु शोभे
वासुपूज्य जिनवर मंदिर, स्फटिक आणि चौमुखा जी ॥जे.॥८॥
जौ जितना मंदिर तिल जितनी प्रतिमा सुन्दर शोभे
दर्शन करके मन हुलसायो, जिनवर की दलिहारी जी ॥जे.॥९॥
सुखकारी भगवान उपकारी, लक्ष्मी शिव सम्पत्त प्यारी
'प्रेम' प्रभु से अर्ज गुजारी, शरणे राखो प्रभु तिहारी ॥जे.॥१०॥

होली स्तवन

(तर्ज-आज आनन्द बहार रे)

रङ्ग मच्यो जिनद्वार रे, चालो खेलिये होली
पार्श्वनाथ दरवार रे, चालो खेलिये होली
फागुण के दिन चार रे, चालो खेलिये होली ॥टेर॥
कनक कचोले केसर धोली, पूजा विविध प्रकार रे ॥चालो.॥१॥
लाल गुलाल अवीर उडावो, पार्श्व प्रभु दरवार रे ॥चालो.॥२॥
भर पिचकारी गुलाब की छिडको, चामा देवी कुमार रे ॥चालो.॥३॥
कृष्ण अंगर धूप कोघटतहे, परिमल महके अपार रे ॥चालो.॥४॥
ताल मृदङ्ग वीणा डफ वाजे, भेरी भूंगल रणकार रे ॥चालो.॥५॥
सब सखियाँ मिल नाटक करके. गावे मंगल सार रे ॥चालो.॥६॥

'रत्नसागर' प्रभु भावनाभावे, मुख बोले जयकार रे ॥चालो ॥७॥

विस स्तवन

(तर्ज - विना प्रभु पार्श्व केदेखे मेरा दिल बेकरारी है)
 नमू जिन देव जयकारी, हृदय शुद्ध भाव लाकर के
 जपू नित नाम की माला, हृदय शुद्ध भाव लाकर के ॥ टेर ॥
 तिरावे तीर्थ कहलाता, प्रभुजी आप तीर्थकर
 में आऊ आपतक कैसे, हृदय शुभ भाव लाकर के ॥नमू॥१॥
 प्रभुजी बीस धानक तप, तपाता आठ कर्मों को ।
 अविधि साधे कहोकैसे, हृदय शुभ भाव लाकर के ॥नमू॥२॥
 जिनेश्वर आप ज्योतिर्मय, महा अधेर हरते हे ।
 सुज्योति पाऊ मैं कैसे? हृदय शुभ भाव लाकर रे ॥नमू॥३॥
 प्रभु अरिहत के स्वामी, सुनामी सिद्ध सुखकारी
 वनू सुखिया यहा कैसे? हृदय शुभ भाव लाकर के ॥नमू॥४॥
 अगम सुख सिन्धु हे भगवन परम हरिपूज्य उपकारी
 मिलु मैं आपसे कैस हृदय शुभ भाव लाकर के ॥नमू॥५॥

नवपद का स्तवन

(तर्ज चिरमो रा डाला चार)

सब मत्रो में श्रेष्ठ है ओ मत्र बडो नवकार
 चारी जाऊ मत्र ने ॥ टेर ॥
 पद पहिलो अरिहन्त नो, ओ अरिदल नाशन हार चारी ॥१॥
 दूजो पद श्री सिद्ध नो, कर्मो ने देवेहार चारी ॥२॥

पद तीजे आचार्य जी, जिन शासन रा रखवार वारी	॥३॥
चौथे पद उपाध्याय जी, एक पाठक आगम सार वारी	॥४॥
पंचमे पद शुद्ध साधुजी, ए जगतरा तारण हार वारी	॥५॥
पांचो पदने सुमरता, हट जावे पाप रो भार वारी	॥६॥
मंत्र जपो श्री पाल जी, तो कुष्ट रोग मिट जाय वारी	॥७॥
सति सोमा जब सुमरियो, तो सर्प हुआ पुष्प हार वारी	॥८॥
रोग शोक विपदा मिटे, ए इणरा हैं चमत्कार वारी	॥९॥
काम क्रोध मद लोभ ने, धे छोड भजो नवकार	॥१०॥
दृढ मन श्रद्धा सुजपो, उत्तरोल्ला भव से पार वारी	॥११॥
कान्ति सागर सुरिजी यु केवे सुणावे मंत्रनो सारवारी	॥१२॥

। नवपदजी का स्तवन

(तर्ज मिलो न तुमतो)

हृदय कमल में ध्यान धरो तुम सिद्ध चक्र आधार	
नव पद गुणगाले रे	॥ टेर ॥
इस विश्वमें नवपद महिमा अनन्त है	२
यंत्रो में भी सर्वश्रेष्ठ सिद्ध चक्र है	
मंत्रो मेंभी सर्वश्रेष्ठ नवकार मंत्र कहलाया	१
ज्ञानावरणीय क्षय से अनन्त ज्ञान प्राप्त है	
दर्शनावरणीय क्षय से अनन्त दर्शन प्राप्त है	
मोहनीय कर्म को दूर करके, वीतराग पद पाया	२
अन्तराय क्षय से अनन्त वीर्य शक्ति प्राप्त है	
नाम क्षय से आत्म स्वरूप अब प्राप्त है	
वेदनीय क्षय से अव्यावाध, शाश्वत सुख ही पाया	३

आयुष्य क्षय से जन्म मृत्यु का अभाव प्राप्त है

गोत्र क्षय से आत्मअगुरु लघु प्राप्त है

सभी कर्मों को क्षय करके अक्षय गुण प्रगटाया

४

अरिहत पद तो वारह गुणोंसे अलंकृत है ।

सिद्ध पद तो अष्ट गुणों से सुशोभित है ।

अरिहत सिद्ध की आराधना से हृदय कमल खिलाया

५

आचार्य पद तो छत्तीस गुणोंसे, देदिप्यमान है

उपाध्याय पद तो पच्चीस गुणोंसे ज्ञान निदान हे

साधु दर्शन ज्ञान चारित्र तप, इस जग में लहराया

६

मैना सुन्दरी के अपूर्व, ज्ञान तप त्याग से

कुष्टरोग सब दूर हुआ श्रद्धा भाव से

श्रीपाल राजा कचन जैसी काया को अपनाया

७

श्रीपाल मैना सुन्दरी धर्म में अटूट श्रद्धावान थे

आत्म निर्मल पवित्र, यश कीर्तिमान है ।

ऐसी अपूर्व साधना से, भव नवमें मोक्ष सिद्धाये

८

सुखसागर हरि कान्ति आत्म मे लहराये है

प्रेम सुलोचना भक्ति सेज्योति प्रगटाये है

नवपदही दुख का निवारण, वोलो जय जय कार

श्री महावीर - स्तवन

माता त्रिशला झुलावे पुत्र पालणे

गावे हालो हालो हालर वाना गीत ।

सोना रूपाने वली रतने जडियु पालणु

रेशमदोरी घूघरी, वागे छुम छुम रीत ।

हालो हालो हालो, हालो मारा नन्दने

॥हालो॥ १ ॥

- जिनजी पार्श्व प्रभु ना, वरस अढीसे अन्तरें,
 होशे चौविशमो, तीर्थङ्कर जिन परमाण ।
 केशी स्वामी मुख धी, एवी वाणी साँभली,
 साची साची हुई ते मारे अमृत वाण ॥हालो॥ २ ॥
 चौदे स्वप्ने होवे, चक्री केजिनराज
 बीता वारे, चक्री, नही होवे चक्रीराज ।
 जिनजी पास प्रभुना, श्री केशी गणधार,
 तेहने वचने जाण्या चौविशमा जिनराज ॥हालो॥ ३ ॥
 मारी कूखें आव्या, तारण तरण जहाज,
 मारी कूखें आव्या त्रण भुवन शिरताज ।
 मारी कूखें आव्या, संघ तीर्थ नी लाज,
 हुं तो पुण्य पनोती, इन्द्राणी धई आज ॥हालो॥ ४ ॥
 मुझने डोहलो उपन्यो, जे वेसुं गज अंबाडिये,
 सिंहासन पर वेसुं, चामर छत्र धराय ।
 ए सहु लक्षण मुझने नन्दन ताहरा तेजना,
 ते दिन संभारूने, आनन्द अंग न माय ॥हालो॥ ५ ॥
 करतल - पगतल लक्षण, एक हजार ने आठ छै,
 तेहथी निश्चय जाँण्या, जिनवर श्री जगदीश ।
 नन्दन जमणी जाँघे, लज्जन सिंह विराजतो,
 मैं पहिले सुपने दीठो विसवा वीश ॥हालो॥ ६ ॥
 नन्दन नवला बंधन, नन्दीवर्द्धनना, तमे,
 नन्दन भोजाईयोना, देवर छो सुकुमाल
 हशे भोजाईयो कहेशे देवर माहरा लाडका
 हंशे रमसेनेवली, चूंटी खणशे गाल
 हसशे रमसेनेवली, टूसा देशेगाल ॥हालो॥ ७ ॥

नन्दन नवला चेडा, राजाना भाणेज छो
 नन्दन नवला पाचशे, मामीना भाणेज छो
 नन्दन मामलियाना, भाणेजा सुकुमाल
 हसी हाथे उच्छाले, कहीने न्हाना भाणजा
 आख्ये आजी ने वली, टवकु करशे गाल ॥हालो॥ ८ ॥
 नन्दन मामा मामी, लावशे टोपी आगलाँ
 रतने जडिया झालर, मोती कशवी कोर ।
 नीला पीलाने वली, राता सरवे जातीना,
 पहेरावशे मामी, म्हारा नन्द किशोर ॥हालो॥ ९ ॥
 नन्दन मामा भाणी, सुखडली सहु लावशे
 नन्दन गजुवे, भरसे लाडु मोतीचूर
 नन्दन मुखडा जोईने, लेशे मामी भामणा,
 नन्दन मामी कहेशे, जीवो सुख भरपुर ॥हालो १० ॥
 नन्दन नवला चेडा, मामानी साते सती
 मारी भत्रीजी ने, वेन तमारी नन्द
 ते पण गजुवो भरवा, लाखण साई लावशे
 तुमने जोई जोई, होशे अधिको परमानन्द ॥हालो ॥११
 रमवा काजे लावशे, लाख टकानो घू घरो
 वली शूडा मेना, पोटपने गजराज
 सारस हस कोयल, तीतर नेवली मोरजी
 मामी लावशे रमवा, नन्द तमारे काज ॥हालो ॥१२ ॥
 छप्प कुमरी अमरी, जल कलशे नवरावीआ
 नन्दन तमने अमने केली घरनी माह
 फूतनी वृष्टि कीधी, योजनएकने मण्डले
 बहु चिरजीवाआशीष दीधी तुमने त्याहे ॥हालो ॥१३ ॥

तमने मेरू गिरिवर, सुरपतिये नवरावीया

तमनेनिरखी हरखी, सुकृत लाभ कमाय

मुखडा उपर वारू कोटी कोटि चन्द्रमा

वली तन पर वारूं ग्रहगणनो समुदाय ॥हालो.॥१४॥

नन्दन नवला भणवा, नीशाले पण मुकशु

गज पर अम्वाडी, वेसाडी म्होटे, साज

पसली भरशुं श्रीफल बावी, फोफल नागर वेलशुं

सूखडली पण लेशुं, नीशालीआने काज ॥हालो.॥१५॥

नन्दन नवला महोटा, थाशोने परणावशुं

वहु वर सरखी जोडी, लावशुं राजकुमार

सरखा वेवाई, वेचाणुने पधरावशुं

वर बहु पोखी लेशु, जोई जोईने दीदार ॥हालो.॥१६॥

पीअर सासर मारा, वेहु पक्ष उजाला

मारी कूखे आव्या, तात पनोता नन्द

म्हारे आंगणे वूठा अमृत दूधे मेहुला

म्हारे आंगणें फलिया, सुरतरू सुखना कन्द ॥हालो.॥१७॥

इणि परे गायुं माता, त्रिशला सुतनुं पालणुं

जे कोई गाई लेशे पुत्र तणा साम्राज

बिल्ली मोरा नगरे, वरणव्युं वीरनुं हालरूं

जय जय मङ्गल हो जो 'दीपविजय' कविराज ॥हालो.॥१८॥

पर्वाधिराज - पर्युषण - स्तवन

करलो करलो रे थे भविजन प्राणी, शिव सुख वरलो रे,

पर्युषण करलो रे

॥ टेरे ॥

- सब सुरवर मिल निज निज भक्त, द्वीप नदीश्वर जावे रे ।
 आठ दिवस अट्टाई महोत्सव, कर सुख पावे रे ॥१॥
 तिम भविप्राणी आत्म शक्ते, धामिक कार्य आराधो रे ।
 जिनवरजीकी पूजा करके, शिव सुख साधो रे, पर्यूपण ॥२॥
 विविध प्रकारे पूजा रचावो, समकित निर्मल करलो रे ।
 आगी भावना मन शुद्ध करके, भवजल तरलो रे, पर्यूपण ॥३॥
 आठ दिवस अट्टाई तपस्या, करके काज सुधारो रे ।
 जैन धर्म की महिमा करके, वान वधारो रे, पर्यूपण ॥४॥
 हाथी, घोडा और पालखी, रथ कीतैयारी करावो रे ।
 वस्त्राभूषण सजकर भविजन, मगल गावो रे, पर्यूपण ॥५॥
 बाज गाजसब मिल गोरी, गुरु के पास जावो र
 कल्पसूत्र को लेकर माथे, हाथे धरावो र पर्यूपण ॥६॥
 घर ल जावो रात्रि जगावा, ज्ञान की भक्ति करावो र
 सर्व शहर में फिर कर गुरु के पास लावो रे पर्यूपण ॥७॥
 कल्पसूत्र की पूजा करक, वाचना नवको सुनला रे
 मधुरी वाणी गुरुमुख प्राणी, अमृत पीला रे पर्यूपण ॥८॥
 जिन चरित्र ने और पटावली, समाचारी भावे रे
 तीन अधिकार आदि से, सुने वा मुक्ति में जावे रे पर्यूपण ॥९॥
 अट्टाई उपवास करा भवि, बड कल्परो बेलो रे
 सवत्सरी को तेलो करक, बार सा झेलो रे पर्यूपण ॥१०॥
 मूल पाठकोएक चित्त सुणी न, चैत्य प्रवाडी जावो रे
 माहन मुद्रा जिनवर निरखी, अति हरखावा रे पर्यूपण ॥११॥

अभय अमारी पडह बजावो, दान सुपात्रे देवो रे
अनुकम्पा कर जीवो उपर, प्रेम जगावो रे पर्यूषण ॥१२॥

नवविध ब्रह्म गुप्तिको धारो, भावना मन शुद्ध भावो रे
दोय टंक पडिक्कमणो करिने, पाप भगावो रे पर्यूषण ॥१३॥

संचत्सरी पडिकमणो करिने, जीव चौरासी खमावो रे
'अपराधी को माफी देकर, अति हर्षावो रे पर्यूषण ॥१४॥

'तिवरी' गाम चौमासे रहकर, पर्व पर्यूषण ध्याया रे
संवत उन्नीसे अस्सी वर्षे, 'हरि' गुण गाया रे पर्यूषण ॥१५॥

श्री गोडी पार्श्वनाथ बृहत्स्तवन

दोहा श्री जिनवदन निवासिनी, सरस्वती समरेह ।
तीर्थकर तेवीसमा, गुण गाइश गुणगेह ॥१॥
गुण गिरूवाँ गौडी तणा, गाजे गौडी राय ।
संकट हरण संपत्ति करण, समर्या करे सहाय ॥२॥
समकाले प्रतिमा तिहॉ, शुभ मुहूर्त शुभ वार ।
महिमा पसारी महितले प्रगटी पाटण मझार ॥३॥
परचा श्री प्रभु पार्श्वना प्रगट थई प्रतिमादि
मति साखुंहुं छोड मद, आखिस गुण धरि आल्हादि ॥४॥

ढाल-१

देशां सहु शिर देश छे काशी, नगरी बनारसी वासी रे ।
जिनवर जय कारी, हूँ जाऊँ जेहनी चारी रे, जिन. ॥टेर॥
राज्य करे अश्वसेन नरिन्दा, तेज रूपे अभिनव इन्दा रे, जि ।
गुण की खानी मीठी वाणी, ब्रह्म धारिणी वामा राणी रे जि. ॥१॥

जेहनी कूखे प्रभु अवतरिया, तेज रूप सगुण परिवरिया, जि ।
 पोष वदी दशमी दिन प्रभु जाया, तेज रवि तेज हराया रे जि ॥२॥
 छप्पन दिक् कुमरी मली गावे, क्षण एक नारकिया सुख पावे रे जि ।
 जन्म महोत्सव इन्द्रो कीनो, तिहाँ पार्श्व कुमार नाम दीनो रेजि ॥३॥
 यौवन वय कन्या परणाई, प्रभावती जाम कहाई रे, जि ।
 वैरागी प्रभु सयम लीनो, पामी कबल अक्षय पद लीनो रे जि ॥४॥
 सौ वर्षो का प्रभु आयुष्य पाली, प्रभुपचमी गति सभाली रे जि ।
 अनन्त दर्शन ज्ञान अरूपी समता धरी सिद्ध स्वरूपी रे जि ॥५॥
 ज्योति रूप जन्म क्षय कीनो अजर-अमर पद लीनो रे जिन ।
 पूजीये प्रभु ठामो ठामे, गौडी राजे प्रभु गौडी गामे रे जि ॥६॥
 सुण भवियण तुम गौडी केरा, शुभ भावसे विंद भलेरा रे जि ॥७॥

ढाल-२

धायी रे प्रतिमा तीन, अहमदाबाद में ।
 इण सम विम्ब न कोय, दीठोरे पृथ्वी तले ।
 गौडी पार्श्वनी प्रतिमा, तुरक ले सग्रही ।
 धरती खणीने तेह राखी प्रतिमा सही ॥ १ ॥
 एक दिन स्वप्नमाँहि, आवी यक्ष ते कहे
 गौडी पार्श्वनो विम्ब, ते धरतीमाँ हा रह्यो ।
 प्रगट करजे तेह तुरत, तू तुरकडा
 नहिंतर पडसी भीड, देखीस दु ख वाँकडा ॥ २ ॥
 परिकर चासी मेघो, पाटण आवसी
 अक्षत तिलक लिलाड, ते अहिनाण पावसी ।
 पार्श्व जिनेश्वर केरी, प्रतिमा देयजे ।
 पूरा पाचसै दाम, के गिणने लेयजे ॥ ३ ॥
 मनसे डरे ते वात, सहु चित सहही ।
 सुहणोमाहीं यक्षराय, ते सहू कही ।

हवे मेघाके हाथ में, बिम्ब जिनवर तणो
आसी किस विध एह, चरित्र भवियण सुणो ॥ ५ ॥

ढाल-३

इणहिज भरत सुक्षेत्र में, परिकर नामे देश रे ।
सब देशां सिर सेहरो, नहिं तिहाँ दुःख प्रवेश रे ॥ १ ॥
राज करे तिहाँ राजवी, नृपति राय खेंगार रे ।
शूरवीर अति साहसी, जाति तणां पोरवाड रे ॥ २ ॥
तिण देशे एक नगर छे, भद्रेसर तिहाँ गाम रे
धरती नारी तपे शिरे, विधि रच्यो तिलक सुठाम रे ॥ ३ ॥
तिण देशे काजल अछे, नामे छे मोटो शाह रे ।
कपटी कूड अवगुणी घणो, लोभी लोभ अथाह रे ॥ ४ ॥
बहिनी काजल शाहनी, मेघा शाहने दीध रे ।
साला बहिनोई तणा, सगपण सखरो कीध रे ॥ ५ ॥
माहोमाही सुखे वशी, गमावे दिन रात रे ।
एक दिवस मेघा भणी, काजल भॉखी वात रे ॥ ६ ॥
धन लेई इहाँ से घणो, जावो व्यापार काज रे ।
मानी बात शाह मेघजी, चाल्या तुरत समाज रे ॥ ७ ॥
बहेतांनेसवण सखरा हुआ धासी सहु काम सिद्ध रे ।
पाटण केरे चौवटे, तिहाँ लेसी नव निद्ध रे ॥ ८ ॥
उतारा मेघेकिया, डेरा तम्बू ताण रे ।
राते स्वप्ने में कह्यो, तिहां आवी यक्षरॉय रे ॥ ९ ॥
तुरक घरे जिनवर तणी, मूरति महिमावन्त रे

दाम पाचसै देईने, लेजो मनधरी खन्त रे	॥ ९ ॥
यक्ष पहुतो निज स्थान के, निशि गई अमो भाँग रे	
पाटण केरे चहुँअटे, तुर्क फिरे छे बिनाण रे	॥ १० ॥
जितने शाह दीठा मेघजी, सहु पहुँता सहिनाण रे ।	
चालो मुझ घर शाहजी, घाँने देखाऊँ जगभाण रे	॥ ११ ॥
हर्षे भराणो हीयडे, आवे असुरने गोह रे	
झलहल तेज विराजताँ, देख्या जिनवर तेह रे	॥ १२ ॥
यह मूर्ति राखो तुम्हे, दो मुझे पाँचसौ दाम रे	
वचन सुण्या अमृतसमा, हुलस्या आतमराम रे	॥ १३ ॥

ढाल-४

तुर्कन दाम दिया पाँचसै जिन विम्ब लिया मन हर्षे रे ।	
म्हारी भाग्यदशा अव जागी भाग्यदशा आज जागी	
म्हें तो आज हुआ बडभागी रे	॥ १४ ॥
भावठ मनडारी भागी, प्रभुजी स अतर्लय लागी रे	म्हारी
समता रूप सौभागी दिलरञ्जनन निराग रे,	म्हारी ॥१॥
विमल मुद्रा वैरागी ताजी, भाग हुआ प्रभु त्यागी रे,	म्हारी ।
अकल स्वरूपी अनाधी म्हें तो, पायो शिवपुर वासी र,	म्हारी ॥२॥
मनरा मनोरथ फलिया म्हन, तैबिसमा जिन मलिया र,	म्हारी ।
मातीड वूठा मेहो, म्हार प्रगटया सुरतरू नहा रे,	म्हारी ॥३॥
दीठी प्रभुजीनी दहो, म्हार नयण भराणा जाजा स्नेहा र,	म्हारी ।
हुआ अधिक उच्छाहो, चितडानी पूगी चाहो,	म्हारी ॥४॥
निरूपम त्रिभुवन राया, म्हें तो पुण्ये प्रभुजी पाया र,	म्हारी ।
दुख दोहग परिजलिया, म्हारा वउत अमालउ फलिया रे	म्हारी ॥५॥

गुणमणी गुणगह गाया, म्हे तो पार्श्व जिनेश्वर पाया रे,	म्हारी ।
माता वामा राणीजाया, जय, जय तूं त्रिभूवन राया रे	म्हारी ॥६॥
त्रि प्रदक्षिणा दीधी कर लटके वन्दना कीधी रे,	म्हारी. ।
द्रव्य भावपूजा कीधी, सहु हूस हियानी सीधी रे,	म्हारी ॥७॥
दाम देई रू तिहाँ लीघो, मन मान्योकारज सीघो रे	म्हारी. ।
रूका भरिया ऊंठ तेवीस, माहें बेसाव्या जगदीश रे,	म्हारी ॥८॥
पाटण हूँति सिधाया, अनुक्रमे राधनपुर आया रे,	म्हारी. ।
दाणलेवादाणी आया, अति हर्ष भराणी काया रे,	म्हारी ॥९॥
गिणतां ऊंठ जे लेखे, आछो अधिको मेघा एक देखे रे	म्हारी. ।
दाणी मन आश्चर्य पाया, तब मेघाने बुलाया रे,	म्हारी ॥१०॥
शाह मेघोकहे सांभळो दोंणी, हम मूर्ति पार्श्वनी आणी रे	म्हारी. ।
तेमूर्ति राखी रू माहें, घणा जतनासुं ऊमाहे रे,	म्हारी ॥११॥
ए मूर्तिप्रभावे, हमने यह अचरज आवेरे,	म्हारी. ।
दाणी जिन बिंबज दीठो, चितडा मे लागे अति मीठोरे,	म्हारी ॥१२॥
पूजा करी करीप्रणाम, दाणी छोड गया जिन ठाम रे,	म्हारी. ।
तिहाँथी भद्रेसर आया, नर नारी हर्षे सवाया रे	म्हारी ॥१३॥
सहु जन सामा आया, नर नारी मङ्गल गाया रे,	म्हारी. ।
मोती भर थाल वधाया, बली जीत निशाण घुराया रे,	म्हारी ॥१४॥
पूजा प्रभावना करी अपार, माँहे थाप्या जगत आधार रे,	म्हारी. ।
संघ सहु मन अति हर्षे, जिनबिंब नयणे निरखे रे,	म्हारी ॥१५॥
शाह मेघेरा मनोरथ फलिया, शुभ भावे प्रभुजी मलिया रे	म्हारी. ।
जिनवरना यश गावे, दिन दिन दीपे वधावे रे,	म्हारी ॥१६॥
संवत चवदे बत्तीसे, कार्तिक सुदी बीज सुभदिवसे रे	म्हारी. ।
शुभ मुहुर्त स्थावर वारे, स्थाप्या संघ सकल आधारे,	म्हारी ॥१७॥

दाहा - मेघा शाहकी भार्या, भृगा- नयनी नाम ।	-
गुणवन्तीने रागिणी, सुन्दर अति अभिराम	॥१॥
तेहनी कूखे अवतया पुत्र रत्न सुखकार ।	
मेरो ने महिआ विहू, देव कुमर अवतार	॥२॥

ढाल-५

एक दिन भाँखे हो काजल मेघने, साँभल मोरी बात ।	
नाणो हमारो लहि करी तुम गये थे गुजरात	॥टेर॥
ते लेखो आपोविवरा सुद्धा हमने, नहिंतर दुटसी प्रीत ।	
बलतो मेघो कहे काजल सुणो घन खर्च्यो धर्म रीत,	एक ॥१॥
पाँचसौ दामे हो मूर्ति मनाहरू, म्हें लीनी मनरडा ।	
कहे काजल ओ पत्थर किस कामको, म्हारे घनशु रङ्ग	एक ॥२॥
माँहोमाहीं झगडता दोनू जणा बीते वारह वर्ष ।	
सगपण हूँती हो घन ससार में, व्हालो विश्वा वीस	एक ॥३॥
झगडाने बीच में मूर्ति पार्श्वनी पूजे शोठ घनराय ।	
तिण समय गोठीने सुपना दिया, करजे एह उपाय,	एक ॥४॥
नगरी कानाश हुँतो में जाणीयो, आयो तुर्त इण ठाव ।	
इकदिन निश्चलपणसुं निर्मल पणे, घरजे घणीकुँ आय	एक ॥५॥
स्थल वोइला हा पर्वत सारिखा, दीसन्ता विकराल ।	
तिण समय एकलडो रघ तूँ खेडजे, निडर थई तत्काल	एक ॥६॥
वेहतौं जिण स्थानके रघ थभीजे, तिहाँ लेजे विश्राम ।	
श्री पार्श्वनाथनो विंव तूँ स्थाप जे चैत्य करे अभिराम,	एक ॥७॥
तिण समय गोठीने सोच ऊपन्यो, पाणी नहीं पापण ।	
सूनी रोहीने बिन घन देवल तणो, कैसे मडावू मडाण,	एक ॥८॥
श्री पार्श्वनाथ प्रसादयी, होसी बात रसाँण ।	
सय वृत्तान्त स्वप्न माहे कही, यक्ष गया निज स्थान,	एक ॥९॥

प्रह ऊठी शोठ रथ जोतरे, उपर ठविया साम
 बारह कोस भद्रेसर हूँती आया थंभाणो रथ ठाम एक. ॥१०॥
 चिन्तातुरने मारग खेदथी, आई नीद तिणवार ।
 तिण समय सेवकने स्वामी तणा, सुणिये शोठ महाराज एक. ॥११॥

ढाल-६

सुण सुण सुगुण सनेही शोठजी, मीठी माहरी वाणी जी ।
 जाना दक्षिण दिश भली, तिहाँ पडियो नीलो छाणजी, सुण. ॥ १॥
 तिहाँ खणजे धरती भूमिका, अमृतसम प्रगटसे नीरो जी ।
 तिहाँ कने धवला आकडा, तेहने हेठे धन छेधीरो जी, सुण. ॥१॥
 स्वस्तिक सोपारी तणाँ दीसे छे सहिनांणो जी ।
 सिरोही सिलावट बसे, तेहने तुम ईहाँ आणो जी, सुण. ॥२॥
 हिवे स्वप्नामाहीं यक्षजी, सिलावटने जणाय जी ।
 देवल करे जोतू पार्श्वनो, तो नीरोगी थाय जी, सुण. ॥३॥
 तेडी सिलावट आवियो, शोठ दियो सम्मान जी ।
 पाणी पाषाण प्रगटिया, वली प्रगटियो निधानो जी. सुण. ॥४॥
 श्री जिन भवनने काम में. कोई न करजे काँण जी ।
 अच्छे मुहूर्त शुभ दिने, मंडायो मण्डाण जी, सुण. ॥५॥
 मनोहरणी कोरणी, वर्णन करय नहिं जाय जी ।
 सुणता तन-मन उल्लसे, नयन रह्या लोभाय जी सुण. ॥६॥
 उत्तम तीर्थ अभिवनो, रचियो मेघे शाहो जी ।
 सारो पृथ्वी वखाणियो, लोग कहे वाह वाहो जी. सुण. ॥७॥
 धोरी धर्मरो इणजुगे, मेघो चढते भावे जी ।
 गौडी गाम सूनो हूँतो तेतोतुर्त वसावे जी सुण. ॥८॥
 गौडी गामरे नामथी गौडी पार्श्व कहायो जी ।
 इंडो अजेय चढ्यो नही, बिच मे थयो अन्यायो जी, सुण. ॥९॥

हिय काजल भघने, इणविध करसी घात जी ।
भावी पदारथ नहीं टले, सुणजो आगम वात जी

सुण ॥१०॥

ढाल-७

काजल सब लोकोरी साखे, -मेघाने इम भाँखे रे ।
वात होवण वाली (नहीं टले)

होवणहारसुँ जोर न चाले, काँइ न लागे कारी र	वात ॥१॥
लोगो घन जेदहरा सारुँ, आघो इम वारुँ रे,	वात ।
मेघा कहे पार्श्व मूर्ति पाई, मुझ घर कमी काई रे	वात ॥१॥
पार्श्व स्वामी केपरसादे, दिन दिन नव निधि बाधे रे	वात ।
मननी वात मेघा सब कहदी, तव काजल रह्यो विमासी रे,	वात ॥२॥
माणस जब मेघाने बखाण, तव काजल दुख आँणे रे -	वात ।
किस ही विध मेघाने मारुँ, मनचित्या कारज साधुँ रे	वात ॥३॥
वात सहु मनमाँहें ध्यायी, परपच रचुँ वणाई र,	वात ।
पुत्र को विवाह रचावे, मेघानबुलावे आव रे,	वात ॥४॥
यक्षराय निज स्वप्ने आवे, मननी वात बतावे रे,	वात ।
दूध भोजन माँही विय जादसी, पापी प्राणज हरसी रे	वात ॥५॥
जा तूँ जावे तिणरहाथ, तो तूँ नमण कर लेजे रे,	वात ।
तिहाँ दूध भोजन मत करजे, वात सहु मन सदहजे र	वात ॥६॥
यक्षराय निज स्थानक पहुँता, जिनते सूरज ऊंगा रे	वात ।
दिन ऊंगा मेघानेबोलावे, तव काजल घर आवेरे,	वात ॥७॥
आदर मान अधिक दिलावे, युक्तितसूँ भाजन जिमावे र	वात ।
विय भेल कर दूध ज दीनो, ते पण भघे पीना रे,	वात ॥८॥
दूध भोजने मेघा मरणज पाम्यो, तत्क्षण हुओ सुरगति गामी र	वा ।
भावीचश जात याद न आई, जे यक्षराज बताई र,	वात ॥९॥

मेहरोने महियो आवे, देखीने अति दुख पावेरे,	वात. ।
द्रोह करी कुल तिलकज मारयो, काजल भूंडो विचारयो रे बात.	॥१०॥
यह कार्य बहिन! मैं नवि कीनो, माणस दोष मुझ दीनो रे	वा. ।
लोग सहू तेफिट फिट भाँखे मुखामुखी इम दाखेरे	वात. ॥११॥
होनहारसुँ जोर न चाले, इम बहिनीमन बालेरे,	वात. ।
मेहरोने महियोधीरज धारे, मरण मेघेरो सुधारेरे,	वात. ॥१२॥
काजल सब तिहाँ संघ बोलावे, देवल ईण्डो चढावेरे,	वात. ।
देवल शिखर इण्डो चढायो पडने, धरती आयो रे,	वात. ॥१३॥
बीजी वार तीजी वार चढावे, शिखर उपर नहीं ठावे रे,	वात. ।
जितने यक्ष ऊचरी वाणी, ते पिण सघले जाणी रे, बात.	॥१४॥
मेहरोने महियो जोईण्डो चढासी, तो इण्डो स्थिर रहसी रे,	वात. ।
देवल शिखरे ईण्डो चढायो, पुण्येअचरिज पायो रे,	वात. ॥१५॥
संवत चवदेने चम्पालिस शुभ, मूहुर्त शुभ दिन बार रे	वात. ।
देव विमान सम देवल दीठो, तन मन नयणे लागेमीठो रे	वात. ॥१६॥
देहरे प्रतिष्ठा प्रभुनी कीधी, कीर्ति जगमाँ लीनी रे,	वात. ।
महीयले तीर्थ जेह रचायो, स्थान स्थान में ठावो रे	वात. ॥१७॥
यह तीर्थ मेघे शाह रचायो, नामे आश्चर्य पायो रे,	वात. ।
मेघा सुतनो मनोरथ सिद्धो, द्रव्य खर्ची यश लीघो रे	वात. ॥१८॥
सुर असुर ने क्रोडा क्रोडी सेव करेकर जोडी रे,	वात. ।
मद मत्सर मनसुं सहू छोडी गावे गौडी गौडी रे,	वात. ॥१९॥

ढाल-८

म्हारी सहियाँ ए जय जय गौडी धणी ।

एकल मिल अवीह, म्हारी सहियाँ ए,

जय. ॥टेरा॥

दुख दोहगा भजन घणी, साचा साहिब एह,	म्हारी ॥१॥
देश विदेश काँई फिरो, काँई करो मन में विचार	म्हारी ॥२॥
एक मनेतुम भविजणा, सेवो श्री जगत आधार	म्हारी ॥३॥
पुत्र अपुत्रियाँने देव, निर्धनियाँ धन देह,	म्हारी ॥४॥
परचा पूरण इण युगे, सुरतरू सम प्रभु एह,	म्हारी ॥५॥
आज घडी सु धन्य घडी, आज जन्म सुप्रमाण	म्हारी ॥६॥
परचा पूरण पार्श्वजी स्थिर चित स्थलना राण,	म्हारी ॥७॥

कलश

सवत अढारह पचवीस वर्षे, चैत्र शुक्ल पचमी दिने ।	
घरणन्द्र ध्यायो गुणही गायो, हर्ष घरी शुभ मन ॥	
पाठक 'क्षमा' प्रमोद 'शिष्ये' "अनापचन्द" सुरमणी ।	
सम पाचम यह स्तवन कीनो, घवलढिग गौडी घणी	॥१॥

रोहिणी - स्तवन

शासन देवता स्वामीनी, एक मुझ सानिध्य कीजे,	
भूत्यो अक्षर भक्त भणी समझाई दीजे ।	
मोटोत्तप रोहिणी तणो ए, तिणरागुण गाऊँ,	
जिम सुख सोहग सपदा, वाञ्छित फल पाऊँ	॥१॥
दक्षिण भरते अङ्ग देश छे, तिहाँ चम्पा नगरी,	
मघवा राजा राज्य करे, तिणे जीत्या वयरी	
पाट तणी राणी रूअडी ए, लक्ष्मी एणे नामे,	
आठ पुत्र जाया तिणे ए, मन में सुख पामे	॥२॥
रोहिणी नामे पुत्रिका ए, सबकूँ सुखकारी,	
आठ पुत्रोनी ऊपरे ए, तिणे लागे ए प्यारी	
वाघे चन्द्र तणी कला ए, जेम पक्ष अजवाले,	

- तंम ते कुवरी धायमाय, पाँचे प्रतिपाले ॥३॥
 कुंवरी रूपे रूअडी ए, घर आगल वेठी,
 दीठी राजाए खेलती ए, तिणे चिन्ता पेठी,
 त्रण भुवन विपे एहवी ए, नहि बीजी नारी,
 रंभा पद्मा गौरी गङ्ग, इण आगल हारी ॥४॥
 पुरूष न दीसेकोई इसो ए, जिणने परणावूँ
 आंखो आगल शाय वधे, तिणे सुख नहिंपावूँ ।
 दंश देशना राजवीए, तत्क्षण तेडाव्या,
 सवल सजाई साधकरी, नरपति पण आव्या ॥५॥
 वीतशोक राजा तणो ए, कुमर सौभागी,
 कन्या कंरी आँखडी ए, तिण शीतल लागी।
 ऊमा देखे सकल लोक, केई चढियाकेई पाला।
 चित्रसेनने कण्ठठवी, कुवरी ए वर-माला ॥६॥
 देव अनंदेवाडुना ए, जंपे जय जकार,
 राजा रलियायत थयो, देखे सारो संसार ।
 कर जोडीने लोक कहे, वर कन्यानो जोडो,
 वीतशोकनोकुंवर थयो, शिर उपर मोडो ॥७॥
 इम विवाह थयो भलोए, दीधा दान अपार,
 घरेआव्या परणीकरी, हरख्योपरिवार ।
 वीतशोक राजापुत्र भणी, आपणो पाट दीधो,
 आपण संजम आदगी ए, जग मेंजस लीधो ॥८॥

ढाल-२

तर्ज- हवं भवियणरं पंचमी ऊजमणा सुणो,
 तिण नयरी रे, चित्रसेन राजा थयो,

(१२९)

सुख माही रे, कटला काल बही गयो ।
एणे अवसर रे, आठ पुत्र हुआ भला,
चढते पक्षे रे, चन्द्र जेसी चढती कला

॥१॥

त्रोटक

चढती कला हव राम बेठा, पास बेठी रोहिणी,
सातमी भूमे कन्तसेती, करे क्रीडा गणी
आठमो बालक गोद उपर, रगशु - राणी लियो ।
पुत्रने प्रीतम आँख आगल, दखताँ हरख हियो

॥२॥

ढाल

एक कामिनी र, गोखेचढी दृष्टीपडी,
तडफडती रे, रावे दीम वापडी ।
वृढा पण र मन गमता बालक भूआ,
हुतो एकज र, तिण अधिक केरा दुख हुआ

॥३॥

त्रोटक

दु ख हुआ तने रोहिणीं हव, कह प्रीतमजी भणी,
एह नारी नाचे अनेकूद किम कहा मोटा धणी ।
एहवा नाटक आज ताँई, में कदी देख्यो नहीं
मुझने तमासो अने हाँमो देखताँ आवे मही

॥४॥

ढाल

इण बचन रे, रीसाणो राजा कहे
तू पायणी र, परनीपीडा नवि लह ।
ए दु खिणी र, पुत्र मुआ तडफड करे ।
जव प्रीत र उदन जाणी ज तर

॥५॥

(१३०)

त्रोटक

जाणीजे तरेतूँ बात दुखनी, गर्वधेली कामिनी.
एम कही राजा हाथ झाल्यो, तेहना बालक भणी ।
सातमी भूमिथीतले नाँख्यो, तिसे हा हाख थयो,
रोहिणी हँसती कहे प्रीतम पुत्र नीचे किम गयो ॥६॥

ढाल.

हवे राजा रे, पुत्र तणे शोके करी,
थयो मूर्छित रे, रोवे छे आँखे भरी भरी ।
पडतो सुत रे, शासनदेव ते जालियो,
कञ्चनमय रे सिंहासने बेसाडियो ॥७॥

त्रोटक

बेसाडियो कर जोडी आगे, करे नाटक देवता,
गोद विछावे कोई हसावे, पद पङ्कज सेवता ।
ऊपज्यो भूपतिने अचंभो, देखीने कारण किसो ?
जे कोई ज्ञानी गुरू पधारे, पूछिये संयम इसो ॥८॥

ढाल

इम चिन्तवता रे, चारित्रिया आव्या इसे,
राजा पणरे, पहाँच्यो वन्दनने तिसे ।
सुणी देशना रे, पूछेप्रश्न सोहामणो,
कहो स्वामी ! रे, पूरव भव बालक तणो ॥९॥

त्रोटक

बालक तणो भव भूप पूछे, कहे एणी परे केवली,
रोहिणी राणीनो भवान्तर, अने राजानो वली ।

(१३१)

श्री गुरु भाँखे पाछले भव रोहिणी तप आदर्यो,
तप तणी सगते, साधु भगते, तमभवसागर तर्यो ॥१०॥

ढाल

कहे राजा रे, किम रोहिणी तप कीजिये,
विधि भाँखो र, जिमतुम पासे लीजिय ।
तव मुनिवर रे, विधि रोहिणीना तप तणी,
इम जपे रे, चित्रसेन राजा भणी ॥११॥

त्रोटक

राजा भणी विधि एह जपे, चन्द्र रोहिणी आवीये,
उपवास कीजे लाभ लीजे, भली भावना भावीये
वारमा जिनवर तणी प्रतिमा पूजिये मन रङ्गसु,
एम साडि वरस लागि कीज, तजी आलस अङ्गसु ॥१२॥

ढाल-३

(तज सहेली ए आभो मारिया)

तप करिय रोहिणी तणो, वली करिये हो, ऊजमणा एम क
तप करता पातक टल ॥१०॥
तिण कीजे हो, तपसेती प्रेम क तप ॥११॥
देव जुहारी देहरे, जिनआगहो, पूजो वृक्ष अशाक के,
गुणणो वारमा जिन तणा । भला नेवैद्य हा,
धरिये सहु धोक के तप ॥१२॥
कशर चन्दन चरचिये जिन आगे हो
आठे मङ्गलिक के, विधिशु पुस्तक पूजिये ।
तो लहिये हा, शिवपुर तहतीक के तप ॥१३॥

सेवा कीजें साधुनीवली दीजें हां,
मुख मांग्यां दान कं, संतांपी जे साधर्मी वच्छल ।

मन रंगेहां, करी करी पकवान के तप. ॥४॥

पाटी पोथी पूंजणी, मसी लेखण हो,
झिलमिल सुजगीश के, नवकार वाली वीटणा ।

गुरू आगं हो, धरो सत्तावीस के तप. ॥५॥

चोधुं व्रत पणतिणे दिने । इम पाले हो,
मन आणी विवंक के, इण विधि रोहिणी आदरे ।

ते पामेहां आनन्द अनेक के, तप. ॥६॥

ढाल

इम महिमा रोहिणी तणी, श्री ज्ञानी गुरू प्रकाशे रे,
चित्रसेन तप आदरे,, वासुपूज्य तीर्थकर पासे रे ।

इम महिमा रोहिणीतणी ॥१॥टेर॥

एणी परं रोहिणी आदरी, उपरे ऊजमणो कीधो रे ।

चित्रसेन राजाने रोहिणी, मन शुद्धं संजम लीधो रे इम. ॥२॥

आठ पुत्रे आदरी, दीक्षा वारमाजिन आगे रे

वली नानाविध तप आदरे, जिनधर्म तणी मतिजागे रे इम. ॥३॥

करीअनशन आराधना, लही कंवल शिवपद पायो रे

जिनवाणी आणी हैये, प्रभु चरणेचित लायो रे इम. ॥४॥

मन मोहन महिमावती, स्तविये, शिवपुर गामी रे ।

मन मान्या साहिव तणी, हवे पुण्ये सेवा पामी रे, इम ॥५॥

कलश

इम गगन मुनि चन्द (१७१०) वरसेचौथ श्रावण सुदि भली,
मे कह्यां रोहिणी तणो महिमा, सुगुरू मुखे जिम सांभली ।

वासुपूज्य इम धया प्रसन्न अमन, चितनी चिन्ता टली,
श्री सार जिन गुण गावताँ हवे, सकल मन आशा फली ॥१॥

चन्दन वालाकी सज्झाय

शुद्ध भावधी जेरोजीवन दीपावियो,
महावीरना शासन भा, चन्दन वालासती साध्वी ॥टेर॥

चम्पापुरी नाराय केगिए वेटडी,
पूवकम करीवीजएनाशीरे पडी,
कोसाम्बी माय बचाय ॥१॥

श्रेष्ठी धनाग्राह पुत्री परलाविया,
मूला सठानी नखाटो वेम आवियो,
छान बहु दुखडा दवाय ॥२॥

मस्तक मुडावियो ने पगमा वेडी पडी
अधारा आरडामा पुरी एकलडी,
त्रण दिन उपवासी धाय ॥३॥

वाकुला उडदना मूपडामा आविया,
उमरामा वेसीन अतिथी ने समारिया,
आवाना कोइ योगी राय ॥४॥

छमागधी अभीग्रहना पूरोधयो,
एग प्रभु ने जाइ आनद उछलीयो,
वाकुला बहोरावा जाय ॥५॥

पूराघणा एना अभिग्रह रुदन विना,
तरत फया प्रभु भिक्षा लीधा विना,
चन्दन रड छ त्याय ॥६॥

रूदन देखी ने प्रभु तरत पाछा फर्या,
 बाकुला वीरीनें दुखो सभी हर्या,
 बार कोटी हेम वृष्टी थाय ॥ ७ ॥
 सुपात्र दान देई प्रेमे दीक्षा लेई,
 पामी केवलज्ञान शिवपुर वाटे गई,
 "यशोभद्र" गुण गाय ॥ ८ ॥

उपदेशक सज्जाय

जय हे जय हे जय हे जय श्री जिन धर्म आराधो भवियां,
 सदा ही जय जय कार ॥ टेर ॥
 श्री वीरे गौतम ने भाख्युं क्षण पणकर न प्रमाद,
 नरभव गोयम दुर्लभ पामी संयमधर आबाद ॥ १ ॥
 दश दृष्टांते देह एदुर्लभ मलवो फेर मुश्केल
 जीव दया गुण वेल वधारी पामो शिवपुर महेल ॥ २ ॥
 विजय शेठ शेठानी विजया स्थूल भद्र अनगारा
 शेठ मुदर्शन शियल आराधी पाम्या भवनो पार ॥ ३ ॥
 थया जंबु जयवन्त जगत में त्यगी आठो नार,
 कोडी नवाणुं छोडिया सौ नैया छोडया घर ने बार ॥ ४ ॥
 धन धन्नो काकंदी जाणो तप कर्या दुष्कर
 खंधकने गजसुकुमाल मुनिश्वर पाम्यो भवनो पार ॥ ५ ॥
 धन्य शालिभद्र गुणवन्ता त्यागी लक्ष्मी अपार
 एकेसुन्दरी आठ छोडी त्यां बीजे बत्रीस नार ॥ ६ ॥
 व्रण वरसनी नानी वयमां व्रज स्वामी गुणवन्त,
 अंग एकादश पाठी गुणीवर थया महामुनि सन्त ॥ ७ ॥

अइमुता मुनिवर लघु वयमा पाम्या केवलज्ञान,
त सयम धी नित नित वन्दो धरो मुनिपद ध्यान ॥८॥

अन्तकृत कवली मेतारज ऋषी धन ढढण अनगार,
छमास अन्दर केवल पाम्या धन्य धन्य मैघकुमार ॥९॥

हम आनन्द विमल हीर सूरीश्वर यया बाल मुनीश
कुमार पाल अकबर प्रतिवाद्या टाल्या राग न रीश॥१०॥

राजमती ने चन्दनवाला सुलसा सीता सार,
दमयन्तीने सती सुभद्रा सतियों मा सरदार ॥११॥

आत्मकमल मा धमा राधो जीवन बनाव्यु सार,
'लब्धिसुरि' कहे तम भविक तमे सफल करो अवतार॥१२॥

सज्झाय

(तज जरा सामन ता आवो छलिया)

जा कम देखर करीए, इन कमों की बडी पुरी मार ह
नहीं दया तजगा परमात्मा, फिर आराका क्या इतदार ह ॥८॥

जा घटी तज देला का बांधा, छीका लगा दिया जान का
जात मास तज रूप प्रभु का, आहार मिला नहीं जान का
इन दुग प्रथम अवतार है, गिन पाया न छुटी लार है नहीं ॥९॥

त्रिभुल कामुदय क भव में, दाम केकानों में शीला डाला
कम निजायित बाधा चीर न, तीर्थकर छपर न टला
छह छान न वन मैमझार है, दिव जानों में रीत डार देन्हीं ॥१०॥

मलनी मी रज मास कभूत शिर, दटिया दटाकर प्राण हार
त्रिभुल मास बलौ क शर में गज कुकुमार वन कर परा
दह मलिन का प्राण धन्य ह शिर पर वन छलकत अगार॥११॥

किरी कालूटे किरी कां मारं, काम करं अन्यायी का
 जेसा करंगा वेसा भरेगा, लेखा हं राई राई का
 नही छांटे वडोंकी दरकार हं, चाहं कलं तुज तन हजार हं नही ॥४॥

पग पग पर संयम रख तू, वचन वाल तृभलाई का
 धर्म सं प्रीतकर कर्मों कां जीतकर, जा पधी शिवराही का
 यह दुख सुख भरासंसार हं, यहां कर्मों काही व्यापार हं नही ॥५॥

सज्जाय

(तर्ज - भारत का डंका आलम में)

तु चंत मुसाफिर चंत जग, कयो मानत मेरा-२ हं ॥८॥
 इस जग में नहीकांडं तरा हे, जो हं सां सभी अनेरा हं
 स्वारथ की दुनिया भूल गया, कयो मानत मेरा-२ हं ॥९॥
 कुछ दिन काजहां वसेरा हं, नही शाश्वत तंग डंरा हं ।
 कर्मों का खूब जहांघेरा हं, कयो मानत मेरा-२ हं ॥१०॥
 ए काया नश्वर तंरी हे, एक दिन वो गख की डंरी हं ।
 जहां मोह का खूब अधेरा हं, कयोमानत मेरा-२ हं ॥११॥
 वुरी यंदुनियादारी हं दुःख जन्म मरण की क्यारी हं ।
 दुखदायक भव का फेरा हे, कयो मानत मेरा-२ हं ॥१२॥
 गति चार की नदिया जा रही, भवसागर वडा ही भारी हं ।
 ममता वश वहां वसेरा हे, कयो मानत मेरा-२ हं ॥१३॥
 मन आत्म कमल मेजोड लियो, लब्धि माया कां छोड दियो ।
 गुण मस्तक संजय शेरा हे, कयो मानत मेरा-२ हं ॥१४॥

वैरी - सज्झाय

(तज आप खभावमार)

- ज्या तन भाजता १, एक दिन मिट्टी ममिल जाना
मिट्टी में मिल जाना जड, छाछमें छप जाना क्या ॥१॥
- मिट्टीया चुन चुन महल बधाय, बडा कह घर मरा
एन दिन बड लठ चलेंग, यह घर मरा न तग क्या ॥२॥
- मिट्टीया आढण मिट्टीया, विछावण मिट्टीया शीराणा
इन मिट्टीयाकु एक भूत बनाय ३ मर जाल लाभाणा ॥३॥
- मिट्टीया कह कुभारन १, तु क्या झाग माय,
एक दिन एग आदगा प्यार में चुटुगी ताय ॥४॥
- लज्जी कह मुतारन १ तु नदि जाण माय
एक दिन एग आदगा प्यार म भुजुगी ताय ॥५॥
- इन शीरल तप पावना १ शिवपुर माग चर
अनन्दघन कह पुनला प्यार आछि जाना गमार ॥६॥

महा सन्तनी सज्झाय

(तज जन १ गुज्ज खान)

- ज्या नमतानी पान, वय्या मुयित गपान महा मन्त
ज्या बड गु अम एवा मत ॥८॥
- गोरे माग चरण मा जोग ताए अडम गहा महादा
ज्या नमतानी पान का जग गाम २ (महा मन्त) ॥३॥
- गोरे माग चरण मा जोग ताए गाम जगता गोनी
गोरे माग चरण मा जोग ताए गाम जगता गोनी (महा मन्त) ॥२॥
- ज्या नमतानी पान, वय्या मुयित गपान महा मन्त

- एवा खंधक मुनि, कंवा समतागुणी (महा सन्त) ॥३॥
 मांथे माटी नी पाल वनाची, नाखी अंगार दीधा जलाची,
 एवा गज सुकुमाल, शमरस ना भंडार (महा सन्त) ॥४॥
 धन्य धन्य मेतारज ऋषि ने, वीटि वाघर शीर पर कसीने,
 झीलया शमरस पुर, कर्या कर्म चकचूर (महा सन्त) ॥५॥
 उंडी खाड मां जेने नखावं, वली गर्दन असिधी उडावं,
 मुनि झांझरिया, कंवा वीर धया (महा सन्त) ॥६॥
 सर्व जीवां ने खमी खमाची, मंत्री भावने दिलमां जमाची,
 शुद्ध भाव धरूं, घन घाती हरू (महा सन्त) ॥७॥
 करी पापनो पश्चाताप, जपो अरिहंत सिद्धनो जाप,
 भव जलधि तरूं, शिव रमणी वरूं (महा सन्त) ॥८॥
 साचु मित्रमा धरूं समभाव, धरूं संवेग निर्वेद भाव,
 वनुं समता धारी, वर वीरति नारी (महा सन्त) ॥९॥
 "लब्धि लक्ष्मण" कार्ति गावं, उर करूणा ना स्त्रांत वहावं,
 गाळुं गुणी जन गान, जिन वचन प्रमाण (महा सन्त) ॥१०॥

बुढापा की सज्झाय

- मेंतो बालु रे बुढापा थारी टंट, बुढापो कंसे आवियां रे
 मेंतो जाणु जोवन वारोमास, एहचो तो नही जाणियां रे ॥८॥
 पेढी तो दूर थईने, पोल थई परदेश
 गोडा तो खांडा थया, कोण पिलावे ठंडो नीर ॥९॥
 बेटा तो जुदा हुआ ने, बहु आ लोपी कार
 बंटी तोदूर वसेने, कोण विछावे मारे खाट ॥१०॥
 बाल पणेमे लाडु जीमती, भरी जवानी सीरो
 राबडीरा सांसा पडया, माने कोण जिमावे जाडी खीर ॥११॥
 जोमे जिमावे जाणतीने, आडी करती वाड

चाल डब्यी में राखतीन काढती चार तचार	॥४॥
दात दाडरा पड गया न, काई ने पूछे सार	
घर नु आव करडी रोटी, खावणरो गया र सवाद	॥५॥
पिंडया ता पतली पट्टी न - झर २ पडयो शरीर	
दियय वासना नही मरी, आता मनुष्य जनम गया हार	॥६॥
माघ ता विधाय रही ने, सुती करू विचार	
उमी करू आगली, घे, सुणजा दीन दयाल	॥७॥
'विनय' विजयजीरी सीखडी घ, सुणजो नरनार	
पाडा मुखा र कारणे ओं, क्यों रच्यो ससार	॥८॥

अठारै नाता की सज्झाय

(तज - गुरुसा मत करा)

महानगरी मधुरा साहामणी जी लाग वस अनक	
कुबेर बना यश्याजी, रूप लावण्य अति सार	
अठार नाता री दाता जी, साभला चित्त लगाय	॥१॥
एक पुगल जन्मियाजी, स्नेह चात्मत्व अपार	
दम दिन उमका पालन किया जी, नाम दिया कुवरदत्त	॥२॥
पुंगे का नाम कुवरदत्ताजी, दाना का मुद्रिक पहनाय	
मया मय यमुना तट जी, दा बालक नदी बहाय	॥३॥
दा श्रुती जी दृष्टि पटी जी, मिन्दुक् बाहर कढाय	
पुंग पुंगे की तरह पालीयाजी, लालन दिया सजार	॥४॥
एक अचम्य में अपियाजी, श्रुती च्याह रचाय	
एक वली चलता जी, समकिया चित्त माजरा	॥५॥
एक चमन अमृती दही जी, सारु बाना नाता जग	
एक चमन अमृती दही जी, सारु बाना नाता जग	॥६॥

- तप जप प्रभाव धी जी, अवधि ज्ञान हांय
 अवधि ज्ञान संजाणीयांजी, आपणां निजी सम्बन्ध ॥७॥
- माता भाई को व्यवहार जाणीयांजी, मन में उपन्यो विषाद
 धिक धिक इण संसार नेजी, करिया पाप अपार ॥८॥
- माता भाई रा उद्धार करणे, मथुरा नगरी जाय
 सति साध्वी आगन मेंआई जी, वेश्या संकुचित धाय ॥९॥
- हाथ जोडकर पाय नमीजी, मुझपर अनुग्रह करो आज
 कुंवर सेनाजगह दिनी जी, दियो साध्वी धर्म उपदेश ॥१०॥
- माता कंदूर जानें से जी, बालक रोवण लाग
 साध्वी लोरी गायने जी, सम्बन्ध अट्टारे वताय ॥११॥
- कुंवरदत्त सांभलियो जी, बालां वचन संभाल
 सत्य वचन तुम जाणजो जी, रिश्ता छं अट्टार ॥१२॥
- भाई पुत्र देवर धयोजी, काको भतिजो पोत्र धाय
 म्हांगे साधे ए धयाजी तुम्हारे साधे सम्बन्ध धाय ॥१३॥
- भाई पिता दादा हुआ जी, भर्तार देवर सुसर
 कुंवर सेना के रिश्ते सुनांजी, माता दादी भुजई धाय ॥१४॥
- पुत्र वधु मांत सास हुई जी, नातासुणी पश्चाताप होय,
 कुंवरदत्त वेराग्योजी, लीधो संयम धार ॥१५॥
- कुंवर सेना वेश्य जी, लियो बाहर व्रत धार
 श्रावक व्रत चोखो पालीयोजी पहुँचा स्वर्ग मझार ॥१६॥
- हरसाणी नगर सोहामणां जी, कार्तिक मासमझार
 कृष्ण पक्ष एकम दिने जी, कान्ति हर्ष अपार ॥१७॥
- 'प्रेम सुलोचना' वीनवे जी, प्रभु ने वारम्वार
 अष्ट कर्म तोडनेजी, जीवन सार्थक बनाय ॥१८॥

रहनेमि - राजुल सज्जाय

(तर्ज - माला काट र जाला जीवरा तन मन स फरा)

गिरनार गुफामें, साधु रहनमी धरता ध्यान र

चूक सयम सु, राजीमती दव उनका ज्ञान र

॥८॥

नमी प्रभु वदन कर आती, राजिमतीगुण भिनी

अतर सयमरस भीनी थी, बाहिर वषा किनी र

॥९॥

गील वस्त्र सुखावन हतु, सतीगुफा म जाती

रहनमी हा गया विकारी बाल सुन मन भाती र

॥१०॥

आआ भाग भाग बुढाप में फिर साधु हाग

क्या दुख पाती हा ह भाभी! हम तुम साथी हाग र

॥११॥

चौकी राजिमती योंबाल, सुन दवरिया भरा

नमी वचन करी हे उस पर क्यों, मन मचलाई तरा र

॥१२॥

सुन्दरता में आग भरी तुम उसमेंजल जाआग

सत्य आर शिव का पाआ तव ही सुख पाआग

॥१३॥

चाम चढी यह सुदर दीख मल मूतर मय काया

सयम पथ में दृढ बन जाआ छाडा ममता माया र

॥१४॥

अगधन कुल साप भी चापस अपना विष नहीं लता

तुम उत्तम कुलमें जनमें क्यों, उलटी में मन दता र

॥१५॥

हाथी अकुश स वश आता, सती वचन वह आता

सुध सयमी आत्मसुख पाता, 'हरि कवीन्द्र' गुण गाता र ॥१६॥

गर्भ की सज्झाय

- नवमास तू गर्भावास रहा, मल मूत्र अशुची को बहुत सहा
जब गर्भ मेंथा तब कोल किया, धर्म करनेका सोदा स्वीकार किया ॥१॥
- जब बाहर आया तब भूल गया
मोज शोक मेंपड गया नया नया ॥१॥
- तेरा योवन काम विकार पडा, अब घडपन जल्दी आया खडा
फिर भानशान नहीरहती जरा, तुने पाप का पोटला शिरे घरा ॥२॥
- इस भव मेंतोपुण्य को नहीवांधा पर भव मेंतुटे से सांधे संघा
पीछे राडो पाडे नही कुछ वले, पाप फल भोगवा पले पले ॥३॥
- अब चंत मूर्ख अब चंत जरा, माता पिता सम्बन्धी नही हे खरा
धर्म ध्यान करनेकी टेव खरी, एवो अवसर आवे नही फरी ॥४॥
- मांगों मांगों प्रभुजी से संसार छुटे, सब कर्म का बन्धन जल्दी तुटे
आत्म कमल 'लब्धि' लहरो भरो, कहे जयंत वंडा पार करो ॥५॥

आत्म सुधार की सज्झाय

(तर्ज - छांटसा बलमां आज मारे आंगन)

- पालक मान तू मान, मुनिवर को मत मारो
छोटो हमारो शिष्य, है प्राणो से प्यारो
मान मान मत मार, जीवन प्राण हमारो ॥१॥
- कर जोडी कहे शिष्य, गुरुवर हमको तारो
वीर कोवीर हुं शिष्य करो उद्धार हमारो ॥२॥
- दया की मत करो भीख, मानो बोल हमारो
अन्तिम शरण संथार, गुरु मुख से उच्चारो ॥३॥
- नैनो से झर रह्यो नीर, धन्य तूं शिष्य हमारो
राग द्वेष करोदूर, मोक्ष नगर पधारो ॥४॥

धीरे धीरे रह्यो पील, पापी पालक कारो
ऊँ अहँ ध्यान, 'कान्ति' आत्म सुधारो

॥५॥

उपदेशक सज्जाय

(तर्ज-छोड गये वालम)

शु करे रे विचार, त्यारे आज जवु छे के काल
छोडीने आ ससार

॥टेर॥

सगा सम्बन्धी सुखना साथी, नही कोइ दुखना साथी
अन्त समय मेअलगा रहिने, करसे तारी हासी

॥१॥

आ दुनिया छेमतलबनी ने, मतलबना सहु साथी

अकेलो आव्यो अकेलो जासो, नही कोइ साथी सगाती॥२॥

मारू मारू शानेकरे छे, नही कोइ तेना तारू

खाली हाथे आव्या तो तु, खाली हाथे जवानु

॥३॥

श्वास तरूने आश गई छे, श्वास छे त्या सुधि तारू

प्राण पखेरू उडी गया पछी, कोइ न केशे मारू

॥४॥

पिता कहे कुलदीपक मारो, माय कहे मारो जायो

वेनी कहे ओ बन्धन मारो, पत्नी कहे प्रीतम मारो

॥५॥

चार जणानी खाधे चाल्यो, छोडया तारा घर वार

माता पिता ने रडता मुक्या, रडती मुकी नार

॥६॥

मो ऊपर अचिता खडकसे, उपर काष्टना भारा

अग्नि मुकी अलगा रहसो, अगे जले अगारा

॥७॥

खोली खोली खाल से तुझने, करसे तारी राख

काया तारी कामन आवे कामन आवे तारी राख

॥८॥

आ दुनिया मा जन्मोने तु, करतो जा कइ काम

सह धर्म नं शीखी जगमां, अमर करजे नाम

॥९॥

शीयल की सज्झाय

सुदर्शन नं शील हे प्यारां, हे यह मांहनगारां

॥८॥

राणी- करजांडीनं अभया वोलं, खडी खडी वह राणी

धन्य दिवस हे आज का मेरा, पायो मे गुण खाणी

॥१॥

वहुत दिनो सं धी अभिलाषा, आज वां पूर्ण हांगी

मोन नं छांडां नातां जांडां, हे सुदर्शन भांगी

॥२॥

भोग कां छांडी, भोग वां भांगी शय्या पर तुम आचं

इन्द्र इन्द्राणी दोनो तुम हम, लां नर भव नो लावां

॥३॥

सुदर्शन- करजांडी वोलंसुदर्शन, राणीजी इम किम वोलो

राज राणी वां मात हमारी, सांच विचारी वोलो

॥४॥

राणी- मे नही माता प्रियं तुम्हारी, तूं प्राणेश्वर मेरा

भागवांभोग यह सुन्दर जांडी, तूं आंखो का तारा

॥५॥

सुदर्शन- भोगवां भांगं नरक नं यांगे, यम पासं वां जावे

नरक निगोद मे उसका डेरा, जन्म वांव्यर्थ गमावे

॥६॥

राणी- सेज सुवाली पुष्पो वाली, रभा समान हूं राणी

जांडी नीकी नही वोफीकी, मत करो खेचाताणी

॥७॥

सुदर्शन- सेज मे सांवे कांटो मेरोवे भांगवे दुख अपारी

वैतरणी नदी मे लंजावे, आग पुतली दुखभारी

॥८॥

जो है भांगी हे वह रोगी, परनारी नं संगे

कुल मर्यादा मान को खावे, पावेदुख अभंगे

॥९॥

राणी- हे सुदर्शन मान तूं वाणी, तूंयदि सुख कोचाहे

मान हमारा राज तुम्हारा अभयाराणी को पावे

॥१०॥

दासी तुम्हारी संव हमारी, मान मान मन रंगे

नहीं ता म चडी, तू हागा भगी, शुली हागी सग ॥११॥
 सुदर्शन अरिहताण नमा, नमा, प्रभुवर ध्यान म लाव
 निश्चित बैठा मन करी सठा, 'कान्ति' मन सुख पाव ॥१२॥

विजय सेठ की सज्जाय

(तज छाड गय वालम)

वन्दन हो वारवार, विजय सेठ ने सेठानी
 तेना शीयलनी वलिहार, धन धन तेना जीवन ने ॥१॥
 भरतक्षेत्र ने कच्छ दशमा, विजय सठ श्रावक छे
 बालक वयमा कृष्ण पक्ष नु, शीयल व्रत उचर छे
 जाऊ तहनी हूँ वलिहार, धन धन तेना जीवन ने ॥१॥
 तेहिज नगर विजया वाला, शुक्ल पक्ष व्रत लीधो
 कम सयोग विजय न विजया, वनासगम कीधा ॥२॥
 वस्त्राभूषण सजकर विजया, प्रियतम पास पधारी
 हर्षित थइन बोल प्रियतम, निज नियम सभारी ॥३॥
 कृष्ण पक्षनु व्रत छे मारे, व्रण दिवस नी देरी
 शुक्ल पक्षमा पूण प्रतिज्ञा, फलश आशा तमारी ॥४॥
 विजया वाले अघर सुन्दरी, परणो प्रियतम प्यारा -
 वन्ने पक्षनु शीयल पाली, सफल करू अवतारा ॥५॥
 माता पिता ज्वारे जाणी लेश, त्यार समय लइशु
 जप तप किरिया सजम साधी, वन्ने पावन थइशु ॥६॥
 एऊ शय्या शयन करता, खडग धारा व्रत धारे
 मन बच काया त्रिकरण शुद्ध, कामदव ने मार ॥७॥
 त्रिमल ऋवली ऊर प्रशसा, श्रावक जिनटास आग

सहस चोरासी मुनि पारणानो, लाभज मोटो मांगे	॥८॥
उज्ज्वल व्रतधारी ब्रह्मचारी, दंपती छे कच्छ देशे	
निर्मल भावे भोजन करावो, मनगमतुं फल मलशे	॥९॥
माता पिताने खबर पडी ज्यारे, अभिग्रह पूरण	
संयमधारी सिद्धि पाय्या, दूर करी भवघाणी	॥१०॥
सुखनो सागर उलटयो आजे पातिक दूरे भाग्या जाणी	
'आनंद रत्नाकरनी' वाणी, भाग्य हमारा जाग्या	॥११॥

उपदेशक सज्जाय

जाना नही निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए ।	
ध्याया नही शुद्ध आत्मा ध्यानी हुए तो क्या हुए	॥टेरा॥
ग्रन्थ सिद्धान्त पढलिये, शास्त्री महान बन गये	
आत्म रहा वहीरातमा, पण्डित हुए तो क्या हुए	॥१॥
पंच महाव्रत आदरे, घोर तपस्या भी करे	
मन की कषाय ना मिटी, साधु हुए तो क्या हुए	॥२॥
माला के दान फेरते, मनवा फिरे बाजार में	
मनका न मणका फेरते, जपिया हुए तो क्या हुए	॥३॥
गाके बजाके नाचके, पुजन भजन सदा करे	
भगवन हृदय में ना बसे भक्त हुए तो क्या हुए	॥४॥
करे न जिनवर दर्श जो, खाये सदा अभक्ष को	
दिल में जरा दया नही, जैनी हुए तो क्या हुए	॥५॥
मान वडाई के लिये द्रव्य हजारों खर्चते	
भाई तो भूखे मर रहे, दानी हुए तो क्या हुए	॥६॥
दुनिया में पाप छा गया, घर घर में फूट चल गई	
माता से पुत्र जुदा हुए, पुत्र हुए तो क्या हुए	॥७॥

द्रष्टि न अन्तर फेरत, अवगुण पराया हेरत
शिवराम एक नाम हे, शायर हुए तो क्या हुए ॥८॥

ढढण ऋषि की सज्जाय

ढढण ऋषि जीन वदणा, हुवारी, उत्कृष्टा अणगार र हुवारीलाल
अभिग्रह लीधो आकरा, हु, लश्यु सुद्ध आहार रे, हु ढ ॥१॥
नित प्रति उठ गावरी हु, नमिल शुद्ध आहार र, हु,
मूल न ले अणसूझता, हु, पिंजर कीघा गात र, हु ढ ॥२॥
हरि पूछ श्रीनमन, हु, मुनिवर सहस्र अठार र, हु,
उत्कृष्टा कुण एह में, हु, मुझन कहा कृपाल र, हु ढ ॥३॥
ढढण अधिका दाखिया, हु, श्री मुख नमि जिणद र हु,
कृष्ण उमाहा वादवा, हु घन जादव कुलचद र हु ढ ॥४॥
गलिया र मुनिवर मिलिया, हु, वाद्या कृष्ण नरश र हु,
क्विण ही मिध्यात्वी दखन, हु, आणया भाव विशप हु ढ ॥५॥
मुझ घर आवा साधुजी, हु, ल्या मादक छे सुद्ध र हु,
मुनिवर वहारी न पागुया हु, आयाप्रभुजी ने पासर, हु ढ ॥६॥
मुज लव्य मादक मिल्या, हु, कहा न तुम किरपाल रे हु,
लव्य नहीं वच्छ ताहरी, हु श्रीपति लव्य निहाल र, हु ढ ॥७॥
ए लवा जुगता नहीं, हु, चाल्या परठण काज र, हु
इट निवाह जाइन, हु, घुर करम समाज र, हु ढ ॥८॥
आणी सुधीभावना, हु, पाय्या कचल नाणर, हु,
ढढण ऋषि मुगतगया, हु कह जिन हप सुजाण र हु ढ ॥९॥

महा सति सुशीलाकी सज्जाय

(तर्ज-मन डोलें मेरा तन डोलें)

कर्मों की भारीअजब कहानी सुनां सभी नर नार रे
सति सुशीला सुन्दरिया

॥टेर॥

वालावस्था मे मातापिता ने स्कूल पढनं भेजा
वुद्धिशाली विनयशील थी सबके दिल को मोहा
पाठशाला में हुई परीक्षा नम्बर पहला आय रे

सति ॥१॥

राजकुमार रणवीरसिंह में ईर्ष्या भाव आया
तीसरी परीक्षा हुई तां उस वार भी हार गया
मन में सांचा शादीकरकेलुंगा मेंवदला आज रे

॥२॥

योवनावस्था मेजब आयं श्रेष्ठी शादी रचायं
सुखमय उनका जीवन वीते युवराणी पढ पायं
शुभ स्वप्नो में रात्री वीती आई यं नई वहार रे

॥३॥

सात मास का गर्भ था अभिलाषा मन में जागी
हाथी पं बैठकं पतिकंसंग में वन विहार करुंगी
राजा राणी खुश हांकर कं रेगयं जगल मे साथ

॥४॥

प्रेमालाप मे मग्न हुयें बातों में निकल गये दूर
चलती-२ सति सुशीला हो गई थक से चूर
शीतल पवन की छाया मेआरामकियाखुशहाल रे

॥५॥

पास मे बैठा रणवीरसिंह स्कूल की स्मृति आई
क्रूर कर्म के उदय से वदला लेने की भावना जागी
मोकापाकर निर्झर वन में वं छोड गये युवराज रे

॥६॥

निंद्रा से जागी देखती रह गई नहीपति नही हाथी
पशुओंकी चिल्लाहट सुनकर मुच्छिंत हो गई सती
अपनेकर्मों की कोस रही वह याद करे नचकार रे

॥७॥

- प्रातः काल जव सूय प्रकट सामन मृगी आई
 नमस्कार कर शीश झुकायासाध मे लेकर गई
 पशुयोनि मेजन्म लेकर दखा किया मेरा उपकार रे ॥८॥
- वन गुफा मसति मुशीला ने पुत्र को जन्म दिया
 मन म साच रही धी केसा कम इसी न किया
 अगर महला मेंजन्मता तो खुशिया होती अपार रे ॥९॥
- मृगी कवच्च क सग में खेल रहा वह बाल
 दवयोनि से विमान आया देखा सुन्दर लाल
 बालक उठाकार विद्याधर ल गया विमान म आज रे ॥१०॥
- मृगी कवच्चाने देखा हाहाकार मचाया
 दौड बाहर आइ गुफा स माता न चिलाप किया
 मन मगाचे आसुवर्षे मनेक्रिये कान से पाप रे ॥११॥
- एक द्रुम ली परीक्षा पुरुष रूप वन आया
 शील धम काखडित करन नाना रूप बनाया
 विद्या दकर वह देव कह तुम करा इसी का सिद्ध रे ॥१२॥
- पुरुष रूप का धारण करके घर जगल म आइ
 पहाट उपर मंदिर दखा मन म खूशियाँ लहराइ
 श्रद्धाभक्ति सुमन चढा क दिया दवी ने हार रे ॥१३॥
- मध्यरात्रि मेंसभी देवागनाएँ दवालय म आइ
 आप जीती सुनाइ सतिन विमान में उस विठाइ
 पिडकिया चुली नीचगिरी वह गइ समुद्र क माय रे ॥१४॥
- बहुत क्रुष्ट सजहार आइ सठ क सग म जाव
 एक लाख गुण दकर उश्या घर ल जाव
 उश्या का काम नहीं हान म रगच ऊ घर उचाव रे ॥१५॥

- रंगरेचे ने खून निकाला बंहोश हो गई वाला
भारण पक्षी लेजाकर के भर अटवी में डाला
इसी पर्वत पर एक मुनि को हो गया केवल ज्ञान रे ॥१६॥
देव देवी का कोलाहल सुन सति वहां पर जावे
कर्मों की वाते सुनकर के आंखों से नीर बहावे
पुत्र प्रियतम का पूछे मुनि सेकव होगा मिलाप रे ॥१७॥
शांत दांत त्यागी मुनिवर देते हे आशीर्वाद
अभी मिलेगा पुत्र है तेरा पति वर्ष के बाद
पिता विद्याधर माता पुत्र को अपने घर लेजाय रे ॥१८॥
माता ने अपनी सोलह वर्ष की करुण कथा बताये
सिंहपुर का राजा बनकर पिता से युद्ध मचावें
पिता को हराकर पुत्र ने विजय ध्वजा फेहरायरे ॥१९॥
राजा राणी पुत्र मिले तब हर्ष के आंसु बहावे
सुखमय उनका जीवन बीते धन्य सति कहावे
राजा राणी दीक्षा लेकर के करे आत्म कल्याण रे ॥२०॥
सतियों का जीवन सुनकर के मन में कुछ तो विचारो
कान्तिसुरि कहे भविजन प्राणी जीवन धन्य बनाओ
'सुलोचना' कहे कर्म तोड़ो सब जाप जपो नबकार रे ॥२१॥

नवपद की सज्झाय

(तर्ज-आछेलाल...)

- सुनलो मेरे तात, विनय भरी मेरी बात,
आछेलाल सुखदुख करमाधीन है जी ॥टेरा॥
झूठा मान गुमान, करते नर अज्ञान
आछे लाल, ज्ञानी जन करते नहीं जी सुन. ॥१॥

ओर निमित्त प्रवध, कर्म लिखा सम्बन्ध आछे लाल, होता है, मानु सदा जी	सुन ॥२॥
मयणा के ये बोल, भाव भरे अनमोल आछे लाल, राजा मन भाये नही जी	सुन ॥३॥
छोटे मुह बडी बात, करती है दिन रात आछे लाल, कौन दिया सुख भोगतीजी	सुन ॥४॥
क्रोध करे प्रजापाल, चेहरा कर विकराल आछे लाल, घोर घमडी उच्चरे जी	सुन ॥५॥
मेरी कृपा निश्शक, कर दू राजा रक आछे लाल, तु बहू बोली हो गइ जी	सुन ॥६॥
करमे कौढी योग, किये करम तु भोग आछे लाल दोष नही मेरायहाहे जी	सुन ॥७॥
मयणा धर मन धीर, बोलीजोतकदीर आछेलाल, मीन मख क्या देखनाजी	सुन ॥८॥
पकडा कौढी हाथ, धार धरम का साथ आछे लाल, हाहाकारी हो गई जी	सुन ॥९॥
गुरू गम नवपद जाप, करते मिट गये पाप आछे लाल, रोग रहा नही देह में जी	॥१०॥
पाये मगल लाल, मयणा अरू श्रीपाल आछलाल, हरि 'कवीन्द्र' यश गा रहेजी सुन	॥११॥

पर्यूर्पण पर्व की सज्झाय

पव पजुपण अविया र लाल, कीजघणा घम ध्यान र भविकजन
आरभ सकल निचारिय र लाल, जीया न दीजा अभय दान र भवि टर

- मघला मास माही सिंगे रं लाल, भाद्रवा मास सुमास रं भवि
 तिण मांहे आठ दिन रूवडा रं लाल. कीजंमुकूत उल्लाम रं भवि १
 खाडण पीसण गारना रं लाल, न्हावण घावण जेह रं भवि
 एहवा आरंभ टालिये रं लाल, वाज्छां सुख अछे हं रं भवि २
 पुस्तक वासी न राखिया रं लाल, उच्छव करिये अनेक रं भवि.
 घर सारू वित्त वावरारं लाल, हियडं आंगी विचंकरं भवि. ३
 पूजी अरची आंगिये रं लाल, श्री सद्गुरुजी नेपास रं भवि.
 ढोल ढमामा नफेरिये रं लाल, मंगलिक गावां भास रं भवि. ४
 श्री फल सखर सांपारियां रं, लाल दीजंसांहमी हाथ रं भवि,
 लाभ अनन्तां वतावियां रं लाल, श्रीमुख त्रिभुवन नाथ रं भवि. ५
 नव वाचना कल्प सूत्रनीरं लाल, सांभलांसूधे भावरं भवि.
 माहमी वच्छल कीजिये रं लाल. भवजल तरवा नाव रं भवि. ६
 चित कर चेत्य जुहारिये रं लाल. पूजा सतर प्रकार रं भवि.
 अग पूजा सद्गुरू तणी रं लाल, कीजं हर्ष अपार रं भवि. भवि. ७
 जीवां नं अमर पलाविये रं लाल, तिणधी शिवसुख हांय रं भवि.
 दान सवच्छरीदीजिये रं लाल, इणसमांपर्व न कांय रं भवि ८
 काउमग करीनेसांभलां रं लाल. आगम आपणे कान रं भवि.
 छट्ट अट्टम तपस्या करां रं लाल, कीजं उज्ज्वल ध्यान रं भवि. ९
 इणविध जे आराधस्यो रं लाल. तेलहंसं शिव सुख कांड रं भवि.
 मुक्ति मंदिर मालसें रं लाल. मति हंस नमंकर जांड रं भवि. १०

एकादशी की सज्झाय

(तजं - बलिहारी बलिहारी २ चौर हों)

अधिकारी हितकारी जयकारी

नित मोन हं नगनागीमुखकागी गुण हों धारनाजी टेर

जीवन वाधन वचन विशाधन पावन गुण अधिकार नित	
मन वचन कायायाग कम बन्धन भाग मान करम क्षय कारी नि २	
मुनि गुण मान महादय धार जन हावे निर्मय	
जाऊ म नित बलिहारी नित,	॥ ३ ॥
वाढ विवाढ नाश समता पद सुखद विकास	
मनवच लब्धि उदारी नित	॥ ४ ॥
मान एकादशी आइ मान की महिमा गाई	
आगघ शुद्ध बुद्धिधारी नित	॥ ५ ॥
सुख सिन्धु भगवान हरि पूज्य गुणवान	
मानधारी नरनारी नित,	॥ ६ ॥
“कीर्ति कवीन्द्र” गाव धन जन मान भाव	
आत्म परमात्म पदधारी नित	॥ ७ ॥

ज्ञान पचमी की सज्जाय

(तज आपा चला ए सहल्या सिद्धगीरी भटवार)	
आइ ज्ञान पचमी भाव ज्ञान आराधिय र	
सुव्रत बुद्धि साधन ढाव तन मन साधिय र	टर
जाणा ज्ञान हिया की आख्या शिवपुर जावणरी य पाख्या	
आव ज्ञान भावना राख्या उद्यम कीजिय र आ	॥१॥
पहल ज्ञान ह किरिया पाछ, पहल नान दया ह पाछ	
जाणा नान सहित गुण आछ ज्ञान उपाविय र आ	॥२॥
आत्म का गुण नान उडा ह सब सुआग ज्ञान खडा ह	
अमृत रसरा आइ घडा ह ज्ञान रस पीजिय र	॥३॥
मनि श्रुत अवधि अर मनपरजा, कचल ज्ञान का ऊचा दरजा	
ज्ञान ममिटकरम का कग्जा विनव पाइय र अ	॥४॥

सुरज वादल सुं छिप जावे, चाले जोर हवा खुल जावे त्यो ही आत्म ज्ञान उपावे जोर लगाइयें रे	॥५॥
जो कोई पढसी गुणसी आप, पढसी ज्ञान परम गुण छाप मिटसी भव भवरां संताप फरक नही जाणिये रे अ.	॥६॥
पढतो गुणतों को दे साथ, ज्ञान कंदान में ऊंचो हाथ राखे सो होवे जगनाथ भक्ति कर भावियेंरे अ.	॥७॥
ज्ञाने सुखसागर भगवान, ज्ञाने जिन हरि पूज्य प्रधान ज्ञाने 'कवीन्द्र' कीर्तिमान आत्म गुण गाईयें रे	॥८॥

होली की सज्झाय

नवघाटी नवलंवर पाया उत्तम कुल मेंआया पाखण्ड मत की पूजा करते, मनुष्य जन्म गुमाया सन्तो ऐसी दुनिया भोली धर्म करतालाज मरे छे परगट खेले होली सन्तो ऐसी दुनिया भोली	टेर ॥१॥
होली ने तो होली माता होली कह वतलावे उस के दोला फेरा खावे निश्चे नरके जावे	॥२॥
माटी री गणगोर वणाई पूजे लोक लुगाई वणी वणाई मुख नही बोले पाणी में डवकाई	॥३॥
सासरे जावती वेश वणावे छेला ने रीझावें चलती लकडी ठोकर मारे निश्चे नरके जावे	॥४॥
वरेवापरे वस्तु मंगावे मन उछरंगे चाले साधु सुपात्र वहोरण आवे धर धर हाथ धुजावे	॥५॥
जीवाजीव जात नही जाणे पाणी कदे न छांणे होली आगे गीत गावे सगलां आगे ताणे	॥६॥

खाडण राधण पीसण पोवण पुरसणने है पुरी	
साहिव सेती प्रीत न राखे रहेगी वात अधूरी	॥७॥
झूठा वाद चिवाद करने सघला आगे पहेली	
सीवणरी चतुराई सारी धर्म करण ने छेली	॥८॥
वामण हुयने वेद वतावे खाधे मेले खडियो	
ओरों नेतोधर्म वतावे पोते पापे भरियो	॥९॥
समी साजरो वेंटो जायो घर का हुवा राजी	
परभाते उठ मारग लागो खूब हुई नाराजी	॥१०॥
मोठ वाजरी चोखा चावल घरमें आगा मेले	
घणा काकरा बोदी वाजरी किणियारियो ने घाले	॥११॥
छाछ घालता छाती फाटे दूध घालता दोरी	
रोटी देता रोज आवे उत्तर देता सोरो	॥१२॥
साधो सु तो अलगी रेवे धरम करण ने माठी	
जमायो रो गीत गावण ने घर घर जावे नाठी	॥१३॥
वीर कह सुण सुगणा गोतम बोलु वात सनूरी	
प्रभु सती प्रीत न राखे रहगई वात अधूरी	॥१४॥

बोरों की सज्झाय

(तज घूसो आयो रे महाराज गगासिध को)

भोलारे ससारी जीव भेद न जाणे पेवामिठाई तजबोर खावे
मती खावो रे मती-खावो रे बोर जन्म विगडे मती खावो रे ।

मती ॥ १ ॥

ले कण बोर लेवण ने चाली करी करी लाघण बोर खावे

मती ॥ २ ॥

- इणरे वोगें मां हे वसं रे वंडन्त्री वांग खावे ज्यांगी बुद्धि विगडे
मती. ॥ ३ ॥
- वांग खावे ज्यांरा दांतज दुखे डाढों रे हेंठे लट लटकें
मती. ॥ ४ ॥
- वोरों रो अधाणों ने जीवां रो मधाणां परमाधामी धाल घाणी पीले
मती. ॥ ५ ॥
- वोर खावे ज्यांरे मांसरी किरिया परभव नरक गति पडिया
मती. ॥ ६ ॥
- वांग खावे जिक्के नही रे मुहावे इन पर भव बहु दुःख पावे
मती. ॥ ७ ॥
- वोर नही खावे जिका घणा रे मुहावे इण परभव बहु सुख पावे
मती. ॥ ८ ॥
- “हीर” विजयजी री जांड सुहावे लाल विजय समझाय रहा रे
मती. ॥ ९ ॥

नवपद की सज्झाय

(तज-मेरा जीवन कोरा कागज...)

- मारे हाथ में नवकार वाली मने सिद्धचक्रनो आधारजी
भगवंत नो आधारजी मारं नवपद नो आधार ॥टेर॥
- चाली-२ कुम्भार घरे चाली लाई घडा मां सांप २
उठो बहुअर पाणी छाणो हो गई फुलडा नी माल ॥१॥
- चाली-२ दरजी घरे चालीलाई कपडा मा सांप २
उठो बहुअर कपडा पहनो हां गई सुन्दर पोषाक ॥२॥
- चाली-२ सुधार घरे चाली लाई पेट्टी मां सांप २
उठो बहुअर गहना पहनो हो गयो नवसर हार ॥३॥

- चाला- बहुअर सला चालो नदियाँ उतरो पार २
 सासु उठी धक्को दीनो बहु गइ पेले पार ॥४॥
- सासु वेठी डग मग जावे बहु मुक्त्तमा जाय २
 धे काई जावो मारी हो सासु करणी उतरो पार ॥५॥
- श्री नबकार नो जाप जपता सावन पुरूप सिद्ध २
 “रूप विजय” कह मगलिक माला नित नवी पामा रिद्ध ॥६॥

अम्बिका सती की सज्झाय

- अम्बिका त बादल उगिया सुर अम्बिका ए पानी न सचया र
 सामा मलिया छ दाय मुनिराय मास क्षमणना पारणा र ॥१॥
- बडा मल्या सरावर नी पाल अम्बिकाए मुनि न वान्दिया र
 चाला मुनिराय आपण घर माम क्षमणना पारणा र ॥२॥
- त्यार ढलाऊ सावन पाट, चावल चाखला अति घणा र
 आछला भाडीन छालच छाड, लापसड्या घी लचपचा र ॥३॥
- ल्या^२ मुनिराय मकरा ढील, अमघर सासुजी खोजम र
 गइ र पडासण तू मारी वन, मारी मासु आगल् न करीश वातडी र
 तन आलु मारी काननी झाल, हार आलु हया तणा र
 काननी झाल तार कान साहाय, हीराग हार मार अति घणार ॥५॥
- मार छ वात करवानी टव, वात क्या दिना नहीं रहूं र
 पटासण आइ छिडकी र माय गइ र पटासण सामीगइ र ॥६॥
- गइ रपडासण कहूं एक वात, तारीयहु मुनिन बहाराविया र
 नधी उग्य हजी तुलछी नाछाड, ब्राह्मणन नहीं क्यों पारणा र ॥७॥
- माहन^२ मारा पुत घरमा घी काढा घम गल्डी र
 लातो मारीगड्या मारां र माय पाटु ए पगिसह क्यों र ॥८॥

- वे वालक गोरी ए लीधा साथ, अम्बिका जी वारणे निसर्या रे
 नाना ऋषभजी केडमां लेई, मोटा ऋषभजी नो हाथ झालियो रे ॥९॥
- गायना गोवाल गायोना चारणहार, कोई वतावो महियर वाटडीरे
 डावी दिशे डुगरियानी हेठ, जमणी दिशे महियर वाटडी रे ॥१०॥
- आणा बिना किम महियर जाऊं, भोजाईर्यां मेणां मारसे रे
 डावी दिशे डुंगरिया नी हेठ, ऊज्जड़ वाटे जई वसे ॥११॥
- सुका सरोवर लहरे जाय, वांज्जियां आंवो त्यां फल्यो रे
 नाना ऋषभजी तरसाजी धाय, मोटा ऋषभजी भूखा धयारे ॥१२॥
- नाना ऋषभजीने पानी पाय, मोटा ऋषभजीने फल आपियारे
 सासुजी जोवे ओरडा खोल, बहु विना सूनां ओरडां रे ॥१३॥
- सासुजी जोवे पडसाला मांहे, पुत्र बिना सूना पालणारे
 सासुजी जोवे रसोडा मांहे, रांधी रसोइयां सेगे भरी रे ॥१४॥
- सासुजी जोवे मांटला मांहे, लाडु तणा ढगला वल्यारे
 सासुजी जोवे छावला खोल, खाजाना खडका थया रे ॥१५॥
- सांहन-सांहन मारो पुत्र, तेंडी लावो धर्म गेलडी रे
 गायाना गोवाला गायना चारणहार किहाँ वसे धर्म गेलडीरे ॥१६॥
- डावी दिशे डुंगरियांनी हेठ जमणी दिशे धर्म घेलडी रे
 चालो गांरा देवी आपणे घेर तुम बिना सूना ओरडा रे ॥१७॥
- चालो ऋषभजी आपणे घेर, तुम बिना सूना पालणा रे
 सासुजी फिटीने ने मातज थोय, तोय न झाऊं तुम घरे रे ॥१८॥
- पाडोसन फिटीने बेनज थाय, तोय न आऊं तुम घरे रे
 फणीघर फिटीने फूल माल थाय, तोय न आऊं तुम घरे रे ॥१९॥
- कांकरो फिटीने रत्नज थाय, तोय न आऊं तुम घरे रे
 बाई रे पाडोसण तूं मारी बेन घर भंग वाया क्या मालियोरे ॥२०॥

वे बालक गारीय लिधा छे साय, अम्बिका ए जलमा झवुकिया रे
 व बालक गोरीनो पडिया रें वियाग, घर जाईने हवशु करुरे ॥२१॥
 सगा सवधि हससे रे लाग, पितराइ मणा बोलसे रे
 पछवाडेधी पडया वाईना कन्त, तमरी थयो काचवो रे ॥२२॥
 आल दिधाना ए फल हाय तेह मरी थयो भंसलोई
 हीर विजय गुरू हीरलो, वीर विजय गुण गावता रे ॥२३॥

देवानन्दा की सज्झाय

जिनवर रूप देखी मन हरखे, स्तन दूध झराय ।
 तव गोयम कुभया र अचवो, प्रश्न करण कु आया हो
 गातम यह ता मरी अम्मा यह ता मरीमाताहा गणधर यह ॥१॥
 तस कूँख तुमकिम नहींवसिया, कवण किया तुम कम्मा
 पूर्व भव जव वीर प्रकाशे इण किया ह कम्मा हो गातम ॥२॥
 त्रिशलाद दराणी हुती देवानन्द जेठाणी
 विषय कषाय धी काई नजाणी कपट बात मन आणी गातम ॥३॥
 तव श्राप दीयो दराणी तुम सतान न होज्यो
 कर्म आगल काई न छूट, इन्द्र चक्रवर्ती जाज्यो हा गातम ॥४॥
 देराणी रा रत्न डावला बहुलारत्न चोराणा
 झगडाकरता न्याय हुआ जव कछुय न पाया नाणा गोतम ॥५॥
 भरतराय जव ऋषभन पूछे, इसमें काण जिनन्दा
 मरिची पुत्र त्रिदडी तुमारो, चावीशमाजिणत्रा हो गातम ॥६॥
 कुलना मद कियो मंगोतम, भरतराय जव वाधा
 मन बचन काया एकत्र करीन, हरख्या अतिह आणन्दा गातम ॥७॥
 कम सयाग भिक्षु कुल पाया, उपन्या ब्राह्मणी कूँख
 इन्द्र अवाधि जातादख्या ज्ञान प्रयुज तह हा गातम ॥८॥

व्यासीदिन तस कुखे वसियो, हरिण गमपी आयो
 पूर्वभव त्रिशला देराणी तस कुखे छिटकायो हो गोतम ॥९॥
 ऋषभदत्तने देवानन्दा, लीघो संयम भार
 तव गोतम यह मुक्ते जासी, भगवती सूत्रनी साक्षी गोतम ॥१०॥
 सिद्धारथ त्रिशला देराणी, अच्युत देवलोक जाशे
 आचारंगे दूजे खंधे, इम कही सूत्रनी साक्षे हो गोतम ॥११॥
 खरत्र गच्छ श्री पति जिन चंदा, दिनी मनोहर वाणी
 विनय करी गुरू गोतम पूछे, उलट अंगे आणी हो गोतम ॥१२॥

मौन एकादशी की सज्जाय

आज मारे एकादशी रे, नणदल मौन करी मुख रहिये
 पुछाने प्रत्युत्तर पाछो केइने कांइ नही कहिये ॥१॥
 मारो नणदोई तुझने वालो, मुझने ताहरो वीरो
 घुआडमा वाधज भरता, हाथ ना आयो हीरो ॥२॥
 घरनो घन्धो घणो इज करियो, एक न आयो आडो
 परभव जाता पालव झाले, ते मुझने देखाडो ॥३॥
 .मिगसर सुद इग्यारस मोटी, नेवुं जिनने निरखी
 दोड सौ कल्याणक मोटा पोधी जोईने हरखो ॥४॥
 सुव्रत सेठ थयो शुद्ध श्रावक मौन करी मुख रहियो
 पावापुर सघलो प्रजलियो, तेहनो कांई नही दहिओ ॥५॥
 आठ पहरनो पोसह करियो ध्यान प्रभुजीनां धरीयो
 मन वच काया जो वश करियोतो भव सागर तरियो ॥६॥
 इर्या समितिभाषा न बोले, आइु अचलु पेखे
 पडिक्कमणा सुप्रेम न राखो, कहो किम लागे लेखे ॥७॥

कर उपर तो मालाफेरे, जीम फिरे मन माही	
चितडु तो चिहु दिशी डोले, इण भजने सुख नहीं	॥८॥
पोषघशाले भेगा धईने चार कथावली साधे	
कोईक पाप मिटावन आवे, आठ गुणा वली वाधे	॥९॥
एक उठन्ती आलस मोडे, बीजी ऊँधे बैठी	
नदियों माधी काइक निसरति जई दरिया में पेठी	॥१०॥
जोनियो ने जिमण वाल्हो, वरने वाली कन्या	
मोरी बायोने वातो वाहली, ज्युमत वालो सिरो	॥११॥
आई बाई नणद भोजाई नानी मोटी बहुने	
सासु सुसरो माने मासी, सिखामण छे सहुने	॥१२॥
उदय रत्न वाचक उपदेशे जे नरनारी भणसे	
पोसह माही प्रेम करीने अविचल लीला लेशे	॥१३॥

सज्जाय

धरम मगल महिमानिलो, धर्म समो नहीं कोय	
धर्म सुद्धेनमे देवता धर्म शिव सुख होय	॥१॥
जीव दया नित पालीये सयम सत्तर प्रकार	
बारह भेदे तप तपे, धर्म तणो ए सार	॥२॥
जीम तरुवर नेफूलडे, भँवरो रस लई जाय	
तिम सतोषे मुनि आत्मा, फूल पीडा नवि थाय	॥३॥
इण विध विचरे गौचरी, वोहरे सूजतो आहार	
ऊँच नीच मध्यम कुले धन-२ ते अणगार	॥४॥
मुनिवर मधुकर सम कहे नहीं निसावे नहीं रोष	
लाधो भाडो दियेदेहने अणलाधे सतोष	॥५॥
अध्ययन पहेला दुम पुफिये सखरा अर्थ विचार	
पुण्य कलश शिष्य जेतसी धर्म जय जय जयकार	॥६॥

महावीर स्वामी पंचकल्याणक

दुहा:

शासन नायक शिवकरण, वंदु वीर जिणंद,
पंच कल्याणक जेहना, गाशुं घरी आनंद.. १

सुणतां धुणतां प्रभुतणां, गुण गीरूआ एकतार,
ऋद्धि वृद्धि सुख संपदा, सफल हवे अवतार २

ढाल पहली :

(बापडी सुण जीभलडी - देशी)

सांभलजो ससनेही सयणां, प्रभुना चरित्र उल्लासे
जे सांभलशे प्रभु गुण तेहना, समकित निर्मल धासे रे सांभळ .. १

जंबुद्वीपे दक्षिण भरते, माहणकुंडग्रामे,
ऋषभदत्त ब्राह्मण तस नारी, देवानंदा नामे रे सांभल .. २

आषाढ शुद्ध छटठे प्रभुजी, पुष्पोत्तरथी चविया
उत्तराफाल्गुनी योगे आवी, तस कुखे अवतिरया रे सांभल .. ३

तीन रयणीसा देवानंदा, सुपन गजादिक निरखे
प्रभाते सुणी कंध रिषभदत्त, हियडेमांहि हरखे सांभल .. ४

भाखे भोग अर्थ सुख होस्ये, होस्ये पुत्र सुजाण,
ते निसुणी सा देवानंदा, एकिधु वचन प्रमाण रे सांभल .. ५

भोग भला भोगवता विचरे, एहवो अचिरज होवे
शतक्रतु जीव सुरेश्वर हरख्यो, अवधिये प्रभुने जोवेरे सांभल.. ६

करी वंदनाने इन्द्र सन्मुख, सात आठ पग आवे
शक्रस्तव विधि सहित भणिने, सिंहासन सोहावे रे सांभल.. ७

संशय पडियो एम विमासे, जिन चक्री हरि राम
तुच्छ दरिद्र माहणकुंड नावे, उग्र भोग विण धाम रे सांभल.. ८

अतिम जिन माण्डुकुड आव्या, अहु अछठ कहीय,

उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अनती, जाता एहवु लहीय रसाभल ९

इण अवसर्पिणी दश अछरा, धया त कहीय तेह

गर्भहरण गाशाला - उपसग, निष्फल दशना जेह र साभल १०

मूल विमान रवि शशी आव्या, चमराना उत्पात,

ए श्री वीर जिनश्वर चार, उपना पच विख्यात र साभल ११

स्त्री तीर्थ मल्लिजिन चार, शीतलन हरिवश,

ऋषभने अठात्तरसा सीघा, सुविधि असजति सस र साभल १२

शख शब्द भीलीया हरिहरस्यु नमीश्वरन चार

तीम प्रभु नीचकुल अवतरीया, सुरपति एम विचारसाभल १३

ढाल दूसरी

(नदी यमुना के तीर - देशी)

भव सत्तावीश स्थुलमाहि त्रीज भव, मरिचि कीया कुलमद भरतजदा
स्तव

निचगात्र कर्म वान्ध्यु तिहा त थकी,

अवतरिया माहण कुलक अतिम जिनपति १

अति अघटतु एह धया घाश नहीं,

ज प्रसव जिन चक्री नीच कुले नहीं

इहा मारो आचार घरू उत्तम कुले

हरिणगमेपी दव तडाव एटले भव २

कहे माहणकुड नयरे जई उचित करो,

देवानदा कुखेधी प्रभुने सहरो

नयर श्रत्रियकुड राय सिद्धारथ गहनी,

त्रिशला नामे घरो प्रभु कुखे तेहनी भव ३

- त्रिशला गर्भ लेइने धरो माहणी उरे,
 ब्यासी रात वसीने कहुं तीम सुर करे,
 माहणी देखे स्वप्न जाणे त्रिशला हर्या
 त्रिशला सुपन लहे तव चौद अलंकर्या भव४
- हाथी वृषभ सिंह लक्ष्मी माला सुन्दरू,
 शशी रवि ध्वज कुंभ पद्म सरोवर सागरू,
 देव विमान रयणपुंज अग्नि विमल हवे,
 देखे त्रिशला एहके पीडने बीनवे भव५
- हरख्यो राय सुपन पाहक तेडावीया,
 राजभोग सुतफल सुणी ते वधाविया
 त्रिशलाराणी विधिस्यु गर्भ सुखे हवे
 माय तणे हित हेतके प्रभु निश्चत रहे भव६
- माय घरे दुःख जोर विलाप घणुं करे,
 कहे में किधा पाप अघोर भवांतरे,
 गर्भ हर्यो मुझ कोण हवे केम पामीये,
 दुःखनो कारण जाणी विचार्युं स्वामीये भव७
- अहो अहो मोह विटंबना जालीम जगतमे,
 अण दीठे दुःखं एवडो उपायो पलकमें,
 ताम अभिग्रह धारे प्रभु ते कहुं
 मात पिता जीवतां संयम नवि ग्रहं भव८
- करुणा आणी अंग हलाव्युं जिनपति
 बोली त्रिशला माता हिये घणुं हिंसती
 अहो? मुज जाग्या भाग्य गर्भ मुज सलबल्यो
 सेच्यो श्री जैनधर्म के सुरतरू जिम फल्यो भव९

सखीय कह शीखामण स्वामिनी साभलो
हलव हलव वोलो हँसो रगे चलो,
इम आनदे विचरता डोहला पूरते
नव महिनाने साडा सात दिवस धते

भव १०

चैत्रतणी सुद तरस नक्षत्र उत्तरा -

जोगे जनम्या वीरके तव विकसी घरा

त्रिभुवन में थया उद्योत क रग वधामणा

साना रूपानी वृष्टि कर घरे सुरघणा

भव ११

आवी छप्पन्न कुमरी क ओच्छव प्रभुतणे

चल्यु रे सिंहासर इद्र के घटा रणझणे

मली सुरनी कोडके सुरवर आवीयो,

पचरूप फरी प्रभुने सुरगिरि लावीयो

भव १२

एक कोड साठ लाख कलश जलशु भर्या

किम सहस्ये लघुवीर के इन्द्र सशय धर्या,

प्रभु अगुढ मरू चाप्या अति गडगड

गडगड पृथ्वी लोक जगतनी लडघडे

भव १३

अनत वली प्रभु जाणी इन्द्र खमावीयो

चार वृषभना रूपकरी जल नामीओ

पूजी अर्ची प्रभुन माय पास घर,

धरी अगुठ अमृत गया नदीश्वरे

-भव १४

ढाल तीसरी

(हमयचडीकी देशी)

- करी महोत्खव सिद्धार्थ भूप, नाम धरे वर्धमान.
 दिन दिन वाधे प्रभु सुरतरु जिम, रूप कला असमानरे हमचडी १
- एकदिन प्रभुजी रमवा कारण, पूर बाहिर जावे रे
 इंद्रमूखे प्रशंसा सुणी तिहाँ, मिथ्यात्वी सुर आवे रे हमचडी २
- अहिरूपे विंटाणो तरस्यु, प्रभु नाख्यो उछाली
 सात ताडनुं रूप कर्यु तव, मूठे नाख्यो वाली रे हमचडी ३
- पाये लागीने ते सुर खामे नाम धरे महावीर
 जेवां इंद्र वखाण्यो स्वामी, तेचो साहस धीरे रे हमचडी ४
- मातपिता निशाले मूके आठ वरसना जाणी
 अनुक्रमे योवन पाय्या प्रभुजी, वर्या यशोदा राणी हमचडी ५
- अटठावीस वरसं प्रभुना, मातपिता निर्वाणी रे
 इंद्रतणां तिहां संशय टाल्या, नव व्याकरण वखाणी रे हमचडी ६
- दोयवरस भाईने आग्रह प्रभु घरवासे वसीया
 धर्म पंथ देखाडो इम कहे, लोकांतिक उलसीया रे हमचाडी ७
- एक क्रांड आठ लाख सोनाईया, दिनदिन प्रभुजी आवे
 इम सँवत्सरी दान देईने, जगना दारिद्रय कापे रे हमचडी ८
- छोड्या राज अंते उर प्रभुजी, भाईये अनुमति दीधी
 मृगशर वद दशमी उत्तराये वीरे दीक्षा लीधी रे हमचडी ९
- चडनाणी तिण दिनथी प्रभुजी, वरस दिवस झांझेरा
 चिवर अर्ध ब्राह्मणने दिधुं, खंड खंड बे फेरी रे हमचडी १०
- घोर परिसह साडा बारे, वरस जे जे सहीया
 घोर अभिग्रह जे जे धरीया, ते नचि जाये कहीया रे हमचंडी ११

शूलपाणी न सगमदच चडकोशिक गोसाल दीधु दु खने पायस राधी, पग उपर गावाले रे	-	हमचडी १२
काने गापे खीला माया, काढता मूकी चिगटी ज साभळता त्रिभूवन काप्या, पर्वत शीला फाटी रे		हमचडी १३
तेत दुष्ट सहउद्धरीया, प्रभुजी पर उपगारी उडदतणा चाकुला लईने, चदनवाला तारी र		हमचडी १४
दाय छमासी नव चौमासी, अढोमासी त्रणमासी दोढ मासी बे वे कीघा, छ कीघा वमासी रे		हमचडी १५
वारमास ने परव बहॉतर, बस आगगत्रीस चखाणु वार अड्डम भद्रादि प्रतिमा दिन दाइ चार दश जाणु रे		हमचडी १६
इम तप किघा वारे चरस, विण पाणी उल्लासे तमा पारणा प्रभुजीए कीघा, त्रणसे ओगण पचास रे		हमचडी १७
कम खपावी वैशाख मास, सुद दशमी सुभ जाण उत्तराया शालिवृक्ष तल, पाम्या कवल नाण रे		हमचडी १८
इद्रभूति आदिप्रतिवाध्या, गणधर पदवी दीधी साधु साध्वी श्रावक श्राविका, सघ स्थापना कीधी रे		हमचडी १९
चउदसहस अणगार, साध्वी, सहस्स छत्रीस कहीज एक लाखने सहस गुणसदठी, श्रावक शुद्ध कहीज रे		हमचडी २०
तीन लाख अठार सहस्स वली, श्राविका सख्याजाणी त्रणसे चउद पूवधारी, तेरसे ओहीनाणी रे		हमचडी २१
सात सया त केवलनाणी, लब्धिघा पण तेता विपुल मतिया पाचसे कहीया, चारसे वादी जित्या रे		हमचडी २२
सातसे अतेवासी सिद्धाया, साध्वी चउदसे सार दिन दिन तेज सवाये दीपणे, प्रभुजीना परिवार र		हमचडी २३

तीस वरस घरावसे वसीया, वार वरस छत्रस्थे	
तीस वरस केवल वेंतालीस, वरस समणा मध्ये रे	हमचडी २४
वरस बहोंतेर केरु आयु, वीर जिणंदनुं जाणो	
दीवाली दिन स्वाति नक्षत्रे, प्रभूजीनुं निर्वाण रे	हमचडी २५
इम चरम जिनवर सयल सुखकर, थुण्यो - अति उलट धरी	
आषाढ उज्जवल पंचमी दिन, संवत शत त्रीहोतरे	हमचडी २६
भादरवा शुद्ध पडवा तने दिन, रविवारे उलट भरी ।	
विमल विजय उवज्झाय पदकज, भ्रमरसम शुभ शिष्य ए	
राम विजय जिनवर नामे, लहे अधिक जगीस ए	हमचडी २७

रिषभदेवजी का बारहमासा

॥ आषाढ ॥

हे जी मरूदेवा जी सोच करत है मन में ।

मेरा रिषभ गया क्यों वन में ॥

प्रथम महीना जी लगा आसाढ चौमासा ।

इन्दर वरसन की आसा ॥

मरूदेवी जी मन में भई उदासा ।

प्रभु ऋषभ गये बनावासा ॥

॥ दोहा ॥

ऋषभ प्रभु वन को गये, जगत सुधारन काज ।

भरतादिक सौ पुत्र को बाट दियासब राज ॥

पुत्र तुम सब ही जी, भगन होय रहै धन में

॥ १ ॥

॥ सावन ॥

सावन महीना जी रिमझिम मेहुला वरसे ।

मेरा पुत्र बिना जी तरसे ॥

भरतादिक जी सो पुत्रन के डरसे ।

मेरा नन्द निकल गया घरसे ॥

॥ दोहा ॥

नगर अयोध्या यू झूरे, कहा गये महाराज ।

देत ओलभा भरत को, मेरा पुत्र मिलावो आज ।

अजीतो मेरे सुत विन जी, प्राण निकलसी छिन में ॥

मेराऋषभ गया क्यों वनमें

॥ २ ॥

(१७०)

॥ भादों ॥

भादों महीना जी तज धन दौलत माया ।
अजीतो वो गये अकेली काया ॥
भरतादिकजी तो मन में हर्षाया राज येबिना कमाया ॥

॥ दोहा ॥

नित नव नाटक होत हैं, कर रहे भोग विलास ।
सब मायाये ऋषभ की वोछोड गया वनवास ॥
हे जी जगतारन जी दुखी हो गया तन में ।
मेरा ऋषभ गया क्यों वन में

॥ ३ ॥

॥ आसोज ॥

आसोज महीना जी सूरत की छवि लागी ।
पुत्र तो हो गये बैरागी, धन के लोभी जी उससे भये निरागी
कभी खबर न ले बड भागी ॥

॥ दोहा ॥

भरत कहे सुन मात जी, मत कर वृथा विलाप ॥
तीन लोक तारन तरन आवेंगें प्रभु आप ॥
इन्द्र पद सेवेंजी, नहीं रहें विघन में।
मेरा ऋषभ गया क्यों वन में

॥ ४ ॥

॥ कार्तिक ॥

कार्तिक महीना जी कब, वो ऋषभ घर आवे ।
मोहे सुरत आन बतावे, नहीं कागज भी मुझको ॥
पुत्र पढावे ॥ मेराजीव बहुत दुख पावे ॥

॥ दोहा ॥

झुरती निश दिन पुत्र को रोरो खोई आंख ।
उडकर मिलती ऋषभ से, जो देत विधाता पांख ।

मोर पपैया जी मगन जो रहते घन में ।

मेरा ऋषभ गया क्यों वन में

॥ ५ ॥

॥ मार्ग सिर ॥

मार्ग सिर महीना जी भरत बाहुबल भाई ।

आपस मेंकरे लडाई ॥

भरत यू कहता जी मानो मेरी दुहाई ।

सब सेना चढकर आई ॥

॥ दोहा ॥

बाराबरस लडते हुवे इन्द्र रहे समझाय ।

चक्रवर्ति चिन्ता ग्रहे भये चन्द्र जसराय ॥

जीत के कारण जी खडे बाहुबल रन में ।

मेरा ऋषभ गया क्यों वन में

॥ ६ ॥

॥ पौष ॥

पौष का महीना जी पडे ठड का पाला ।

ऋतु आया कठिन सियाला ॥

कहा वह होगा जी ऋषभ जगत प्रतिपाला ।

मैं रटूँ ऋषभ की माला

॥ दोहा ॥

क्या कोई परवत की ओट मेंहोगा मेरा नन्द ।

ठड ताप की विपत्ति से, सहे बहुत दुख वृन्द ॥

भरत मेरा सुतका जी, नहीं फिकर तेरे मन में ।

मेरा ऋषभ गया क्यों वन में

॥ ७ ॥

॥ माघ ॥

माघ का महीना जी किससे कहू दुख मेरा ।

सब पुत्र विना अधेरा ॥

पुत्र घर आवो जी मै देखुं मुख तेरा ।

कोई देवे ऋषभ का वैरा ॥

॥ दोहा ॥

इन्द्रादिक जाको नमें रहे सदा कर जोड ।

राज रमन की संपदा वोगया छिनक में छोड ॥

ऐसा निरमोहही जी पटका विरह दहन में ।

मेरा ऋषभ गया क्यो वन में

॥ ८ ॥

॥ फागुन ॥

फागुन महीना जी नीर नयन में भरती ।

मै सूने मन सेफिरती ॥

भरत यूं कहता जी सोच फिकर क्यों करती ।

रहे निश दिन मुझसे लडती ॥

॥ दोहा ॥

भरत विविध तर भांति से कहता बात बनाय ।

वन पालक उद्यान के देई बधाई आय ॥

प्रभु पधारे जी सेवत है मुनी जन में ।

मेरा ऋषभ गया क्यो वन में

॥ ७ ॥

॥ चैत ॥

चैत का महिना जी हय गय रथ सब त्यारी ।

शिणगारी सेना भारी ॥

भरत कर जोडी जी मरूदेवी मनोहारी ।

चलो देखो पुत्र सुखकारी ॥

॥ दोहा ॥

इन्द्र ध्वज आगे चले भामंडल रहे लार ।

चौसठ सुरपतिचंवर करें दुंदुभी गगन मझार ॥

(१७३)

ए सुत तेरा जी विलसे सुख सूरी गन में ।
मेरा ऋषभ गया क्यो वन में

॥ १० ॥

॥ वैशाख ॥

वैशाख महीना जी मरूदेवी मन हरषे ।

जब ऋषभ प्रभु मुख निरखे ॥

नयन पट उघडे जी वीतराग पद सरखे

चढे शुक्ल ध्यान कू परखे ॥

॥ दोहा ॥

गज उपर मुक्ति गई जी मरू देवी मात ।

पहिले शिवजननी दिया ऐसे ऋषभ सुजात ॥

जग सुखकारन जी विचरे प्रभु मगन में

मेरा ऋषभ गया क्यो वन में

॥ ११ ॥

॥ जेठ ॥

जेठ का महीना जी ऋतु गरमी की आई ।

में ऋषभ चरण लाई ।

दरस नित तेरा जी मुझकु है सुखदाई ।

सेवा प्रेम सदा मन भाई ॥

॥ दोहा ॥

धरम शील आधार से, कुशल सदा आनन्द ।

रिद्धिसार जिन नाम से, रहे दूर दूख द्वन्द ॥

हे जी मन सुधकर जी राखो जिन चरनन में

मेरा ऋषभ गया क्यो वन में

॥ १२ ॥

मयणासुंदर और श्रीपाल महाराज का गरबा (स्तवन)

(राग-सोना इंडोणी रूपा बंडलुरे लाला)

आसो मासे ते ओली आदरी रे लोल ।
 धर्यु नवपदजीनुं ध्यान रे ।
 श्रीपाल महाराजा मयणा सुंदरी रे लोल ॥
 मालव देशनो राजीयोरे लोल, नामे प्रजापाल भूपरे श्री.
 सोभाग्यसुंदरी रूपसुंदरीरे लोल राणी नेरूप भंडार रे श्री.
 एक मिथ्यात्वी धर्म रे लोल, बीजीने जैनधर्म, रागरे श्री.
 पुत्री अकेकी बेयनेरे लोल, वधे जीम बीज केरोचंदरे श्री.
 सोभाग्य सुंदरीने सुरसुंदरी रेलोल, भणे मिथ्यात्वी पासरे श्री.
 मयणा सुंदरीने रूपसुंदरी रे लोल, भणावे जैनधर्म साररे श्री.
 रूपकलागुणे शोभतीरे लोल चोसठ कलानी जाणरे श्री.
 बैठो सभामां राजवीरे लोल, बोलावे बालीका दोयरे श्री.
 सोले शणगार सजीकरीरे लोल, आवी उभी पितानीपासरे श्री.
 विद्या भणाऊं जोवा पारखुरेलोल, राजा पुछे हवे प्रश्नरे श्री.

साखी ।

जीव लक्षण शुं जाणवुं, कोण कामदेव घरनार ।
 शुं करेपरणी कुमारीका, उत्तम फुल शुं सार ॥
 राजा पुछे ए चारनो, आपो उत्तर एक ।
 बुद्धिशाली कुमारीका आपे उत्तर छेक ॥
 श्वास लक्षण पेलुं जीवनुं रे लोल, रतिकामदेव घरनाररे श्री.
 जायनुं फुल उत्तम जातिमारे लोल, कन्या परणीने सासरे जायरे

साखी ।

प्रथम अक्षर वीणा जीवाडनार जगनो कह्यो ।
 मध्यम अक्षर वीणा, सहार जगनो ते धयो ॥
 अतिम अक्षर वीणा, सौ मन मीठु सोय ।
 आपो उत्तर एकमा, जेंम स्त्रीने व्हालु होय ।
 आपे उत्तर मयाणासुंदरीरे लोल, मारी आखोमा काजल सोय रे
 साखी ।

पेलो अक्षर काढता, सोहे नरपति सोय
 मध्याक्षर वीण जाणवु, स्त्री मन वहालु होय ॥
 त्रीजो अक्षर काढता, पडितने प्यारो भयो ।
 मागु उत्तर एकमा, ताते पुत्रीने कह्यो
 मयणाए उत्तर आपीओरेलोल, अर्धत्रणेनो बादल धाय रे श्री
 राजा पुछे सुरसुन्दरीरे लोल, पुण्यधी शु शु पसाय रे श्री
 धन यौवन सुन्दर देहडीरेलोल, चोधो मन वल्लभ भरताररे ॥
 कहे मयणा निज तातनेरे लोल, सह पामीए पुन्य पसायरे ॥
 शीयल व्रते शोभे देहडीरेलोल, बीजी बुद्धीन्यायेकरी होयरे ॥
 गुणवत गुरूनी सगतीरेलोल, मीले वस्तु ए पुन्यने योगरे ॥
 बोले राजा अभिमाने करी रे लोल, करू निर्धने धनवतरे ॥
 सर्वे लोकोसुख भोगवे रे लोल, एछे सघलो मारो पसाय रे ॥
 सुरसुन्दरी कहेतातनेरे लोल, ए साचामा सानो सदेहरे ॥
 रायत्रुठो सुरसुन्दरी रे लोल परणावी पहेरामणी कीध रे ॥
 शखपुरीनो राजीयोरेलोल, अरिदमन जेनु नाम रे ॥
 राय सेवार्थे आचीयोरे लोल, सुरसुन्दरी आपी सोय रे ॥
 राये मयणाने पुछीयुरे लोल, मारी वातमा तने सदेहरे ॥
 मयणा कहे निज तातने रे लोल, तमे शाने करो अभिमान रे ॥

संसारमां सुख दुःख भोगवेरे लोल, तेकर्मतणोछे पसायरे ॥
 राजा क्रोधे करी कलकल्योरेलोल, मयणासुँ भाखे बयणरे ॥
 रत्नहींडोले तुं हींचतीरेलोल, पहेरी रेशमी उंचा पटकुलरे ॥
 जगत सौ जीजी करे रेलोल, चाकर करे पग सेवरे ॥
 ते मारापसायथी जाणजेरेलोल, रूठे रोलीनाखुँ पलमांयरे ॥
 मयणा कहे तुम कुलमारेलोल उपजवानो क्यां जोयतोजोषरे ॥
 कर्म संयोगे उपनीरे लोल, मल्याखान पान आराम रे ॥
 तमे म्होटे मने महलावतारेलोल, मुज कर्म तणो छे पसाय रे ॥
 राजा कहे कर्म उपरेरेलोल, दीसेतनेघणोहठवादरे ॥
 कर्म आणेला भरतारनेरेलोल, परणावी उताखुँ गुमान रे, ॥
 राजा क्रोध ने समावचारे लोल, लइचाल्यो रयवाडी प्रधान रे ॥
 नवपदध्यान पसायथी रेलोल, सवी संकट दुर पलाय रे ॥
 कहयुं न्यायसागरे पेली ढालमांरे लोल, नवपदथी नव निधथायरे ॥

गरबा नं. २

(राग - दिल के अरमा....)

राजा चाल्यो रयवाडीये, साथेलीधो सैन्यनो परिवार रे
 साहेली मोरी, ध्यान धरोरे अरिहंतनुं ।
 ढोल निशान तिंहा धूरके,
 बरछीओने भालोनो झलहाटरे ॥ सा. ॥
 धूल उडेने लोको आवता,
 राजा पूछे प्रधानने ए कोणरे ॥ सा. ॥
 कहे प्रधान सुणो भूपति,
 एछे सातसो कोढीओनुं सैन्यरे ॥ सा. ॥
 राजा राणानी पासे याचवा,
 आवे कोढिया स्थापी राजा एकरे ॥ सा. ॥

कोढे गलीछे जेनी आगुली, याचवा आव्यो कोढीयाकेरो दूतरे	॥ सा ॥
राणी नहिरे अम राजवी, उचा कुलनी कन्यामले कोइरे	॥ सा ॥
डाढ खटकेरे जाणे काकरो, नयण खटके तेतो रेणु समानरे	॥ सा ॥
वयण खटके रे जेम बाउलो, राजा हैडे खटकेमयणा बोल रे	॥ सा ॥
कोढीया राजाने केचराव्यु, आवजो नगरी उजेणीनी मायरे	॥ सा ॥
कीर्ति अविचल राखवा, आपीस मारी राजकुँचरी कन्यायरे	॥ सा ॥
उबर राणो हवे आवीयो, साथे सातसो कोढीआओनु सैन्य रे	॥ सा ॥
आव्यो वरघोडो मध्य चौकमा खच्चर ऊपर बेठी उबर रायरे	॥ सा ॥
कोई लुलाने कोई पागला, कोईनामोटा सूपडा जेवा कानरे	॥ सा ॥
मोढे चादाने चाठा चगचगे, मुख उपर माखीयोनो भणकाररे	॥ सा ॥
शोर बकोर सुणी सामटा, लाखो लोको जोवा भेगा धायरे	॥ सा ॥
सर्वे लोको मली पुछता, भूत प्रेत के रखे होय पिशाचरे	॥ सा ॥
भूतडा जाणीने भसे कुतरा,	

लोको मन थयो छे उत्पातरे	॥ सा. ॥
जानलेइने अमे आवीया,	
परणे अमारो राणो राज कन्यायरे	॥ सा. ॥
कौतुक जोवाने लोको साथमां	
उंबरराणो आव्यो रायनी पासरे	॥ सा. ॥
हवे राय मयणाने कहे, सांभलो	
कर्म आव्यो करो तुमे भरताररे	॥ सा. ॥
करो अनुभव तमे सुखनो,	
जुओ तमारा कर्म तणो पसायरे	॥ सा. ॥
कहयुं न्यायसागरे बीजी ढालमां,	
नवपद ध्याने थासे मंगल माल रे	॥ सा. ॥

गरबा नं. ३

(राग-सोना इंडोणी रूपा बेडलुरे लोल)

तात आदेशे मयणा चिंतवेरे लोल,	
जे ज्ञानीए दीठुं ते थायरे	
कर्मतणी गति पेखजोरे लोल,	
अंश मात्र खेद नथी आणतीरे लोल,	
न मुखडानो रंग पलटायरे	॥ कर्म ॥
हशे जायो राजानो केरंकनोरे लोल	
पिता सोंपेछे पंचनी साखरे	॥ कर्म ॥
एने देवनी पेरे आराधबोरे लोल,	
उत्तम कुलनी स्त्रीनो आचार रे लोल	॥ कर्म ॥
एम विचारी मयणा सुंदरीरे लोल,	
कर्युं तात वचन प्रमाण रे	॥ कर्म ॥

मुखरग पुनमनी चादनीरे लोल,	
शास्त्रे लग्न वेला जाणी शुधरे	॥ कर्म ॥
आची उबर राणानी डाबी बाजुएरे लोल	
जाते करेछे हस्त मेलापर	॥ कर्म ॥
कोढीयो राणो कहे रायने लोल,	
काग कठे मोती ना सोहायरे	॥ कर्म ॥
होय दासी कन्या तो परणावजोरे लोल,	
कोढी साथी शुँ राज कन्याय रे	॥ कर्म ॥
माता मयणानी झूरतीरे लोल,	
रोवे माता कुटुम्ब परिवार रे	॥ कर्म ॥
कोई राजाना रोषने धिक्कारतारे लोल,	
कोई कहे कन्या अपराधरे	॥ कर्म ॥
देखी राजकुँवगी अति दीपतीरे लोल,	
रोगी सर्वे धया रलीयातरे	॥ कर्म ॥
चाली मयणा उबर साथमारे लोल,	
ज्या छे कोढीतणो जानीवासरे	॥ कर्म ॥
हचे उबर राणो मन चितवेरे लोल,	
धीक धीक म्हारो अवतार रे	॥ कर्म ॥
सुदर रगीली छबी शोभती रे लोल,	
तेनुँ जीवन कर्यु मे धूल रे	॥ कर्म ॥
कहे उबर राणो, मयणा सुदरीरे लोल,	
तमे उँडो करोने आलोच रे	॥ कर्म ॥
तारी सोना सरीखीछे देहडीरे लोल,	
मारी सगतधी धासे विनाशरे	॥ कर्म ॥
तुतो रूपेकरी रभा सरीखीरे लोल,	
मुज कोढी साथे शु स्नेह रे	॥ कर्म ॥

पति उंबर राणाना वयण सांभली रे लोल,
 मयणा हैडे दुःख न समायरे
 ढलक ढलक आंसु ढलेरे लोल,
 काग हसवुं देडक जीव जायरे

॥ कर्म ॥

॥ कर्म ॥

॥ साखी ॥

कमलीनी जलमां बसे, चंदा बसे आकास ।

जे जीहारे मन बसे, ते तींहारे पास ॥

हवे मयणा कहे उँबर रायनेरे लोल,

तमे वालाछो जीवन प्राणरे

॥ कर्म ॥

पश्चिम रवि उगे नहिं रे लोल,

नवी लोपे जलधी मर्यादरे

॥ कर्म ॥

सती अवर पुरुष इच्छे नहिंरे लोल,

कदि प्राण जाये परलोकरे

॥ कर्म ॥

पंचनी साखे परणावीयारे लोल,

अवर पुरुष बंधन मुज होय रे

॥ कर्म ॥

हवे पाये लागीने विनवेरे लोल,

तमे बोलो विचारीने बोल रे

॥ कर्म ॥

रात्री वीती एम वांतमारे लोल,

बीजे दीन थयो परभातरे

॥ कर्म ॥

हवे मयणा आदिश्वर भेटवारे लोल,

जाय साथे लइ भरताररे

॥ कर्म ॥

प्रभु कुँकुम चंदने पुजीया रे लोल,

प्रभु कंठे ठवी फुल माल रे

॥ कर्म ॥

करी चैत्यचंदन भावे भावनारे लोल,

घरे मयणा काउसग्ग ध्यानरे	॥ कर्म ॥
प्रभु हाथे बीजोरु शोभतुरे लोल,	
चली कठे शोहे फुलमालरे	॥ कर्म ॥
शाशन देवे सहु देखतारे लोल,	
आप्यु बीजोरु ने फूल माल रे	॥ कर्म ॥
लीधुँ उबर राणाए ते हाथमा रे लोल,	
मयणा हैयडे हरख न मायरे	॥ कर्म ॥
पौषध शालामा गुरु वादवारे लोल,	
चाली मयणा साथे भरतार रे	॥ कर्म ॥
गुरु आपे धर्मनी देशनारे लोल,	
छे दोहिलो मनुष्य अवतार रे	॥ कर्म ॥
पाच भूल्योने चार चुकीयोरे लोल,	
त्रणनु जाएयु नहि नामरे	॥ कर्म ॥
जग ढढेरी फेरीयोरे लोल,	
श्रावक हमारु नामरे	॥ कर्म ॥
पपासु परख्यो नहिरे लोल,	
वाला दाहो कीधो छे दूर रे	॥ कर्म ॥
लल्लासु लागी रह्यो रे लोल,	
वाला नन्नो रह्यो छे हजूर रे	॥ कर्म ॥
उबर मयणाए गुरु वादीयारे लोल,	
गुरु दीधो छे धर्म लाभरे	॥ कर्म ॥
सखी परिवारे तु शोभतीरे लोल,	
आज सखी न दिखे एकरे	॥ कर्म ॥
सर्व वृत्तान्त सुणावीयोरे लोल,	
एक वातनु छे मने दु खरे	॥ कर्म ॥

जैन शासननी हिलनारे लोल, करे मुरख मिथ्यात्वी लोकरे	॥ कर्म ॥
हवे मयणा गुरूने बिनवे रे लोल, मटे रोग जो मुज भरतार रे	॥ कर्म ॥
लोक निंदा टले जेहथी रें लोल, उपाय कहो गुरू राजरे	॥ कर्म ॥
यंत्र जडी बुटी औषधीरे लोल, मणी मंत्र बीजा उपचाररे	॥ कर्म ॥
गृहस्थीने कहेवा तणोरे लोल, नही साधुनो एह आचार रे	॥ कर्म ॥
गुरू कहे मयणा सुन्दरी रे लोल, आराधो नवपद सार रे	॥ कर्म ॥
जेथी विघन सहू दुर थशें रे लोल, धर्म उपर राखो मन दृढ रे	॥ कर्म ॥
कहे न्यायसागर त्रीजी ढालमारें लोल, तमे सांभळजो नरनार रे	॥ कर्म ॥

गरबा नं. ४

(देशी - गुलाबे रमतीथी)

मयणा सिद्धचक्र आराधे, गुलाबे रमती थी ।	
निज पति उंबरनी साथे, जापोने जपतीथी ॥	
पेले पदे अरिहंत पूजे	॥ गु. ।.
हण्या घाति अघाति ध्रुजे	॥ जा. ॥
त्रण लोक ठकुराइ छाजे	॥ गु. ॥
वाणी पुर योजना मां गाजे	॥ जा. ॥

बीजे सोहे सिद्ध महाराज	॥ गु ॥
त्रण लोकना थइ शीरताज	॥ जा ॥
त्रीजे पदे आचारज जाणो	॥ गु ॥
मली लाकडी अध प्रमाणो	॥ जा ॥
चोधे पदे उपाध्याय शोहे	॥ गु ॥
भणे भणावे जन मन मोहे	॥ जा ॥
पद पाचमे साधु मुनिराया	॥ गु ॥
गुण सत्तावीसे सोहाया	॥ जा ॥
मन वचन गोपवी काया	॥ गु ॥
वन्दु तेवा मुनिवर राया	॥ जा ॥
छट्टे दर्शन पद छे मूल	॥ गु ॥
कोई आवे नहि तस तोल	॥ जा ॥
सोहे सातमु पद वरनाण	॥ गु ॥
तेना भेद एकावन जाण	॥ जा ॥
ज्ञान पाचमु केवल थाये	॥ गु ॥
त्रण लोकना भाव जणाये	॥ जा ॥
पद आठमे चारित्र आवे	॥ गु ॥
देवो इच्छा करे ना पावे	॥ जा ॥
भवी जीव ते भावना भावे	॥ गु ॥
कोई रीते उदयमा आवे	॥ जा ॥
करो नवमे तप पद भावे	॥ गु ॥
आठ कर्मो वली राख थावे	॥ जा ॥
रिद्धी आत्म अनती पावे	॥ गु ॥
देव देवी मली गुण गावे	॥ जा ॥
प्रभु पुजो केशर मद घोली	॥ गु ॥

- ढोल - धर्मशाला रे, पूंजी इरिया पिडकमे,
 थे पालो रे, स्थापना पहिले हे समय ।
 मुँहपति रे, पडिलेही ऊभा थई,
 करे गुरु मुख रे पच्चक्खाण मन गह गही ।
- चाल - गह गही आठे देइ खमासणा, वस्त्र सघला आपणां,
 पहिलेहवा मात्रा तिणपरी, चरवले पूजण तणां ।
 देहनी चिन्ता काज जातां, करे भवगन ! आवस्सही,
 मारगे इरिया समिति सोधे, आवतो कहे निस्सिहि ॥४॥

ढाल-२

(बे कर जोडी विनवू जी, सुण स्वामी सुविदीत)
 हिव भवियण तुम सांभळो जी, गुरुने नमावे शीश ।
 सामायिक पौषध तणां जी, दूषण टालो बत्तीश ॥

- चाल - बत्तीश दूषण तनुना, मार बैसे पालठी
 अति अधिर आसन २, दृष्टि चंचल, ३ करे काया एकठी४।
 करे काम सावध५ ले उठींगण६ आलम७ करडकामोड८।
 खणे खाज९ विसांमण करावे१० ऊँघ करे११ मलछोडए१२।
- ढाल - वचन तणा दूषण दशे जी, जाणो इणे प्रकार ।
 कुवचन बोले१ लोकने जी, दे दूषण सहकार २ ॥
- चाल - सहसात कूड कंलक दे ३ वलि, आप छन्दे बोल ए ४
 संक्षेप सूत्र करे अलावो, ५ कलह कर नी टोल ए ६ ।
 उपहास करिने ७ करे विकथा, मांडी ८ने राखे पद संपदा ९
 आवे बैठो उछो एहवी, कहे भाषा सर्वदा १० ॥२॥
- ढाल - दश दूषण हिवेमन तणाजी, सांभलजो मन एक
 न्यून अधिक न लहे क्रियाजी मन मे नही विवेक ॥

चाल - सुविवेक जसु २ घनलाभ ३ वाञ्छे करे पौषघ वहितो ४
 पौषघ करीने करे नियाणो पुत्र प्रमुखने ईहतो ५ ।
 अभिमान ६ रीशे करे पौषघ ७ घरे फल सन्देह ए ८
 वली विनय विवेक ९ लगार न करे १०, मन दूषण दश
 एह ए ११

ढाल काया चचन मन तणा जी दूषण एह वतीस ।

टालेदूषण तेहना जी, पौषघ विश्वावीस ॥

चाल - विश्वावीस बोले नहीं वली, ऊँघाडो मुख आपणो,
 छूटा गृहीसु बात न करे पाच दूषण परिहरे ।

उपवास करिने दिवस पौषघ, नहिं कीघो तो निशि करे

इक पक्ष छोडी नहीं उत्तरा ध्ययन अक्षर अनुसरे ॥४॥

ढाल - चौपहरी पौषघ कह्यो जी, सुत्र सिद्धान्त विचार,
 हरिभद्र सूरि विचरो कह्यो जी, वाईस सहस्त्री सार,

चाल - वाईस सहस्त्री सार बाले, दिवस प्रते करवो नहीं,
 पौषघ अतिथि सविभाग बलि, पर्व दिवस करवो सही ।

उद्विद्ध शब्द तणे अर्थे, सीलाङ्काचारज कहे,

पौषघ पर्युषण पर्व कल्याणक, तिथिपणे ए आदरे ॥५॥

ढाल - उपधाने पौषघ कह्यो जी, महानिशीथ प्रमाण,

दुविहार तिथिहार जिमणों जी, एक विगय घृत जाण

चाल - घृत जाण आचरणा, परपर पूर्व आचार्ये कही ।

भगवन्त भाख्यो सत्य एहवो, खेंचा ताण करवी नहीं ।

तिथिहार पौषघ चार प्रहरी, अष्ट प्रहरी तिथ करी, ..

तीन गच्छ तणी आचरणा, अविधि वे पिण आदरी ॥६॥

ढाल-३

(तर्ज-कपूर होय अति उजलो रे)

साँझ समय थण्डिला करे रे, वारमांहि वारेवार ।

इरियावहि इम पडिकमे रे, जय तिहुअण करे सार,

संवेगी श्रावक! साचो पौषध एह, एतो भगवन्त भाख्यो तेह सं ॥टेरा॥

त्रिकरण शुद्ध करो तुम रे, जिम पामो भव छेह ।

अर्धविम्ब रवि आथमे रे, सूत्र कहो सुविचार ।

स्तवन कहे तिणहिज समे रे, तारा दीसे दो चार, संवेगी. ॥१॥

कालवेलायेइम पडिकमे रे, लांबी क्षमासणा देह ।

शुद्ध क्रियानी खप करे रे, मन संवेग धरे ह, संवेगी ॥२॥

दत्त कुशल काउसग्ग करे रे, प्रतिक्रमणाने छेह

प्रतिक्रमण पूरो थयो रे, खरतरनो विधी एह संवेगी ॥३॥

मधुर स्वरे राते करे रे, प्रहर सीम सज्जाय

गीत गावे वैरागना रे, पातक दूर पलाय, संवेगी ॥४॥

ढाल-४

(तर्ज - मार्ग देशख मोक्षनो रे)

बहु पडीपुण्णा पोरसी रे वन्दे देव उल्लास

संधारे गाथा भणे रे, खामे जीवोनी रासो रे ।

ते नर नारियाँ, सफल करे अवतारो रे,

निशि पोषध करे, भावे भावना बारो रे ते. ॥टेरा॥

पाप अठारे परिहरे रे, चित्त धरे शरणा चार

डाम संधारो संधारे, रे ध्यान धरे सुविचारो रे, ते. ॥१॥

- धर्म जागरिणा जागतो रे, करे मनोरथ एह,
 समय लेऊ जिण दिने रे, धन्य दिवस मुझ तेहो रे ॥२॥
- सख श्रावक पौषध कार्यो रे, वीर बखाण्यो रे तेह
 जिण परि तिण पौषध करो रे, तिम पामो शिवगेहो रे, ॥३॥
- वित्तभय पाढणनो घणी रे, नाम उदायन राय,
 तिण राते पौषध कियो रे, वीर बन्दन चित लायो रे ते ॥४॥
- तूगीया नगरी तणा, श्रावक शुद्ध अनेक,
 जिणविध ते पौषध कियो रे, तिम करजो सुविवेक रे ते ॥५॥
- बलिश्रावक पौषध कियो रे, आनन्दने कामदेव
 बलि दृष्टान्त सुबाहुनो रे, मन घरज्यो नित्यमेव रे, ते ॥६॥

ढाल ५

(तर्ज-महा मुनीश्वर नित नभूँ जी)

- पाछली राते ऊठीने हो, श्रावक होय सावधान ।
 राई प्रायच्छित काउसगग करे हो देववन्दे सुविधान,
 सवगी श्रावक हो पौषधनी विधि एह ॥टेर॥१॥
- मिलती सूश्र सिद्धान्तनी हो मन मत करज्यो सन्देह स ॥२॥
 उच्चस्वर बोले नहीं हो दोष कहा भगवन्त ।
- बलि सामायिक लेइने हो, प्रतिक्रमण करे तत स ॥३॥
 प्रतिलेखन किया करे हो, सघली पूरब रीत ।
- सहु सज्झाय किया पछे हो सुगुरू चन्दे धरि प्रीत स ॥४॥
 पहिली पौषध पारिने हो, सामायिक पण पार ।
- प्रतिलाभे अणगारने हो, अतिथी सविभाग विचार स ॥५॥
 विधि पौषध कर हो, बहु फलदायक होय ।
- अविधि सघाते कीजता हो काज सरे नहीं कोय स ॥६॥

- पिण विधिनी रूप कीजतां हो अविधि हुए जे काँच ।
 मिच्छामी दुक्कड दीजतां हो, छूटकवारो धाय स. ॥७॥
- पौषध औषध कर्म हो टाले दुर्गति दुःख ।
 अशुभ कर्म सहु क्षय करे हो, आपे शाश्वत सुख स. ॥८॥
- उत्कृष्ट पौषध तणी हो, यह विधि कही विस्तार, ।
 जेसलमेरी संघने हो, आग्रह कियो सुविचार स. ॥९॥
- सोलहसै सडसठ समे हो, नगर मरोठ मझार ।
 मिगसर सुदी एकमदिन हो, शुभदिन् सदगुरूवार स. ॥१०॥
- श्री “जिनचन्द सूरीश्वररू” हो श्री जिनसिंह सुरिन्द्र
 “सकलचन्द” सुपसायले हो “समय सुन्दर” भणे शीश ॥११॥

पाप आलोचन स्तवन

- बेकर जोडी वीनवूं जी, सुणि स्वामि सुविदीत,
 कूड़ कपट मूंकी करिजी, बात कहूँ आप वीत ॥१॥
- कृपानाथ मुझ वीनंती अवधार, तु समरध त्रिभुवन घणी जी,
 मुझनेदुत्तरतार कृ. १२। भव सायर भमतां घकांजी, दीठा दुःख
 अनन्त, भाग्य संयोगे भेटयो जी, भय भंजन भगवंत ॥क. ३॥
- जे दुःख भांजे आपणो जी-तेहने कटिये दुःख पर दुःख
 भंजण तूं सुणयो जी, सेवक ने द्यो सुख ॥कृ. ४ ॥
- आलोयण लीधा पखे जी, जीव रूलै संसार, रूपी लक्ष्मणा
 महासतीजी एह सुण्यो अधिकार ॥कृ. ५॥ दूषण काले
 दोहिलोजी, सूधो गुरू संयोग, परमारध प्रीछे नहिं जी, गडर
 प्रवाहि लोक ॥कृ. ६॥ तिण तुझ आगलि आपणा जी,
 पाप अलौऊं आज, मायबाप आगलि बोलतां जी, बालक,
 केहीलाज ॥कृ. ७। जिनधर्म जिनधर्म सहु कहे जी, थापे
 आपणीवात, सामाचारी जुई जुईजी, संसयपड्यो मिध्यात ॥कृ. ८॥

जाण अजाणपणे करीजी, बोल्या उत्सूत्र बोल-रतनेका,
 गडडावताजी हरयोजन्मनिटोल ॥कृ ९॥ भगवता -
 भाप्योतेकिहाजी किहामुझकरनीएह, गजपाखरखरकिम सहे जी,
 सवलविमासणतेह ॥कृ १०॥ आपपररूप्योआकरोजी,
 जाणेलोकमहत, पिणनकरू परम दियोजी, मा साहसदृष्टान्त
 ॥कृ ११॥ कालअनन्ते में लह्या जी, तीनरतनश्रीकार
 पिणपरमादेपाडियाजी, किहाजईकरू पुकार ॥कृ १२॥
 जाणुउत्कृटीकरूजी उद्यतकरूविहार, धीरजजीवधरैनहीजी,
 पोतेवहुससारा ॥कृ १३॥ सहजपडयोमुजआकरोजी, न
 गमेरूडीचात, परनिदाकरताथकाजी, जायेदिननेरात ॥कृ १४॥
 किरिया करता दोहिलीजी, आलसआणेजीव, धर्मपखे
 धधेपड्योजी, नरकेकरसैरीव, ॥कृ १५॥ अणहुतागुण-
 कांकहेजी,, तोहराखुनिशिदीश, कोहितसीक्षामलिकहेजी, तोम
 नआणुरीश ॥कृ १६॥ चादभणीविद्याभणीजी, पररज
 नउपदश, मनसवेगधरयोनहीजी, किम ससारतरेश ॥कृ १७॥
 सूत्रसिद्धातवखाणताजी, सुणताकर्मविपाक, खिण-
 एकममाहि अपजैजी, मूझमरकटवैराग ॥कृ १८॥
 त्रिविधित्रविधकरीउवरूजी, भगवततूहहजूर, वारवारभाजुव-
 लिजी, छूटक वारोदूर ॥कृ १९॥ आपकाजसुखराच
 ताजी, कीधाआरभकोड, जयणानकरीजीनवनीजी, देवदयापर-
 छोड ॥कृ २०॥ वचनदोषव्यापककह्याजी, दाख्याअ-
 नरघदड, कूड कपटवहुकेलवीजी, व्रतकीधारातखड ॥कृ २१॥
 अणदीधोलीजैतिणोजी, तेहिअदतादान, तेदूपणला-
 गाधणाजी गिणतानावेज्ञान ॥कृ २२॥ चचलजीवरहेन
 हींजी राचेरमणीरूप, कामविटचनसीकहुजी, तेनु जाणें स्वरूप

॥कृ. २३॥ मायाममतामंपडयोजी, कंधांअधिकोलोभ परि-
 ग्रहमेत्योकारमोजी, नचिडसंयमसोम, ॥कृ. २४॥ लागामुज-
 नेलालचेजी, रात्रभोजनदोष मॅमनमुक्कयोमांहरोजी, नधरयो-
 धर्मसंतोष ॥कृ. २५॥ इण भवपरभवदूहव्याजी, जीवचोरा-
 सीलाखतेमुजमिछामिदुक्कडंजी, भगवंततोरी साख्य ॥कृ. २६॥
 कर्मादानपनरैकह्याजी, प्रगटअढारेपाप, जेमॅकीधातेसहुजी, च-
 गशवगशमाइवाप ॥कृ. २७॥ मुजआधारछेएतलोजी, सर -
 दहणाछेशुद्ध, जिनधर्ममीठोजगतमॅंजी, जिमसाकरनेदूध ॥कृ. २८॥
 रिषभदेवतूंराजियोजी, सेत्रुंजगिरिसिणगार पापआलोया,
 आपणाजी, करप्रभुमोरीसार ॥कृ. २९॥ मर्मएहजिनध -
 र्मनोजो, पापआलोयाजाय, मनसुंमिछामिदुक्कडंजी देतादूर -
 पुलाय ॥कृ. ३०॥ तुंगतितुंमतितुं घणीजी, तुं साहिवतु -
 देव आणधरूं सिरताहरीजी, भवभवता हरिसेव ॥कृ. ३१॥

(कलश)

इमचढीयसेत्रुंजचरणभेटयाभिनंदन जिनतणा, करजो -
 डिआदिजिणंद, आगेपापआलोया आपणा, श्रीपूज्य जिनचंदसू-
 रिसदगुरूप्रथम शिष्य सुजशंधणे, गणिसकलचंदसुसवाचक,
 समयसुंदरगणिभणे ॥३२॥

पद्मावती आलोयण सज्झाय

हिवे राणी पदमावती, जीवराशि खमावे
 जाणपणुंजग ते भलुं, इण वेला आवे ॥
 ते मुझ मिछामि दुक्कडं, अरिहंतनी साख
 जे मॅ जीव चिराधिया, चउरासी लाख

॥ ते. २ ॥

सात लाख पृथ्वी तणा, साते अपकाय	
सात लाख ते उकायना, साते वली वाय	॥ ते ३ ॥
दस प्रत्येक वनस्पति, चउदह साधारण	
वीती चउरिद्रिय जीवना, वे बे लाख विचार	॥ ते ४ ॥
देवना तीर्यच नारकी, चार चार प्रकाशी	
चउदह लाख मनुष्यना, ए लाख चउरासी	॥ ते ५ ॥
इण भव परभव सेविया, जे पाप अढार	
त्रिविधरे करी परिहरू, दुरगति दातार	॥ ते ६ ॥
हिंसा कीधी जीवनी, वोल्या मृषावाद	
दोष अदत्ता दानना, मेथुन उन्माद	॥ ते ७ ॥
परिग्रह मेल्यो कारिमो, कीधो क्रोध विशेष	
मान माया लोभ में किया, वली रागने द्वेष	॥ ते ८ ॥
कलह करी जीव दूहव्या, दीनाकूडा कलक	
निन्दा कीधी पारकी, रति अरति निशक	॥ ते ९ ॥
चाडी खाधी चोंतरे, कीधो थापण मोसो	
कुगुरू कुदेव कुधर्मनो, भलो आप्यो भरोसो	॥ ते १० ॥
खाटकी भवे में किया, जीवना वधघात	
चिडीमार भवे चिडकला मार्या दिन रात	॥ ते ११ ॥
माछीमार भवे माछला झाल्या जलवास	
धीवर भील कोली भवे, मृग मार्यापास	॥ ते १२ ॥
काजी मुल्लाने भवे, पढी मत्र कठोर	
जीव अनेक भवै किया, किधा पाप अघोर	॥ ते १३ ॥
कोटवालने भवे मे किया, आकरा कर दड	
वदीवान मराविया, कोरडा छडी दड	॥ ते १४ ॥

परमाधामीने भवे, दीधा नारकी दुक्ख	
छेदनि भेदन वेदना, ताडवा अति तिक्ख	॥ ते. १५ ॥
कुंभार ने भवे मै किया । निम्माह पचाव्या	
तेलीभवतिलपीलीया, पापे पेट भराव्या	॥ ते. १६ ॥
हालीने भव हल खेडिया, फाडयां पृथ्वीना पेट	
सूड निदान घणा कियां, दीधा वलध चपेट	॥ ते. १७ ॥
मालीनेभवे रोपियां, नानाविध वृक्ष	
मूल पत्र फूल फलनां, लाग्या पाप ते लक्ष	॥ ते. १८ ॥
अधोवाइयाने भवे, भर्या अधिका भार	
पोटी उंट कीडा पडया, दया नावी लगार	॥ ते. १९ ॥
छीपाने भवे छेतर्या, कीधां रांगणि पास	
अगनि आरंभ किया घणा, धातुर्वाद अध्यास	॥ ते. २० ॥
सूरपणे रण झूंझता, मार्या माणस वृंद	
मदिरा मांस भक्ष्याघणां, खाधा मूलने कंद	॥ ते. २१ ॥
खाण खमाणी धातुनी, पाणी ऊलंच्या	
आरंभ कीधा अतिघणा, पोते पापज संच्या	॥ ते. २२ ॥
अंगार कर्म कियावली, धरमें दव दीधां	
सुंस लेई वीतरा गना, कूडा कोशज पीधा	॥ ते. २३ ॥
विल्ली भव उंदर लिया, गीलोई हत्यारी	
मूढ गमार तणे भवे, मै जूं लीख मारी	॥ ते. २४ ॥
भडभूंजा तणे भवे, ऐकेन्द्रिय जीव	
ज्वारी चिणा गहुं सेकिया, पांडता रीव	॥ ते. २५ ॥
खांडण पीसण गारना, आरंभ अनेक	
रांधण इंधण आगिना, किया पाप उदेग	॥ ते. २६ ॥
विकथा चार दीधी वली, सेव्यां पंच प्रमाद	

इष्ट वियोग पाड्या किया, रोदन विषवाद	॥ ते २७ ॥
साधु अने श्रावक तणा, व्रत लेई भाग्या	
मूल अने उत्तर तणा, दूषण मुझ लाग्या	॥ ते २८ ॥
साप विच्छु सिंहचीतरा, शिकाराने शमली	
हिंसक जीव तणे भवे, हिंसा कीधी सबली	॥ ते २९ ॥
सुआवडी दूषण घणा, वली गरभ गलाव्या	
जीवाणी ढोल्या घणा, शीलव्रत भजाव्या	॥ ते ३० ॥
भय अनत भमता थका, किया कुटुम्ब सबध	
त्रिविध त्रिविध करी वोसरू तिणसु प्रतिवध	॥ ते ३१ ॥
भय अनत भमता थका, कीधा परिग्रह सबध	
त्रिविध त्रिविध करी वोसरू, तिणसु प्रतिवध	॥ ते ३२ ॥
इण भव परभव परे, कीधा पाप अश्वत्र	
त्रिविध त्रिविध करी वोसरू, करू जन्म पवित्र	॥ ते ३३ ॥
सम वैराडी जे सुणे, ए त्रीजी ढाल,	
समय सुदर कहे पापथी, छुटे ततकाल	॥ ते ३४ ॥

— समाप्त —